



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 23—फरवरी 29, 2008 (फाल्गुन 4, 1929)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 23—FEBRUARY 29, 2008 (PHALGUNA 4, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2008

शुद्धिपत्र

सं. 01/6/004-प्रशासन/3355--आयोग के दिनांक 30.01.2008 की अधिसूचना सं.-01/06/044-प्रशासन/2789 के आंशिक आशोधन में श्री आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय की आयोग में उप सचिव के पद पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की तिथि दिनांक 07.01.2008 (अपराह) (जैसा कि असावधानी से उक्त अधिसूचना में उल्लिखित है) के स्थान पर 07.01.2008 (पूर्वाह) से प्रभाव में आएगी।

सतविंदर सिंह

अवर सचिव (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयोग

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जनवरी 2008

सं. ओ-दो-1886/83-सी.आर.सी. (चिकित्सा)--इस महानिदेशालय, के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 12.11.2007 के क्रम में, डॉ. अशोक कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ओ.जी.) (इरला-2135) संयुक्त अस्पताल, के.रि.पु. बल, हैदराबाद (आ.प्र.) को इस बल की नफरी से निकालने की दिनांक को 11.10.2007 (अपराह) के स्थान पर दिनांक 12.10.2007 (पूर्वाह) पढ़ा जाए।

रणजीत सिंह

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002, दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. प्रशा. I/का.आ.सं. 262--महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व ने श्री योगेन्द्र कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी को, जो वर्तमान में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, अगले निचले नियम (NBR) के प्रावधान के अन्तर्गत 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 01.01.2008 (पूर्वा.) से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोफोर्मा पदोन्नति सहर्ष प्रदान की है।

ह./- अपठनीय
उप-निदेशक (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओड़िशा

भुवनेश्वर, दिनांक 28 जनवरी 2008

सं. प्रशा (सि.ले.)-17-2(लेपअ)भाग-V/2226--ज्ञापन सं. प्रशा (सिले)/17-2(लेपअ)/भाग-V/1779 दिनांक 29.11.2007 द्वारा सूचित का.आ. ग-886 दिनांक 29.11.2007 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1.	श्री सुनाराम हेम्रम	03.12.2007 (पूर्वाह)

त्रिलोचन आचार्य
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. डब्ल्यू.एम. I/क्यू-55(जी)/खण्ड-II/2922-2925-- महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतनमान रुपये 7,500-250-12,000/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम
1.	श्री सहदेव पात्र
2.	श्री काशीनाथ चक्रवर्ती

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ.आर. 22(1)(क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

ह./- अपठनीय
उप-महालेखाकार (लेखा)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 23 जनवरी 2008

सं. प्रशा. I/ए एण्ड ई/4-26/2007-2008/160--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने सहर्ष अनुमति के साथ अनुभाग अधिकारी को पदोन्नत किया जाता है ताकि नीचे दर्शाये गये नामित कर्मचारियों, प्रस्तुत दिनांक से रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में स्थानान्तर रूप में सहायक लेखा अधिकारी के पद में काम करेंगे:--

क्र. सं.	नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी	
1.	एम. श्रीनिवास प्रसाद	01.01.2008
2.	एस. के. एस. वर्मा	01.01.2008
3.	एस सुजाउद्दीन	01.01.2008
4.	ई. ज्योति	01.01.2008
5.	एम गुरुदेवलथ	01.01.2008
6.	एम. एल. आर. कुमारी	01.01.2008
7.	के जया राव	01.01.2008
8.	के समते	21.01.2008
9.	डब्ल्यू. एम. आर. सिलस	01.01.2008
10.	आर मनोहर सिंह	01.01.2008
11.	रजिना मेथु	01.01.2008
12.	बी. आर. जयातिथी	01.01.2008
13.	के. एस वसुंधरा	01.01.2008
14.	वी. उषा कुमारी	01.01.2008
15.	एम. रामचन्द्र राव	01.01.2008
16.	ई. राघुनाथा राव	01.01.2008

यदि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रिट अर्जी लंबित है। इसके अलावा भी यह पदोन्नति बिना किसी वरिष्ठ कर्मचारी का दबाव या बिना पूर्वग्रह आदेश के जारी किया जाता है।

ई. श्रीनिवासन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), कर्नाटका

बेंगलूर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. ईएस I/ए 8/ए ओ/2007-2008/147--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान पर दिनांक 01.01.2008 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नति किया है:--

क्र. सं.	नाम	कर्मचारी कोड संख्या	अभियुक्तियां
श्री/श्रीमती			
1.	साइनाथ के	के ए बी एन ई 2090050	--
2.	रमामणी एस. ए.	के ए बी एन ई 2090051	--

2. मूलभूत नियमावली एफ आर 22(I)(ए)(i) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अंदर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह./- अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. ईएस I/ए 8/2007-2008/148--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान पर दिनांक 01.01.2008 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक सहायक लेखा अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति किया है:--

क्र. सं.	नाम	कर्मचारी कोड संख्या	अभियुक्तियां
1	2	3	4
श्री/श्रीमती			
1.	राणी पी.	के ए बी एन ई 2090186	
2.	उषा तोमस	के ए बी एन ई 2090187	
3.	निरंजना टी. के.	के ए बी एन ई 2090188	प्रधान म. ले. (लेखा परीक्षा)
4.	गीता बी (I)	के ए बी एन ई 2090189	बेंगलूर में प्रतिनियुक्ति पर
5.	सूमा बी. एस	के ए बी एन ई 2090190	धे
6.	गायत्री श्रीनाथ	के ए बी एन ई 2090191	
7.	आशा टी एम	के ए बी एन ई 2090192	
8.	नलिनी बालकृष्णन	के ए बी एन ई 2090193	

1	2	3	4
9.	महादेव एम.	के ए बी एन ई 2090194	प्रधान म. ले. (लेखा परीक्षा)
10.	उषादेवी एन. एस.	के ए बी एन ई 2090195	बेंगलूर में प्रतिनियुक्ति पर
11.	नलिनी नायडु डी.	के ए बी एन ई 2090196	धे
12.	बृन्दाराणी बी. पी.	के ए बी एन ई 2090197	
13.	लता सराथी एम. सी.	के ए बी एन ई 2090199	

2. श्रीमती सुमा बी. एस (क्रम सं. 5) जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनकी पदोन्नति 'नेवस्ट बिलो रूल' पर आधारित है और उनकी पदोन्नति पैनल में उनके कनिष्ठ श्रीमती गायत्री श्रीनाथ, सहायक लेखा अधिकारी का कार्यभार संभालते ही प्रभावी होगा।

3. मूलभूत नियमावली एफ आर 22(I)(ए)(i) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अंदर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

4. संबंधित शाखा अधिकारियों द्वारा अपना कार्यभार रिपोर्ट प्रेषित करना है।

5. कार्यभार ग्रहण करते समय से दो (2) साल तक उन्हें "प्रोबेशन" में रहना होगा।

ह./- अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110605, दिनांक 07 फरवरी 2008

सं. प्रशा.-I/1880/5/II--राष्ट्रपति, रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी, श्री एस. एस. मोहन्ती, को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.07.1985 के का. ज्ञा. सं. 8/4/84-स्था.(वेतन-I) के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 22 जुलाई, 1998 से तथा आगामी आदेशों पर्यंत "ठीक निचले नियम" के अधीन वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विश्वजीत सहाय
रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)

खान मंत्रालय

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 238ए/ए-32013/4-वेधक(श्रेणी-II)/2006/19बी-- विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायक (वेधन) श्रेणी के अधिकारियों की वेधक श्रेणी-II के पद पर इसी विभाग में रुपये 6,500-200-10,500/- के

वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री नील रतन प्रसाद	मध्य क्षेत्र कार्यालय, भा.भू.स. नागपुर	02.08.2007
2.	श्री के. सी. हौसदा	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, भा.भू.स. कोलकाता	03.08.2007
3.	श्री एम. एस. पांडेयन	दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय, भा.भू.स. हैदराबाद	03.08.2007
4.	श्री हरिहर राव	दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय, भा.भू.स. हैदराबाद	03.08.2007
5.	श्री आर. राधा कृष्णन	दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय, भा.भू.स. हैदराबाद	06.08.2007
6.	श्री जोगिन्दर नाथर सिंह	ए.एम.एस.ई. विंग, भा.भू.स. बंगलौर	03.08.2007
7.	श्री बी. प्रसाद	ए.एम.एस.ई. विंग, भा.भू.स. बंगलौर	03.08.2007
8.	श्री के. एल. मीणा	पश्चिम क्षेत्र कार्यालय, भा.भू.स. जयपुर	03.08.2007

डी. टी. सिम्लेह
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते: महानिदेशक

दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. 2906बी/ए-32013/डी.डी.जी.(भूवि.)/2006/19ए-- विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 1102 एस.पी. से 1105 एस.पी., 980बी से 981बी/ए-32013/डी.डी.जी.(भूवि.)/2006/19ए दिनांक 04.04.2007 में दिए गए निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार किए जाने पर राष्ट्रपति जी निम्नलिखित निदेशक (भूविज्ञान) (चयन श्रेणी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को उपमहानिदेशक (भूविज्ञान) के पद पर इसी विभाग में तथा रुपये 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर अस्थायी स्थानापन्न रूप में आगामी आदेश तक अधिकारी के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	डॉ. बलराम चट्टोपाध्याय	उपमहानिदेशक (भूविज्ञान)	06.04.2007

डी. टी. सिम्लेह
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते: महानिदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 28 जनवरी 2008

सं. 18/16/2005-ईआर-I--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में रुपये 26,000/- के (नियत) वेतनमान में श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा की नियुक्ति के कार्यकाल को दिनांक 14 जनवरी 2008 से 6 माह की अवधि के लिए विस्तारित करते हैं।

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 24 जनवरी 2008

सं. भापाबो/भर्ती/4/(16)/2008/107--राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्र (कोटा/बड़ौदा/तूतीकोरिन/तालचेर/मणुगुरु) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता को नीचे कॉलम सं. 4 में दर्शाये गए पद पर उनके सामने दर्शाये गये दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी संयंत्र में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। पदों के वेतनमान भी नीचे दर्शाये गये हैं:--

क्रम सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	संयंत्र	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1.	विजय नाथ दुबे	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोटा	01.02.2007
2.	महेश कुमार राहुल	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोटा	01.02.2007
3.	नरेन्द्र कुमार जैन	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोटा	01.02.2007
4.	मदन मोहन लोहानी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोटा	01.02.2007
5.	विनोद कुमार सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	कोटा	01.02.2007
6.	आदित्य कुमार श्रीवास्तव	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	कोटा	12.02.2007

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
7.	सुरेन्द्र सिंह नटवरसिंह वांसिया	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	बड़ौदा	01.02.2007
8.	शरणभाई चीमनलाल शाह	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	बड़ौदा	01.02.2007
9.	राजकुमार ज्योतिस्वरूप भटनागर	वैज्ञानिक सहायक/एफ	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	बड़ौदा	01.02.2007
10.	व्यागप्पन सिप्रियन पैट्रिक अमरनाथ	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तूतीकोरिन	01.02.2007
11.	जयारामन विजयारंगा वेंकटेशन	वैज्ञानिक सहायक/एफ	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तूतीकोरिन	01.02.2007
12.	सुबीर कुमार भौमिक	वैज्ञानिक सहायक/एफ	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तालचेर	01.02.2007
13.	गौनि ब्रह्मानन्दा रेड्डी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.02.2007
14.	व्यादशि श्रीनिवास राव	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.02.2007
15.	डॉ. ताडेपत्ती विजय कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.02.2007
16.	अवधनं रामा मोहन	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.02.2007
17.	प्रवाकर प्रधान	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.02.2007
18.	रोहित कुमार पाणिग्राही	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.02.2007
19.	कापदास योहान	वैज्ञानिक सहायक/ई	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.02.2007

उपरोक्त अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

- वेतनमान:-- 1. वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड-ई - रु. 12,000-375-16,500/-
2. वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड-डी - रु. 10,000-325-15,200/-

आर. के. सैनी
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 12 फरवरी 2008

सं. नाईस/काप्रभ-II/8-2007/43--मुख्य कार्यापालक, एनएफसी, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक सहायक ग्रेड 'सी' को वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता "एसबी" (वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/-) के ग्रेड में, भावी आदेश होने तक, इसी इकाई में स्थानापन्न हैसियत में 01.08.2007 से नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम
1.	श्री ए. श्रीनिवास चारी
2.	श्रीमती सी. जया शीला
3.	श्री के. वेंकटेश्वर
4.	श्री बी. रमेश बाबू
5.	श्री जी. अशोक कुमार

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 फरवरी 2008

सं. 12/05/2007/रेगुलर/9843.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त निम्नलिखित कम्पनियों का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जायेंगी:--

क्र. सं.	रजिस्टर्ड सं.	कम्पनियों का नाम
1	2	3
1.	132564	मैसर्स ट्रुफुट जूसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	059219	मैसर्स अविष्कार कम्प्यूटर्स लिमिटेड

1	2	3
3.	029714	मैसर्स अशिमोन ट्रेड लाईनेक्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	125883	मैसर्स आधारशिला बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड
5.	127199	मैसर्स दामीनी बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड
6.	127690	मैसर्स वरून बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड
7.	060114	मैसर्स आर्यामेन सिक्वोरटीज लिमिटेड
8.	060115	मैसर्स आर्यामेन शेयर रजिस्ट्री लिमिटेड
9.	082476	मैसर्स शामभावी प्रिन्ट्स लिमिटेड

बी. के. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जालन्धर-144033, दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. एसईएस-2005/560/1829--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त निम्नलिखित कम्पनियों का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो इन कम्पनियों का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और ये कम्पनियां विघटित कर दी जायेंगी:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	26861	मैसर्स एन्टीलोप शिप मैनेजमेंट एण्ड कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	8232	मैसर्स नीलकमल टेलर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3.	22765	मैसर्स राईस इन्फोटेक सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड
4.	17941	मैसर्स क्लास एपार्ट फैशनज़ प्राईवेट लिमिटेड
5.	3262	मैसर्स ब्रिज फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	3789	मैसर्स सवरूपसन्ज ट्रैवलज एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	29050	मैसर्स गुरु हर क्रिशन जी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
8.	26073	मैसर्स विताशा इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
9.	15468	मैसर्स एपैक्स टुटोरियलस प्राईवेट लिमिटेड
10.	16223	मैसर्स एम एम काटस्पिन लिमिटेड
11.	15843	मैसर्स मुखमेलपुर गैसज प्राईवेट लिमिटेड
12.	15813	मैसर्स माता नैना देवी स्पनिंग मिल्स लिमिटेड

1	2	3
13.	10359	मैसर्स ऐग्रो होलडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	30247	मैसर्स ऐमन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

के. सी. मीना
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल एण्ड चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जगमेरू ग्रेनीमार्मो टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/7834/11412--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स जगमेरू ग्रेनीमार्मो टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भरतपुर टोल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/9307/11416--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स भरतपुर टोल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुलाबचन्द बटवारा टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/17405/1577--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स गुलाबचन्द बटवारा टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

नहीं किए तो कम्पनी का नाम रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विकास केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8972/1590--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स विकास केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हरि ओम स्पेशल गैसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 2 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./560/23090/01--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स हरि ओम स्पेशल गैसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसडीएम मेडिकन्सल्टेन्ट्स एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./560/15967/23--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स एसडीएम मेडिकन्सल्टेन्ट्स एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कृतिका केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./560/9522/27--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स कृतिका केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नीमराना ऑर्गेनीक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./560/18628/110--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स नीमराना ऑर्गेनीक प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

पटना-800001, दिनांक 7 फरवरी 2008

सं. आर ओ सी पैट 560(5)/7861--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया जाता है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	4420	मैसर्स कुमार डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	10802	मैसर्स मुन्शी मोदी मल्टीलिंक ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	2656	मैसर्स गुलराज स्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	6702	मैसर्स सैनिक वेलफेयर सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
5.	2984	मैसर्स पारसमनी केमिकल एण्ड ऑयल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	8882	मैसर्स अपार ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड
7.	4850	मैसर्स रूंगटा इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
8.	1502	मैसर्स छोटानागपुर दिल्ली बॉडी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
		के. प्रसाद कम्पनी रजिस्ट्रार बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिलेनियम एरोस्पेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

सं. 00031/122954/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मिलेनियम एरोस्पेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विटो डायकेम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

सं. 00028/122950/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विटो डायकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. टी. एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

सं. 00025/122934/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर. टी. एग्रो प्राईवेट

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच के फाईन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

सं. 00022/122926/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एच के फाईन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्वरन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

सं. 00019/122919/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्वरन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुक्शम एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

सं. 00016/122915/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुक्शम एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

~~3~~-466/GI/2007

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. 00857/115741/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डेये ब्रीडर्स एण्ड लाइवस्टोक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे. टी. टी. प्रोसेसिंग एण्ड पैकिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

सं. 00174/147161/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जे. टी. टी. प्रोसेसिंग एण्ड पैकिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उमेश हैटचेरिज एण्ड हॉर्टीकल्चर फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

सं. 00225/47372/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स उमेश हैटचेरिज एण्ड हॉर्टीकल्चर फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नैचरल ब्रेव्हस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

सं. 00187/147975/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नैचरल ब्रेव्हस् प्राईवेट

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोदावरी बेदाणा प्रकाच प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

सं. 00193/149715/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोदावरी बेदाणा प्रकाच प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जयेन स्पाईस फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

सं. 00200/148048/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जयेन स्पाईस फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री ब्रॉयलर फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

सं. 00239/052463/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री ब्रॉयलर फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. 00652/101333/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्लाटिनम पोल्ट्री एण्ड हैटचेरिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्वेस्ट-कॉन कम्प्यूटर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

सं. 00358/124142/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्वेस्ट-कॉन कम्प्यूटर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सैटेलाइट ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

सं. 00355/124141/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सैटेलाइट ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इनफोलोजिक्यू (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

सं. 00321/124099/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इनफोलोजिक्यू (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रेयरकेम इलेक्ट्रो-हीट इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

सं. 00302/124067/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रेयरकेम इलेक्ट्रो-हीट इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इनोविजन एडवरटाइजिंग एण्ड प्रिंटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

सं. 00288/124064/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इनोविजन एडवरटाइजिंग एण्ड प्रिंटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीसिना पैलेस होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

सं. 00108/123981/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रीसिना पैलेस होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिराख इनवेस्टमेंट कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

सं. 00082/123898/(560)(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिराख इनवेस्टमेंट कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न

सं. 00391/126416/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अल्ब्रौटस शिपिंग

सं. 00163/126153/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साई बालाजी होलीडेज

सं. 00496/126579/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पनामा सोफ्टवेयर

सं. 00234/104521/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुगी फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

सं. 0095/107636/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुगी फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्वराकार टेलिकॉम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

सं. 00145/107001/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्वराकार टेलिकॉम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सायप्रो डाय फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

सं. 00051/107680/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सायप्रो डाय फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुंदर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शेटये स्टील उद्योग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

गोवा-403001, दिनांक 6 फरवरी 2008

सं. यू-27108/जीए/1995/पीटीसी/001910/8206--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स शेटये स्टील उद्योग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किये गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से

इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमर सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

गोवा-403001, दिनांक 6 फरवरी 2008

सं. यू-30007/जीए/1997/पीटीसी/002359/8209--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अमर सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किये गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जनेटीक कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

गोवा-403001, दिनांक 6 फरवरी 2008

सं. यू-52392/जीए/1997/पीटीसी/002356/8212--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स जनेटीक कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किये गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शाह शू मैक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

गोवा-403001, दिनांक 6 फरवरी 2008

सं. यू-19201/डीडी/1991/पीटीसी/001107/8215--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स शाह शू मैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किये गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इंडियामार्ट इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

गोवा-403001, दिनांक 6 फरवरी 2008

सं. यू-74999/जीए/1997/पीटीसी/002378/8224--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स इंडियामार्ट इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किये गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साईराज स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

गोवा-403001, दिनांक 6 फरवरी 2008

सं. 24-02719/8227--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स साईराज स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किये गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शमैका पार्कस व एम्प्यूजमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. 2007 का मेघालय की 13-004612/1327--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शमैका पार्कस व एम्प्यूजमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नामचिक माईनिंग व इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. 2007 का अरुणाचल की 23-005728/1328--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नामचिक माईनिंग व इंजीनियरिंग कम्पनी

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भन्ध फरेष्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. 2007 का असम की 02-004687/1429--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भन्ध फरेष्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओरिएन्ट ऑटो व्हीलस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. 2007 का असम की 02-004694/1330--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओरिएन्ट ऑटो व्हीलस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे डी एन्ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. 2007 का असम की 02-005899/1331--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जे डी एन्ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता-700020, दिनांक 7 फरवरी 2008

सं. क.र./प.ब./आई पी सी/560(एसएम)/07--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र.सं.	सीआईएन सं.	कम्पनी का नाम
1	U74940WB1982PTC34500	ए बी स्टेशनर्स प्रा०लि०
2	U99999WB1984PLC037253	ए जे गैस एप्लियान्सेज मैनुफैक्चरिंग कं. लिमिटेड
3	U99999WB1981PTC033742	ए.एम.इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
4	U45201WB1993PTC60357	ए.के.पाल कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
5	U45201WB1982PTC34952	आर्थर प्रोपर्टीज प्रा०लि०
6	U51109WB1994PTC65577	आशरा टाई-अप प्रा०लि०
7	U74999WB1994PTC65895	अबी डायविंग सर्विसेज प्रा०लि०
8	U31300WB1994PTC65896	अबी स्पेशियलिटी प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
9	U64120WB1995PTC72991	एकोर्ड एक्सप्रेस सर्विसेज प्रा०लि०
10	U31102WB1981PTC33785	एस ट्रान्समिशन प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
11	U45201WB1993PTC59425	एकोलाईट कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
12	U27105WB1965PTC26707	एकरॉय एलॉयड स्टील कं. प्रा०लि०
13	U74300WB1977PTC30964	एड थियेटर प्रा०लि०

14	U70101WB1998PTC86835	आदि शक्ति कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
15	U51229WB1998PTC86344	एडियम कम्बाईन्ड प्रा०लि०
16	U51109WB1990PTC48203	ऐरोफिन होल्डिंग्स प्रा०लि०
17	U50101WB1954PTC21670	एजेन्सी सर्विसेज प्रा०लि०
18	U70101WB1995PLC74873	एजीएम प्लान्टेशन फिनान्स एण्ड क्रेडिट इण्डिया लिमिटेड
19	U65929WB1992PLC56832	अहोरोन फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
20	U63090WB1994PTC63062	एयर बोर्न ट्रेवेल्स प्रा०लि०
21	U51109WB1997PTC84826	एयर जेट कुरियर एण्ड कार्गो प्रा०लि०
22	U51909WB1998PTC86548	एजे ओवरसीज प्रा०लि०
23	U25201WB1998PLC86769	अक्षय सिन्थेटिक्स लिमिटेड
24	U29130WB1984PLC37178	अलकनन्दा विनियोग लिमिटेड
25	L99999WB1984PLC037366	अलंकृत पेपर्स लिमिटेड
26	U70101WB1997PTC86072	अलारिक डेवलपर्स प्रा०लि०
27	U28999WB1980PTC32644	अल्को एसोसियेट्स प्रा०लि०
28	U51391WB1965PTC26712	अल्कॉन (एजेन्सी) प्रा०लि०

29	U40108WB1993PTC60002	अल्फा रेनेवेबल एनर्जी डिवार्डसेज एण्ड सिस्टेम्स प्रा०लि०
30	U15138WB1977PTC30905	अलियाह होटेल प्रा०लि०
31	U99999WB1911PLC02232	अलिपुरदुआर लोन कम्पनी लिमिटेड
32	U99999WB1964PTC026017	ऑल मेकेनिकल प्रा०लि०
33	U01111WB1997PTC86202	एलॉयड एग्रोटैक प्रा०लि०
34	U24119WB1998PTC88096	आलो एण्ड कम्पनी मेटल प्रा०लि०
35	U74300WB1979PTC32380	अल्फा ग्लोब्स प्रा०लि०
36	U51395WB1997PTC85993	अल्प्स कूलिंग कम्पनी प्रा०लि०
37	U51103WB1993PTC60313	अल्टोस डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
38	U88135WB1998PTC88135	एएम राइस मिल प्रा०लि०
39	U45203WB1972PTC28245	अमलगेमेटेड इन्टरप्राइजेज (कंस्ट्रक्शन्स) प्रा०लि०
40	U22190WB1979PTC32115	अमर ग्रन्थ प्रकाशन प्रा०लि०
41	U32109WB1965PTC26702	अम्बा इलेक्ट्रीकल्स प्रा०लि०
42	U51109WB1998PTC86717	अम्बिका मर्केन्टाईल एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
43	U74140WB1997PTC84511	एएमजी कंसल्टेंट्स प्रा०लि०

44	U85195B1972PTC28476	अनालैब केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटोरी प्रा०लि०
45	U74140WB1999PTC88664	अलालिटिकल इन्जीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
46	U17299WB1997PTC84571	आनंद ओवरसीज प्रा०लि०
47	U51909WB1998PTC87803	अन्दुल मेकेनिकल वर्क्स प्रा०लि०
48	U51109WB1998PTC86590	अनिता-एन-अल्स कनेक्शन्स प्रा०लि०
49	U45309WB1998PTC86518	अंजानेया बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा०लि०
50	U15143WB1999PTC90419	अन्नापूर्णा सोल्वेंट प्रा०लि०
51	U24233WB1998PTC86403	अन्यौल फार्मा प्रा०लि०
52	U74210WB1997PTC85431	अपेक्स इण्डस्ट्रीयल एण्ड फिनान्शियल कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
53	U24231WB1976PTC30399	अपेक्स फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०
54	U72300WB1995PTC73335	अपना कम्प्यूटर्स प्रा०लि०
55	U31300WB1990PTC48540	एपीएस इन्सुलेशन प्रा०लि०
56	U15424WB1965PTC26669	आरामबाग सुगर मिल्स प्रा०लि०
57	U65993WB1980PTC32761	एरीना इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
58	U74210WB1967PTC27130	अरेसेन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०

59	U65993WB1982PLC34936	आरगोसी फिनान्स एण्ड इण्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट ((इण्डिया) लि.
60	U51909WB1994PTC64409	अरिध ट्राकॉन प्रा०लि०
61	U17297WB1972PLC28321	अरिहंट केमिकल फाइबर्स लिमिटेड
62	U51909WB1998PTC87622	एरिस्टो ट्रेडफिन प्रा०लि०
63	U51909WB1994PTC64908	अरियादन मर्चेन्डाईज प्रा०लि०
64	U74210WB1990PTC48848	अरोमेटिक तार ऑयल्स प्रा०लि०
65	U51229WB1990PTC48746	अर्पण ट्रेड एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०
66	U21019WB1954PTC21666	आर्ट प्रेस ऑफ इण्डिया प्रा०लि०
67	U22121WB1954PTC21495	आर्टिन प्रेस प्रा०लि०
68	U31908WB1973PLC28925	अरुण स्टील्स एण्ड एलॉयज लिमिटेड
69	U51909WB1993PTC60087	अरविन्द विनिमय प्रा०लि०
70	U24232WB1994PTC65518	आर्यभट लेबोरेटोरिज प्रा०लि०
71	U65910WB1993PLC57939	आशार आलो फिनान्शियल सर्विसेज लिमिटेड
72	U63040WB1998PTC88421	आर्शिवाद एजेन्सी प्रा०लि०
73	U26914WB1980PTC32942	आशिश रिफ्रेक्टोरीज एण्ड इन्जीनियर्स प्रा०लि०

74	U70101WB1998PTC86798	आशियाना निकेतन प्रा०लि०
75	U27202WB1972PLC28426	अशोक स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड
76	U51109WB1995PTC68628	ऐस्पेक्टिव सेल्स एजेन्सीज प्रा०लि०
77	U15491WB1919PLC3543	आसाम सिल्हेत टी कं. लिमिटेड
78	U70101WB1998PTC86442	एसोसियेटेड इन्क्लेव प्रा०लि०
79	U51909WB1954PTC21897	एसोसियेटेड मार्केटिंग कं. प्रा०लि०
80	U34102WB1982PLC34462	एसोसियेटेड डीलर्स लिमिटेड
81	U99999WB1964PTC026024	एटलस ओर्स एण्ड मिनेरल्स प्रा०लि०
82	U70109WB1995PTC74343	औध प्रोपर्टीज प्रा०लि०
83	U51109WB1995PTC73897	औरोविल कोमोडिटीज प्रा०लि०
84	U67120WB1982PLC34967	एवेनिर फिनान्स एण्ड जेनरल इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड
85	U70101WB1997PTC85558	अविनाश अभिषेक प्रोपर्टीज प्रा०लि०
86	U74300WB1998PTC86773	आदिष्कार कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रा०लि०
87	U51109WB1997PTC85240	एएक्सएस इण्डिया प्रा०लि०
88	U70109WB1997PTC84775	बी बी हाउसिंग प्रा०लि०

89	U65992WB1970PTC27683	बी बी आर चिट फण्ड प्रा०लि०
90	U92132WB1998PTC86247	बी के ट्रान्सकॉम प्रा०लि०
91	U51216WB1980PTC32666	बी वी लेदर इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
92	U51395WB1990PTC48758	बी.डी.इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
93	U15116WB1976PTC30462	बी.जे.मीट पैकर्स प्रा०लि०
94	U67120WB1972PLC28417	बी.एस.के.इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
95	U27101WB1998PTC86305	बी.एस.आर.मेटल वर्क्स प्रा०लि०
96	U99999WB1972PTC028502	बी.एस.एस.प्रेसिजन टूल्स एण्ड इक्युपमेंट्स कं. प्रा०लि०
97	U70109WB1997PTC84587	बाबा लोकनाथ प्लान्टेशन इण्डिया प्रा०लि०
98	U99999WB1972PTC028629	बागरी एलुमिनियम ट्यूब्स प्रा०लि०
99	U15495WB1979PTC32257	बैद्यनाथ दत्ता स्पाईसेज कं. प्रा०लि०
100	U63022WB1967PTC27008	बैद्यपुर कोल्ड स्टोरेज इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
101	U01111WB1997PTC85988	बनानी एग्रो फार्मिंग प्रा०लि०
102	U22219WB1967PTC27113	बंदना इम्प्रेसन प्रा०लि०
103	U51909WB1964PTC26156	बनर्जी चक्रवर्ती एण्ड कं.(सप्लाय एण्ड एजेन्सीज) प्रा०लि०

104	U22211WB1998PTC88069	बंग दर्पण प्रिन्टर्स प्रा०लि०
105	U45201WB1974PTC29565	बंगबासी ऑवनरशिप होम्स एण्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रा०लि०
106	U51109WB1994PTC63969	बॉकुड़ा एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
107	U14104WB1982PTC34656	बॉकुड़ा पोरसेलैन प्रा०लि०
108	U99999WB1984PLC037096	बनयान स्मॉल सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
109	U27109WB1998PTC86793	बसंत लाल नरेश कुमार फाउण्डेयर्स प्रा०लि०
110	U18101WB1966PTC26919	बेनारस एप्पारेल्स प्रा०लि०
111	U28112WB1964PTC26135	बेड्स इण्डिया प्रा०लि०
112	U99999WB1910PLC002229	बेंगाल दुआर्स बैंक लिमिटेड
113	U92111WB1993PTC57476	बेंगाल फिल्म पब्लिसिटी एसोसियेशन
114	U01115WB1982PTC34918	बेंगाल महुआ इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
115	U51909WB1995PTC74798	बेंगाल मेटल फॉर्म प्रा०लि०
116	U10200WB1973PTC28688	बरहमपुर तार प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्रा०लि०
117	U65999WB1998PTC88039	बरहमपुर फिनान्स एण्ड लीजिंग प्रा०लि०
118	U26939WB1973PTC29143	बेस्ट स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०

119	U65993WB1975PTC30287	बेस्टोवाल फिनान्स एण्ड सेर्विग्स (चिट) कं. प्रा०लि०
120	U67120WB1993PTC57982	भागीरथ स्टॉक एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
121	U63090WB1993PTC60100	भागीरथी रिसोर्सेज प्रा०लि०
122	L99999WB1984PLC037285	भगवानदास गोयनका एजुकेशनल इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
123	U15419WB1984PLC37138	भारतीय कन्फैक्शनर्स लिमिटेड
124	L99999WB1992PLC054601	भिलाई फेररौस लिमिटेड
125	U51109WB1994PTC64160	भिप्सन विनिमय प्रा०लि०
126	U51909WB1993PTC57981	भोमिया ट्रेडिंग प्रा०लि०
127	U51109WB1982PTC34997	भुवन इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
128	U17115WB1965PLC26352	विधान चन्द्र टेक्सटाईल मिल्स लिमिटेड
129	U22121WB1990PTC48235	विधाननगर पब्लिशिंग हाउस प्रा०लि०
130	U99999WB1964PLC026085	बिहार अल्ट्रामेरिन ब्लू एण्ड पिग्मेंट्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
131	U31501WB1972PTC28254	विकाश इलेक्ट्रीक लैम्प एमएफजी.कं. प्रा०लि०
132	U64204WB1997PTC84013	बिनायक नेटवर्क एण्ड यूटिलिटीज प्रा०लि०
133	U85195WB1982PTC34541	बायोसिन प्रा०लि०

134	U51109WB1990PTC48468	बिरभूम केमिकल्स प्रा०लि०
135	U15520WB1998PTC88349	बिरभूम डिस्टीलेरी प्रा०लि०
136	U51909WB1992PLC56984	ब्लैक डायमण्ड ट्रेक्जीम लिमिटेड
137	U99999WB1973PTC029142	ब्लैकवूड्स बिजनेस मशीन्स प्रा०लि०
138	U51109WB1977PTC30857	ब्लूम्स प्रा०लि०
139	U70109WB1994PTC65049	ब्लू सी इस्टेट प्रा०लि०
140	U63090WB1968PTC27214	बोल्सन इंजीनियरिंग कं. प्रा०लि०
141	U51109WB1997PTC84451	बोनान्जा कॉमर्शियल प्रा०लि०
142	U24299WB1992PTC54854	बसु केमिकल्स प्रा०लि०
143	U51109WB1994PTC64040	ब्रीज कोमोडिल प्रा०लि०
144	L99999WB1984PLC037055	ब्राइट स्टोन्स लिमिटेड
145	U51909WB1994PTC66195	ब्राइटमून फैबट्रेड प्रा०लि०
146	U51109WB1994PTC64341	ब्रिलियान्ट विनिमय प्रा०लि०
147	U65993WB1964PLC26141	बुदाकिया ब्रदर्स फिनान्शियर्स लिमिटेड
148	U63022WB1979PTC32325	बुलबुलितला कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०

149	U25119WB1976PTC30815	बरलो रबड़ इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
150	U65993WB1974PTC29168	बर्नपुर स्मॉल सेविंग्स प्रा०लि०
151	U14140WB1998PTC88049	कैडटेक्निक स्ट्रक्चरल इन्जीनियर्स (इण्डिया) प्रा०लि०
152	U51109WB1997PTC83599	कैलकॉन ट्रेडलिक प्रा०लि०
153	U65203WB1975PTC30288	कलकत्ता अब्रासिक्स प्रा०लि०
154	U51109WB1980PTC32915	कलकत्ता बिटुकेम एजेन्सीज प्रा०लि०
155	U65992WB1966PTC26774	कलकत्ता चिट फण्ड प्रा०लि०
156	U74140WB1994PLC61467	कलकत्ता कम्प्रोसेन्ट इन्फोटेक लिमिटेड
157	U31402WB1973PTC28788	कलकत्ता इलेक्ट्रो इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
158	U27106WB1972PTC28557	कलकत्ता रोलिंग एण्ड वायर मिल्स प्रा०लि०
159	U45500WB1998PTC86378	कलकत्ता शिपिंग एण्ड मैरिन इन्जीनियरिंग कं.(वाइजाग) प्रा०लि०
160	U29199WB1993PTC60061	कलकत्ता स्पेयर्स सप्लायर्स प्रा०लि०
161	U51909WB1990PTC48504	कैलेक्जीम प्रा०लि०
162	U51109WB1993PTC57977	कैनिस्टार ट्रेडिंग प्रा०लि०
163	U52335WB1995PTC74834	कैनलेय इन्जीनियरिंग प्रा०लि०

164	U65921WB1992PLC54550	कैसिओन लीजिंग एण्ड फिनान्स (इण्डिया) लिमिटेड
165	U13100WB1972PTC28545	कास्टोलिक केमिकल प्रा०लि०
166	U18101WB1998PTC86526	सीडीएस कॉमर्स प्रा०लि०
167	U51909WB1998PTC88455	सेन्टर इन्डो टायर एण्ड ऑटोमोबाईल प्रा०लि०
168	U67120WB1994PTC61406	सीजीएस फिनान्शियल सर्विसेज प्रा०लि०
169	U65993WB1976PTC30384	चैताली चिट स्कीम्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्रा०लि०
170	U31504WB1976PTC30708	चक्रवर्ती केबल्स प्रा०लि०
171	U51109WB1995PTC73679	चक्रधारी सप्लायर्स प्रा०लि०
172	U74950WB1981PTC33897	चक्रवर्ती केमिकल्स एण्ड एलॉयड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
173	U17226WB1980PTC32542	चाम्पो कारपेट्स प्रा०लि०
174	U7010 WB1995PTC67107	चन्दननगर आवासन प्रा०लि०
175	U99999WB1915PLC002639	चापरमुख सिल्व्हाट रेलवे कं. लिमिटेड
176	U74210WB1936PLC8750	चटर्जी भट्टाचार्य एण्ड कं. लिमिटेड
177	U65992WB1971PTC28008	चतुरंगा चिट फण्ड प्रा०लि०
178	U63040WB1982PTC34728	चतुर्वेदी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज प्रा०लि०
179	U51109WB1994PTC64345	छाया बार्टर प्रा०लि०

180	U74210WB1979PTC32135	केमफलो इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा०लि०
181	U51109WB1993PTC57978	चेमी ट्रेडिंग प्रा०लि०
182	U24119WB1980PTC32576	चेमिस्चे फेब्रिक इण्डिया प्रा०लि०
183	U25209WB1973PTC29082	चेमिसोल पॉलीमर कोटिंग्स प्रा०लि०
184	U24243WB1973PTC29051	चेम्प्लेक्स केमिकल्स प्रा०लि०
185	U51109WB1997PTC84211	चेतन टाई-अप प्रा०लि०
186	U51109WB1998PTC87385	चिड्स कॉमर्शियल प्रा०लि०
187	U24239WB1954PTC21964	चिमिका फार्मासिउटिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
188	U55101WB1995PTC74458	चिनार रिसोर्ट प्रा०लि०
189	U65993WB1983PLC37048	चिरंतनी फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड
190	U99999WB1964PTC026028	चित्रसेन फोटो इन्ग्राविंग कं. प्रा०लि०
191	U23109WB1982PTC34475	चौधरी कोक मैनुफैक्चरिंग कं. प्रा०लि०
192	U65999WB1974PTC29179	सिटिजेन फिनान्स कं. प्रा०लि०
193	L99999WB1984PLC037157	क्लासिक सर्विसेज लिमिटेड
194	U67120WB1980PTC32689	क्लासिकल फिनान्सेज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०

195	U15491WB1972PTC28463	क्लोनाल टी कं. प्रा०लि०
196	U99999WB1964PTC026060	कलरमैन प्रिन्टर्स प्रा०लि०
197	U51109WB1982PTC34948	कॉमर्शियल राइटिंग ऐड्स प्रा०लि०
198	U67120WB1998PTC87813	कम्युनिको एड एण्ड मार्केटिंग प्रा०लि०
199	U67120WB1982PLC34710	कम्पीटेन्ट फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड
200	U45201WB1990PTC48469	कम्प्रेहेन्सिव लैण्ड एण्ड हाउसिंग डेवलपर्स प्रा०लि०
201	U99999WB1970PTC027780	कंसोलिडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा०लि०
202	U67120WB1993PLC60279	कंसोर्टियम फिनान्शियल रिसोर्सेज लिमिटेड
203	U45201WB1982PTC34738	कंस्ट्रक्शन रासा प्रा०लि०
204	U70109WB1982PTC34532	कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन कं. प्रा०लि०
205	U51101WB1998PTC86482	कंज्युमर ट्रेडविड्स प्रा०लि०
206	U19201WB1984PLC37549	कॉन्ट रनर फुटवियर लिमिटेड
207	U51109WB1994PTC64343	कंवर्टेक्स डीलर्स प्रा०लि०
208	U65910WB1993PLC60277	कोरपस क्रेडिट एण्ड लीजिंग लिमिटेड
209	U74140WB1983PLC35881	काउंसिल ऑफ फिनान्शियल मैनेजमेंट

210	U45202WB1992PLC56953	क्रैस्सेन्ट ग्रेनाईट्स लिमिटेड
211	U28999WB1988PLC43967	क्रैस्सेन्ट मेटल्स लिमिटेड
212	U51909WB1994PTC65334	क्युपिड विन्कॉम प्रा०लि०
213	U99999WB1970PTC027873	डी ई फार्माक प्रा०लि०
214	U28920WB1964PTC26168	डी एम एस इन्जीनियरिंग कं. प्रा०लि०
215	U99999WB1964PTC026065	डी मैक एण्ड कं. प्रा०लि०
216	U45201WB1967PTC27208	डी एन घोष प्रोपर्टीज प्रा०लि०
217	U31109WB1994PTC64529	डी.जी.इलेक्ट्रोटेड प्रा०लि०
218	U99999WB1981PTC033660	डी.एम.फार्म्स एण्ड डायरिज प्रा०लि०
219	U45209WB1992PTC54718	डैग डेवलपमेंट्स प्रा०लि०
220	U36102WB1953PTC21211	डलहौसी स्टील फर्निचर प्रा०लि०
221	U28991WB1953PTC21231	दामोदर इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
222	U51909WB1995PTC073625	दानिश एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
223	U99999WB1919PLC003521	दंतमारा टी कं. लिमिटेड
224	U16001WB1982PTC34690	दरबार टोबैको इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०

225	U51494WB1954PTC21621	दास ब्रदर्स एण्ड कं. टेक्सटाईल्स प्रा०लि०
226	U63090WB1995PLC67975	दत्त एयर एक्सप्रेस लिमिटेड
227	U67120WB1982PLC34465	दयामाई इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
228	U65923WB1993PLC57924	दीप इकोनोमिक इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
229	U26921WB1975PTC29910	दीप रिफ्रेक्टोरिज प्रा०लि०
230	U65999WB1971PTC28184	दिलीप के हल्दर एण्ड कं. (एजेन्ट्स) प्रा०लि०
231	U31300WB1973PTC28938	डेल्टा फास्टरनर्स प्रा०लि०
232	U99999WB1982PTC034719	डेल्टॉन इलेक्ट्रीकल्स कं. प्रा०लि०
233	U51109WB1984PLC37355	डेम्पो मर्केन्टाईल लिमिटेड
234	U65999WB1971PTC28117	डेस्तीनी सेविंग्स बेनेफिट कं. प्रा०लि०
235	U60210WB1998PTC86530	देवसार ट्रान्सपोर्ट प्रा०लि०
236	U99999WB1999PTC090185	डीजीसी कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
237	U51909WB1995PTC74800	धनपरी ट्राकॉन प्रा०लि०
238	U23109WB1967PTC27072	धरम पॉल बहल एण्ड कं. प्रा०लि०
239	U51909WB1982PTC34966	डिजिलेक इन्स्ट्रुमेंटेशन प्रा०लि०

240	U32203WB1997PTC84796	डिजिटल फोटोलैब प्रा०लि०
241	U72900WB1997PTC85358	डिजिटल सोर्स प्रा०लि०
242	U74300WB1982PTC34702	दिनेश प्रिन्टाडेक्स एडवर्टिजिंग प्रा०लि०
243	U22219WB1967PTC27212	दीप प्रिन्टिंग एण्ड टाईप फाउण्ड्री प्रा०लि०
244	U51909WB1965PLC26621	दीप्ति सेल्स एण्ड एजेन्सीज लिमिटेड
245	U19201WB1982PTC34672	डिस्को शू प्रा०लि०
246	U74140WB1997PTC83607	डिवाईन एडवाईजर्स प्रा०लि०
247	U67120WB1994PTC65228	डीएलएम स्टॉक ब्रोकर्स प्रा०लि०
248	U51109WB1995PTC74412	डोमिनेन्ट बार्टर प्रा०लि०
249	U67120WB1997PTC86179	डोनाल्ड इन्वेस्टमेंट एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
250	U51219WB1995PTC067310	डॉच सप्लाय प्रा०लि०
251	U67120WB1984PLC37260	डॉउनिंग स्ट्रीट प्रोपर्टीज लिमिटेड
252	U24332WB1953PTC21254	ड्रग रिसर्च इन्स्टीच्यूट प्रा०लि०
253	U45202WB1990PTC48489	डगसन्स मार्केटिंग प्रा०लि०
254	U20299WB1974PLC29548	डब्लेज वूड एण्ड स्क्रैप डीलर्स एसोसियेशन

255	U28991WB1968PTC27386	दुर्गापुर एसोसियेटेड स्टील क्रीट इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
256	U64204WB1995PTC72385	दुर्गापुर दर्शन प्रा०लि०
257	U51909WB1998PTC86397	डायलान इम्पेक्स प्रा०लि०
258	U63040WB1999PTC90744	डायनाफ्लीट सर्विसेज प्रा०लि०
259	U64120WB1994PTC63535	अर्ली बर्ड सर्विसेज प्रा०लि०
260	U15339WB1990PTC48411	इस्ट इण्डिया फीड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
261	U27203WB1966PTC26777	ईस्टर्न एलुमिन फेब्रिकेटर्स प्रा०लि०
262	U70101WB1997PTC85302	ईस्टर्न चयैनल हाउसिंग प्रा०लि०
263	U74210WB1984PTC37121	ईस्टर्न सिव-एल-मेक इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
264	U01116WB1982PTC34955	ईस्टर्न लैक प्रा०लि०
265	U65999WB1975PTC30205	ईस्टर्न वेल्वेट सेन्टर प्रा०लि०
266	U29299WB1983PTC36749	इकोनोमेक (इण्डिया) प्रा०लि०
267	U74210WB1998PTC86275	इडडी टर्नकी सर्विसेज प्रा०लि०
268	U51109WB1997PTC84099	एडमोण्ड कॉमर्शियल प्रा०लि०
269	U51507WB1981PTC33963	इको एप्लियान्स प्रा०लि०

270	U99999WB1964PTC026072	इलाच इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
271	U74999WB1998PTC87049	इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन्स प्रा०लि०
272	L65910WB1983PLC36914	इलीट (इण्डिया) लिमिटेड
273	U45201WB1997PTC84809	इलीट टी सप्लायर्स प्रा०लि०
274	U74300WB1998PTC87183	इमाराल्ड्स एडवर्टिजमेंट्स प्रा०लि०
275	U00000WB1965PTC26356	इम्डेक शर्मा प्रा०लि०
276	U27202WB1979PTC32370	इमीको (एमडी) प्रा०लि०
277	U70109WB1999PTC88931	इम्लिक डेवलपर प्रा०लि०
278	U51226WB1997PTC84469	इना ग्रीन्स प्रा०लि०
279	U74210WB1966PTC26941	इन्कॉन्स एण्ड डिजजाईन्स प्रा०लि०
280	U28932WB1982PTC34986	एनर्जी एण्ड इन्वायरोन्मेंट कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
281	U74140WB1965PTC26713	इन्केजि (ट्रेडर्स) प्रा०लि०
282	U32303WB1970PTC27752	इपी ग्रामो प्रा०लि०
283	U99999WB1982PTC034602	इरोन्शियल रेमेडिज प्रा०लि०
284	U24232WB1990PTC48871	इथनार्च फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०

285	U45209WB1998PTC86920	यूरेका निर्माण एण्ड डेवलपर प्रा०लि०
286	U65921WB1992PLC56555	एवरेस्ट इन्वेस्टमेंट एण्ड लीजिंग लिमिटेड
287	U60221WB1975PTC30299	एवरेस्ट ट्रान्सपोर्ट प्रा०लि०
288	U51909WB1995PTC73926	एवरशाप ट्राकॉन प्रा०लि०
289	U65992WB1976PTC30489	एवरीडे कॉमर्शियल एण्ड चिट क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्रा०लि०
290	U99999WB1953PTC021136	एक्सेल रासायन प्रा०लि०
291	U64120WB1990PTC48720	एक्सप्रेस डेलिवरी सर्विस प्रा०लि०
292	U64120WB1997PTC83944	एक्सप्रेस मेल प्रा०लि०
293	U51909WB1973PTC28729	एक्सप्रेस सर्विसेज (इण्डिया) प्रा०लि०
294	U64120WB1998PTC86439	फेयरबोर्न कुरियर सर्विस प्रा०लि०
295	U91110WB1992PTC56407	फेयरडील डिस्टिलेरी एण्ड केमिकल्स कम्पनी प्रा०लि०
296	U70200WB1992PLC54602	फेयरनेस हाउसिंग फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
297	U21015WB1954PTC21625	फैन्सी पेपर स्टोर प्रा०लि०
298	U51909WB1988PTC45011	फार्म ऐड (इण्डिया) प्रा०लि०
299	U51109WB1994PTC65450	फेरानी ट्राकॉन प्रा०लि०

300	U85195WB1983PTC36843	फेरोइन्स्पेक्ट (इण्डिया) प्रा०लि०
301	U29197WB1990PTC48767	फिक्श एण्ड कं. प्रा०लि०
302	U31402WB1971PLC28167	फिदाल एक्कुमुलेटर्स एण्ड बैटरीज लिमिटेड
303	U21022WB1995PTC75406	फ्लामिंगो पैकेजिंग प्रा०लि०
304	U51109WB1995PTC68966	फ्लोकेडल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
305	U99999WB1900ULT002843	फ्रेश फ्रुट ड्रिक्स प्रा०लि०
306	U74300WB1997PTC84037	फुलकूम कम्युनिकेशन्स प्रा०लि०
307	U28999WB1965PTC26327	फुलिया कंक्रीट स्पुन पाईप्स कं. प्रा०लि०
308	U70109WB1994PTC63049	फुल्पी प्रोपर्टीज प्रा०लि०
309	U45202WB1969PTC27476	जी एफ एम इन्जीनियर्स प्रा०लि०
310	U24294WB1994PTC63137	जी.सी.बी.डेवलपमेंट टिन्सेल सिटी प्रा०लि०
311	U14107WB1995PTC74102	जी.डी. मिनेरल्स प्रा०लि०
312	U24115WB1997PTC85481	जी.पी.केमिकल्स प्रा०लि०
313	U63090WB1992PTC54963	जी.पी.सर्विसेज प्रा०लि०
314	U51219WB1997PTC84998	गैलेक्सी एक्जीम प्रा०लि०

315	U70101WB1999PTC90341	गैलेक्सी लैण्ड प्रमोशन एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
316	U57109WB1977PTC30949	गाल्स शिपिंग कं. प्रा०लि०
317	U51909WB1995PTC73338	गैम ट्रेडफिन प्रा०लि०
318	U51216WB1980PTC32670	गणपति ओवरसीज लिमिटेड
319	U21021WB1992PTC56880	गढ़बेता एग्रोटेक प्रा०लि०
320	U51109WB1997PTC84475	गरिमा टाई-अप प्रा०लि०
321	U99999WB1919PLC001478	गरुदा इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड
322	U27109WB1983PLC37006	गरुदा स्पेशल कार्टिंग्स लिमिटेड
323	U51909WB1969PTC27475	गैटबीन्स एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
324	U51109WB1998PTC86720	जीबीएलए एजेन्सी प्रा०लि०
325	U45201WB1998PTC87207	जी पी टावर्स प्रा०लि०
326	U31300WB1965PLC26349	जेनरल केबल्स लिमिटेड
327	U51909WB1982PLC34637	जेन्युन ट्रेडर्स एण्ड डीलर्स लिमिटेड
328	U17119WB1973PTC28803	जेटैली टूल्स प्रा०लि०
329	U70101WB1999PTC90211	गिरिया कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०

330	U70101WB1999PTC90210	गिरिया डेवलपर्स प्रा०लि०
331	U65999WB1994PLC66639	जीकेडब्लू होल्डिंग्स लिमिटेड
332	U27109WB1966PTC26721	ग्लैडबैच इंजीनियरिंग प्रा०लि०
333	U92120WB1981PTC33973	ग्लैमर पिक्चर्स प्रा०लि०
334	U26101WB1964PTC26124	ग्लास सेंटर प्रा०लि०
335	U23209WB1972PLC28347	ग्लोब ऑयल कं. लिमिटेड
336	U05002WB1984PLC37100	जीएमके फिशिंग लिमिटेड
337	U65999WB1993PTC57379	गॉडलाईट फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
338	U51109WB1994PTC65783	गोकुल बार्टर प्रा०लि०
339	U63090WB1972PTC28552	गोल्डेन रोडवेज प्रा०लि०
340	U01711WB1990PTC48730	गोम्माटेश्वर टेक्सटाईल्स प्रा०लि०
341	U51909WB1994PTC065452	गोमती ट्राकॉन प्रा०लि०
342	U51109WB1993PTC61075	गुडवैल्यू ट्रेकजीम प्रा०लि०
343	U51909WB1970PTC27723	गोविन्दा स्टोर्स प्रा०लि०
344	U65993WB1992PLC56636	ग्रामिण जीवन इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

345	U26955WB1992PLC56785	ग्राफ्को कंटीनेन्टल लिमिटेड
346	U65921WB1990PTC48987	ग्राफ्को सेकुरिटीज एण्ड फिनान्स लिमिटेड
347	U99999WB1942PLC010940	ग्रेट इण्डिया स्टीम नेविगेशन कं. लिमिटेड
348	U99999WB1974PTC029721	गुजरात ब्रदर्स एण्ड कं. प्रा०लि०
349	U27106WB1994PTC65221	गुप्ता फेरस एण्ड नन-फेरस प्रा०लि०
350	U99999WB1992PTC054603	गुरिया इन्टरनेशनल प्रा०लि०
351	U31300WB1997PTC84600	जीवी मार्केटिंग प्रा०लि०
352	U99999WB1970PTC027768	एच.एच.प्रोपर्टीज प्रा०लि०
353	U51504WB1992PTC54729	हैडली हाइड्रोलिक्स प्रा०लि०
354	U74210WB1980PTC32782	हल्दिया फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
355	U51909WB1995PTC68982	हमायुन गुड्स एण्ड सर्विसेज प्रा०लि०
356	U51909WB2000PTC92205	हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड गिफ्ट्स हाउस प्रा०लि०
357	U51909WB1995PTC73560	हनुरंग डीलर्स प्रा०लि०
358	U01211WB1994PTC63163	हपानिया फार्म प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
359	U01211WB1968PTC27317	हैप्पी लेण्ड फार्म प्रा०लि०

360	U65993WB1975PTC30211	हरपार्वती चिट एण्ड सेविंग्स कं. प्रा०लि०
361	U99999WB1974PTC029668	हरिपद हाउसिंग कं. प्रा०लि०
362	U22124WB1953PTC21342	हैरिस फोर्म्स एण्ड रजिस्टर्स प्रा०लि०
363	U24119WB1974PTC29439	हार्विक केमिकल्स प्रा०लि०
364	U15143WB1980PTC32515	एचईसी केमिकल्स प्रा०लि०
365	U45209WB1967PTC27056	हेम कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
366	U772200B1997PTC86105	हाई माइक्रो इन्फोटेक प्रा०लि०
367	U01132WB1998PTC86536	हिलटॉप प्रिमियम टी प्रा०लि०
368	U32109WB1993PTC60029	हिल्टेक ऑडियो प्रा०लि०
369	U65993WB1992PLC54622	हिमाद्री प्रभा फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट इण्डिया लिमिटेड
370	U51109WB1995PTC74179	हिमालया विन्कॉम प्रा०लि०
371	U51909WB1954PTC21559	हिन्दुस्तान कोक एण्ड कोल ट्रेडिंग सीआरपीएन प्रा०लि०
372	U51909WB1973PTC28881	हिर्जी एजेन्सीज एण्ड सेल्स प्रा०लि०
373	U27310WB1981PTC33938	हिस्को फोर्ज प्रा०लि०
374	U72200WB1998PTC86497	एचएनसी इन्फोमेशन सिस्टेम्स प्रा०लि०

375	U35999WB1981PTC33945	हुगली ऑटो मैनुफैचरिंग कं. प्रा०लि०
376	U80222WB1997PTC84418	होप एजुकेशन इन्स्टीच्यूट प्रा०लि०
377	U51909WB1981PLC33800	होप फाइबर्स लिमिटेड
378	U67120WB1997PTC85057	होरिजोन कंसल्टेंट्स एण्ड मार्केटिंग प्रा०लि०
379	U65923WB1997PTC84771	होर्नबिल फिनान्सिंग एण्ड लीजिंग कं. प्रा०लि०
380	U74140WB1973PTC28650	होटेल केटेरिंग एण्ड टूरिज्म कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
381	U70101WB1993PTC60032	हावड़ा इन्क्लेव प्रा०लि०
382	U70109WB1997PTC84982	हावड़ा हाउसिंग प्रा०लि०
383	U70109WB1998PTC86570	हावड़ा प्रोपर्टीज प्रा०लि०
384	U67190WB1992PLC56811	आईएफबी वेन्चर कैपिटल फिनान्स लिमिटेड
385	U30402WB1976PTC30402	इम्को एस्बेस्टोस एण्ड रिफ्रेक्टोरिज प्रा०लि०
386	U23201WB1990PTC48288	इम्पेरियल फिस्कल सर्विसेज प्रा०लि०
387	U27109WB1994PTC63166	इम्पेरियल रिफ्रेक्टोरिज प्रा०लि०
388	U99999WB1953PTC021330	इण्डिया स्नफ एण्ड मर्केन्टाईल कं. प्रा०लि०
389	U27106WB1972PTC28627	इण्डियन स्पेयर्स एण्ड कम्पोनेन्ट्स प्रा०लि०

390	L99999WB1964PLC026019	इन्डो फ्रेण्च फोर्जस लिमिटेड
391	U29130WB1974PTC29279	इन्द्र-दीप इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
392	U65993WB1990PTC48371	इन्दु क्रेडिट प्रा०लि०
393	U45201WB1998PTC86701	इन्फ्राकॉन प्रा०लि०
394	U14108WB1998PTC86462	इन्लेण्ड डॉकिंग एण्ड ड्रेजिंग कं. प्रा०लि०
395	U33112WB1977PTC30911	इन्नेय्ज सेल्स प्रा०लि०
396	U65993WB1992PLC56973	इन्स्टैंट वेल्फेयर इकोनोमी एण्ड फिनाल्लिशओ लिमिटेड
397	U80301WB1980PLC32985	इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड बिजनेस एजुकेशन लिमिटेड
398	U29120WB1997PTC85304	इन्सुमेट इलेक्ट्रीक प्रा०लि०
399	U65993WB1982PLC34570	इन्टेल्लेक्चुअल सेर्विस् एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
400	U51397WB2000PTC91951	इन्टरवेट मेडिसिन प्रा०लि०
401	U74920WB1954PTC21703	इन्वेस्टीगेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ क्राईम्स (इण्डिया) प्रा०लि०
402	U27109WB1980PTC32781	ऑयोनिक प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
403	U26972WB1972PTC28619	इरेना रिफ्रेक्टोरिज प्रा०लि०
404	U15412WB1982PTC34603	इरिस (इण्डिया) प्रा०लि०

405	U28939WB1954PTC21839	ऑयरन एण्ड स्टील प्रोसेजिंग इण्डिया प्रा०लि०
406	U15312WB1941PLC10725	ईश्वरपुर राइस मिल्स लिमिटेड
407	U71120WB1968PTC27243	आईलैण्ड शिपिंग कं. प्रा०लि०
408	U01132WB1982PTC34680	आईटीसी टीज प्रा०लि०
409	U29130WB1972PTC28451	इजमत मशीन टूल्स प्रा०लि०
410	U45201WB1981PLC34263	जे बी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
411	U74120WB1980PTC32614	जे बी कंसल्टेंट्स एण्ड इन्जीनियर्स प्रा०लि०
412	U28991WB1998PTC87790	जे जी बिजनेस लिंक प्रा०लि०
413	U27310WB1998PTC86972	जे एम डी रोल्स प्रा०लि०
414	U92132WB1999PTC90201	जे टेलीविजन मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रा०लि०
415	U19129WB1994PTC63190	जे.एस.देसाई प्रा०लि०
416	U63090WB1995PTC74389	जे.एस.शिपिंग एण्ड फ्रेइट फोरवार्डिंग प्रा०लि०
417	U51109WB1995PTC68968	जगप्रेम डीलकॉम प्रा०लि०
418	U27109WB1997PTC85270	जय इम्बा रोलिंग मिल प्रा०लि०
419	U14102WB1990PTC048932	जयहिंद ग्रेनाइट्स प्रा०लि०

420	U15491WB1998PTC87620	जनकल्याण प्लान्टेशन्स कम्पनी प्रा०लि०
421	U22219WB1965PLC26619	जनकल्याण पब्लिकेशन्स लिमिटेड
422	U70109WB1923PTC4770	जानबाजार मन्ना इस्टेट प्रा०लि०
423	U65929WB1993PLC57959	जनहित इण्डिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
424	U70101WB1973PTC28973	जसोदा प्रा०लि०
425	U24231WB1989PTC47094	जय केमिको प्रा०लि०
426	U30002WB1973PTC29111	जीत फोटोग्राफिक इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
427	U92112WB1970PTC27641	झरना पिक्चर्स प्रा०लि०
428	U70109WB1993PTC57409	झांवर कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
429	U51109WB1994PTC65598	झोटा फेलेट्रेड प्रा०लि०
430	U51222WB1997PTC85996	जिया उल हक चौधरी डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
431	U51909WB1994PTC63585	जियार्जी रोडवेज प्रा०लि०
432	U27109WB1993PTC60356	जिन्दल ट्यूब्स प्रा०लि०
433	U99999WB1901PLC000554	जेकेबीएम लिमिटेड
434	U99999WB1901PLC000165	जॉकटोल्ली टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

435	U21023WB1982PTC34577	जय माँकाली पेपर बोर्ड मिल्स प्रा०लि०
436	U15312WB1998PTC87893	जुबोराज राइस मिल प्रा०लि०
437	U22110WB1967PTC27139	जूनो प्रिन्टिंग वर्क्स प्रा०लि०
438	U67120WB1971PTC28091	ज्योति ब्रदर्स सेलारिंग प्रा०लि०
439	U24134WB1973PTC28798	ज्योतिमय कोटिंग्स एण्ड सिन्थेटिक्स प्रा०लि०
440	U67120WB1982PTC34942	के एम फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा०लि०
441	U17111WB1998PTC87046	के आर गारमेंट्स प्रा०लि०
442	U22122WB1995PTC74269	के.ए.ग्राफिक्स प्रा०लि०
443	U99999WB1964PTC026056	के.बी.इन्स्ट्रुमेंट कं. प्रा०लि०
444	U51311WB1993PTC60413	के.जे.एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
445	U99999WB1999PTC090716	के.एस.मेडिकोस प्रा०लि०
446	U51109WB1995PTC73524	कैलाशपति राइस मिल प्रा०लि०
447	U51109WB1998PTC88126	कालिका कॉमर्शियल प्रा०लि०
448	U27105WB1965PTC26388	कालिका इन्जीनियरिंग कं. प्रा०लि०
449	U31909WB1965PTC26693	कल्याणी इलेक्ट्रो मेकेनिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०

450	U99999WB1973PTC028708	कल्याणी इनेमेल वर्क्स प्रा०लि०
451	U15491WB1980PTC32548	कामख्या वेयरहाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
452	U24117WB1995PTC74472	कमला ब्राजिंग्स प्रा०लि०
453	U51109WB1994PTC64623	कमलिका सिन्टेक्स प्रा०लि०
454	U29150WB1973PTC29023	कनक फोर्जिंग्स एण्ड स्टैम्पिंग्स प्रा०लि०
455	U17219WB1981PTC34048	कन्हैयालाल बैजनाथ प्रा०लि०
456	U15203WB1992PLC56909	कनिका एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
457	U24233WB1994PTC61876	कनोई हर्बल्स प्रा०लि०
458	U24295WB1998PTC87552	करन जज ट्रेक्जीम प्रा०लि०
459	U99999WB1906PLC001591	करनपुरा डेवलपमेंट कं. लिमिटेड
460	U51109WB1995PTC68835	करुकार्या रिटेलर प्रा०लि०
461	U51909WB1995PTC67657	कश्यम ट्राकॉन प्रा०लि०
462	U70109WB1995PTC74484	कस्तुरी निर्माण प्रा०लि०
463	U24291WB1954PTC21749	कटिहार मैच वर्क्स (1954) प्रा०लि०
464	U20299WB1973PTC28670	कैयटी कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०

465	U51420WB1973PTC29084	केजरीवाल स्टील्स प्रा०लि०
466	U13209WB1972PTC28597	केम डायने मशीनेरिज प्रा०लि०
467	L99999WB1984PLC037987	केनेक्स कॉमर्शियल लिमिटेड
468	U67120WB1994PTC63914	खेतान कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०
469	U65993WB1994PTC65740	खेतान फिस्कल सर्विसेज प्रा०लि०
470	U99999WB1964PTC026073	खामिग इन्जीयर्स प्रा०लि०
471	U10101WB1921PLC4369	खास कजोरा कोल कं. लिमिटेड
472	U51433WB1980PTC32585	खेमता लुब कं. प्रा०लि०
473	U51109WB1995PTC74885	कीप्पी गुड्स एण्ड सप्लाइ प्रा०लि०
474	U17125WB1995PTC74868	किरपाल सिंह एण्ड कम्पनी (जूट) प्रा०लि०
475	U70101WB1997PTC85292	किशोर भारती कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०
476	U15311WB1997PTC84258	केएमडी फुड मैनुफैक्चरिंग प्रा०लि०
477	U85110WB1995PTC74717	कोयल क्योर प्रा०लि०
478	U15312WB1994PTC62425	कोहिनूर राइस मिल्स प्रा०लि०
479	U51109WB1995PTC68730	कोठारी कोमोर्ट्रेड प्रा०लि०

480	U35201WB1990PTC48417	कोठारी इक्युपमेंट प्रा०लि०
481	U15134WB1992PTC54914	कृष्णा फुड प्रोडक्ट्स कम्पनी प्रा०लि०
482	U99999WB1994PTC64411	क्रोन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
483	U51909WB1966PTC26751	कुमारखाला कोलियरी कं. प्रा०लि०
484	U45402WB1977PTC30907	कुम्को रेसिन्स एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०
485	U26921WB1951PTC20179	कुण्डू नन्दी एण्ड कं. प्रा०लि०
486	U70101WB1993PTC61159	कुर्ला प्रोपर्टीज एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
487	U45201WB1997PTC84844	एल आर डेवलपर्स प्रा०लि०
488	U51909WB1992PTC56416	ला ओपाला शिकवेग प्रा०लि०
489	U51109WB1995PTC74115	लेकवेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
490	U51109WB1994PTC63293	लारेदो कोमोर्ट्रेड प्रा०लि०
491	U31909WB1964PTC26190	लेदरोल्ड एण्ड प्रेसपॉन्स मैनुफैक्चरिंग कं. प्रा०लि०
492	U31909WB1995PTC72611	लेक्ट्रोन कंट्रोल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
493	U51109WB1995PTC73777	लियोनार्ड वाणिज्य प्रा०लि०
494	U99999WB1974PTC029677	लिबानी फिल्मस प्रा०लि०

495	U74999WB1982PTC34612	लिबरा मैरिन कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
496	U25201WB1984PLC37203	लिबरा प्लास्टिक्स लिमिटेड
497	U15102WB1982PTC34533	लाइफ सेवर्स प्रा०लि०
498	L99999WB1964PLC026011	लोहारू ट्रेडर्स (इण्डिया) लिमिटेड
499	U51398WB1993PTC57902	लोकनाथ तीर्थ फिनान्स एण्ड जेनरल ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
500	U24239WB1998PTC86629	लौइस हेल्थ प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
501	U99999WB1970PTC027840	लखनऊ होटेल एण्ड मीट सप्लायर्स प्रा०लि०
502	U15499WB1995PTC074551	लकी-टेस्ट प्रोसेज्ड फुड प्रा०लि०
503	U99999WB1970PTC027666	लुना पैकेजिंग कं. प्रा०लि०
504	U65993WB1992PTC54621	लायोन्स स्टॉक होल्डिंग्स एण्ड फिनान्शियल सर्विसेज प्रा०लि०
505	U29130WB1974PTC29273	एम एल फास्टेनर्स प्रा०लि०
506	U74140WB1997PTC84833	एम आर मैनेजमेंट एण्ड कंसल्टेन्सी प्रा०लि०
507	U74140WB1981PTC33433	एम टी डब्लू निक्को प्रा०लि०
508	U63022WB1990PTC48977	माँ सर्ब मंगला हिमघर प्रा०लि०
509	U19129WB1993PTC57918	मैक लेदर आर्ट्स प्रा०लि०

510	U15312WB2000PTC92014	मदानिया राइस मिल प्रा०लि०
511	U99999WB1964PTC026289	माधबी पिक्चर्स प्रा०लि०
512	U27101WB1973PTC28672	माधव इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
513	U51109WB1994PTC65747	मधुवन मार्केटिंग प्रा०लि०
515	U51229WB1997PTC85991	महाकाली ट्रेडिंग प्रा०लि०
516	U51109WB1995PTC74156	महास्वेता वाणिज्य प्रा०लि०
517	U48511WB1990PTC48511	महेश्वरी फेररो सिलिकॉन प्रा०लि०
518	U15142WB1973PTC29140	महिन्दर रबड़ एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०
519	U51909WB1998PTC86610	महिपाल ऑडियो एण्ड एडवर्टिजिंग प्रा०लि०
520	U51109WB1997PTC84656	मल्टी बियरिंग्स प्रा०लि०
521	U65993WB1992PLC56866	ममताज फिनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
522	U51496WB1995PLC67976	मनचेम (इण्डिया) लिमिटेड
523	U51109WB1995PTC74135	मंगल कृपा सेल्स प्रा०लि०
524	U51109WB1992PTC54778	मंगलम ट्रेड लिंक्स प्रा०लि०

525	U92120WB1990PTC48451	मंगलदीप पिक्चर्स प्रा०लि०
526	U67120WB1981PTC33501	मनिषा कॉमर्शियल सर्विसेज प्रा०लि०
527	U45209WB1997PTC83911	मनियरेक्स कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
528	U92342WB1967PTC27192	मंजीर स्मृति इन्जीनियरिंग इन्टरप्राइज प्रा०लि०
529	U01712WB1976PTC30494	मंजीत वूलेन एण्ड होजियरी मिल्स कं. प्रा०लि०
530	U65993WB1992PLC54574	मनमौजी फिनान्स एण्ड हायर पर्चेज इण्डिया लिमिटेड
531	U24122WB1954PTC21606	मनुर सप्लायिंग एजेन्सी प्रा०लि०
532	U51109WB1995PTC68667	मानुष सेल्स प्रा०लि०
533	U52343WB1997PTC84460	मार्ग फाइबरग्लास प्रा०लि०
534	U05002WB1973PTC28930	मैरिन एण्ड फार्म प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्रा०लि०
535	U70101WB1990PTC48723	मारुति डेवलपर्स प्रा०लि०
536	U99999WB1982PTC34727	मर्यादा मर्केन्टाईल्स लिमिटेड
537	U74210WB1997PTC84765	मास टेक्निकल सर्विस प्रा०लि०
538	U99999WB1992PTC054981	मौर्य कोमोडिटीज प्रा०लि०
539	U67120WB1997PTC84869	मैक्सवर्थ ट्रेडर्स प्रा०लि०

540	U21022WB1998PTC88131	माया पैकेजिंग प्रा०लि०
541	U51909WB1998PTC86325	मेयफेयर ट्रेडकॉम प्रा०लि०
542	U74999WB1994PTC66342	मायसा एक्सपोर्ट्स एण्ड इन्जीनियरिंग सर्विसेज प्रा०लि०
543	U22219WB1997PTC86096	मीडिया ग्राफिक्स प्रा०लि०
544	U85110WB1995PTC73492	मेडिसेन्टर नर्सिंग होम प्रा०लि०
545	U52322WB1993PTC61085	मीनाक्षी इम्पेक्स प्रा०लि०
546	U36991WB1997PTC86174	मेहरोत्रा इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
547	U72900WB1989PTC47786	मेकासोनिक कम्प्यूटर सिस्टेम प्रा०लि०
548	U85320WB1993PTC60040	मर्केन्टाईल बिल्डिंग (आईपीसी) टेनेन्ट्स एसोसियेशन प्रा०लि०
549	U99999WB1964PTC02674	मरकरी प्रिन्टिंग प्रा०लि०
550	U51909WB1993PTC60064	मरमेड फिशकीड्स प्रा०लि०
551	U74140WB1990PTC48905	माइक्रो एडवाइजरी सर्विसेज प्रा०लि०
552	U25199WB1968PTC27428	माइक्रो-सेलुलर रबड एमएफजी प्रा०लि०
553	U23203WB1994PTC65289	मिदनापुर ऑयल एण्ड गैस ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
554	U52599WB1989PTC47683	मिडसन मैनेजमेंट प्रमोशन एण्ड कंसल्टेन्सी प्रा०लि०

555	U85110WB1999PTC90852	मिल्लेनियम डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा०लि०
556	U99999WB1994PTC65876	माईन-टेक एजेन्सीज प्रा०लि०
557	U51109WB1997PTC85744	मिशन इम्पेक्स प्रा०लि०
558	U45201WB1968PTC27367	मित्रा कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
559	U29211WB1973PTC28759	मित्तल एलॉयज एण्ड स्टील्स प्रा०लि०
560	U99999WB1974PTC029630	मोडेल चिट फण्ड्स प्रा०लि०
561	U27101WB1973PTC28711	मॉडर्न पाईप प्रा०लि०
562	U70101WB1973PLC28743	मोहिनी मैन्शन लिमिटेड
563	U28994WB1979PTC32121	मोनिलाल आटा ऑयरन फाउण्ड्री प्रा०लि०
564	U27106WB1966PTC26940	मोनोमेटल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
565	U99999WB1992PTC054982	कृदुला कोमोडिटीज प्रा०लि०
566	U55101WB1982PTC34985	मृगया होटेल्स प्रा०लि०
567	U92392WB1968PTC27350	मुखर्जी ब्रदर्स (एक्सपोर्ट हाउस) प्रा०लि०
568	U45201WB1998PTC86468	मल्टीमेक कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
569	U05004WB1994PTC65422	मल्टीविन एक्जुआ फार्म्स प्रा०लि०

570	U65999WB1990PTC48493	एन एन होल्डिंग्स प्रा०लि०
571	U24233WB1997PTC86167	एन.के.घोष इण्डियन हर्बल रिसर्च सेन्टर प्रा०लि०
572	U65993WB1990PTC48421	एन.वी.क्रेडिट प्रा०लि०
573	U70101WB1982PTC34545	नकुल होल्डिंग्स प्रा०लि०
574	U31909WB1977PTC30987	नालन्दा शिपिंग प्रा०लि०
575	U51909WB1981PLC33868	नेपल्स कॉमर्शियल्स लिमिटेड
576	U65999WB1993PLC60006	नापोल फिनान्स लिमिटेड
577	U51109WB1995PTC73932	नटराज मार्केटिंग सर्विसेज प्रा०लि०
578	U31300WB1999PTC90159	नेचर प्रोडक्ट एक्जुआ प्रा०लि०
579	U15572WB1982PTC34703	नवभारत लिक्वर्स प्रा०लि०
580	U65992WB1971PTC27992	नविन बेनेफिट फण्ड प्रा०लि०
581	U51109WB1995PTC73298	नवज्योति कॉमर्स प्रा०लि०
582	L99999WB1964PTC026007	नायर अर्थ मूविंग कं. प्रा०लि०
583	U22122WB1994PTC61648	नीड बेस्ड पब्लिकेशन्स प्रा०लि०
584	U19129WB1999PTC90516	नीजा लेदर प्रा०लि०

585	U26931WB1994PLC61501	नियो शेल्कॉन लिमिटेड
586	U51505WB1999PTC90101	नियोनेट टेक्नोलॉजिज प्रा०लि०
587	U72900WB1997PTC84442	नेटकॉम सोलुशन्स प्रा०लि०
588	U31300WB1997PTC84779	न्यू इलेक्ट्रीक वर्क्स प्रा०लि०
589	U31102WB1972PTC28555	न्यू इण्डस्ट्रीयल स्पेयर पार्ट्स एमएफजी.कं. प्रा०लि०
590	L99999WB1918PLC002965	न्यू जुनागरा कोल कं. लिमिटेड
591	U65999WB1994PTC64704	निधि इन्द्रा प्रा०लि०
592	U85110WB1982PTC34748	नार्डिंगल नर्सिंग होम एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा०लि०
593	U17115WB1998PTC87151	निखार प्रिन्ट्स प्रा०लि०
594	U51109WB1997PTC84647	निकिता ट्राकॉम प्रा०लि०
595	U74210WB1937PLC8987	निरंजन एण्ड कं. लिमिटेड
596	U22124WB1954PTC21497	निरीक्ष पब्लिशर्स प्रा०लि०
597	U55101WB1997PTC85343	निर्माण रिसोर्ट्स एण्ड मोटेल प्रा०लि०
598	U51909WB1954PTC21626	निर्माता संघ प्रा०लि०
599	U31909WB1998PTC86554	निशा व्यापार प्रा०लि०
600	U15543WB1996PTC80541	निवा मार्केटिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रा०लि०

601	U67120WB1995PTC74988	एनकेपी वाणिज्य प्रा० लि०
602	U31300WB1965PTC26634	नन-फेरस वायर एण्ड केबल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
603	U25206WB1998PTC88143	नॉर्थ बंगाल पॉलिप्लास्ट प्रा० लि०
604	U45201WB1997PTC84342	एनबोएसपीई प्रोजेक्ट प्रा० लि०
605	U15127WB1997PTC85266	एनआरके सी फूड युनिट प्रा० लि०
606	U63040WB1992PTC56415	एनटीआईसी (ट्रेवल्स एण्ड टूरस) प्रा० लि०
607	U70101WB1973PTC28948	नन्दी प्रोपर्टीज प्रा० लि०
608	U51109WB1995PTC68615	ऑबन कॉमर्शियल प्रा० लि०
609	U99999WB1964PTC026055	ऑकेनिक इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०
610	U27109WB1998PTC86719	ओंकार इन्टरप्रेनर्स प्रा० लि०
611	U26101WB1995PTC74378	ऑपल ग्लास प्रा० लि०
612	U65592WB1969PTC27603	ओपटिमिक बेनिफिट फण्ड प्रा० लि०
613	U51109WB1997PTC83797	ओरचिड डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा० लि०
614	U29199WB1998PTC87802	उड़ीसा एर्जेसि इण्डिया प्रा० लि०

615	U31501WB1984PLC37266	ओस्लर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
616	U74210WB1998PTC86385	पी डी कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट प्रा० लि०
617	U99999WB1980PTC032750	पी एन इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लि०
618	U99999WB1964PTC026059	पी के एप्लीएन्स प्रा० लि०
619	U55101WB1993PTC60217	पाम विलेज एण्ड रेसोर्ट्स प्रा० लि०
620	U99999WB1994PTC65590	प्लाटोन डेलकॉम प्रा० लि०
621	U18101WB1998PTC86334	पामब्रोस एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
622	U74210WB1990PTC048299	पमेड इंजीनियरिंग प्रा० लि०
623	U63022WB1997PTC84665	पंचरूल कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०
624	U15412WB1998PTC88218	पप्पु फूड प्रोसेसिंग प्रा० लि०
625	U65999WB1992PLC56970	पीएआर फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
626	U67120WB1993PTC60163	पैरागौन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा० लि०
627	U55102WB1994PTC65394	पैरागौन होटल प्रा० लि०
628	U70101WB1997PTC84863	पारामहान कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०

629	U63090WB1994PTC64069	परासर ट्रान्सपोर्ट एजेंसि प्रा० लि०
630	U51491WB1990PTC48710	परासराम पुरिया ब्रटर्स प्रा० लि०
631	U22219WB2000PTC91681	परिवर्तन प्रिन्टर्स प्रा० लि०
632	U85110WB1965PTC26667	पार्क लैण्ड नर्सिंग होम एण्ड रिसर्च लेबोरेटरीज प्रा० लि०
633	U74140WB1998PTC86670	पशुपति मैनजमेंट प्रा० लि०
634	U24222WB1967PTC26998	पटेल एण्ड प्रकाश पेन्ट इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
635	U27106WB1966PTC26864	पाटो मेटल्स प्रा० लि०
636	U52201WB1998PTC88353	पटौडि डेल्कॉम प्रा० लि०
637	U23209WB1979PTC32148	पाल बिटुमेनो इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
638	U01122WB1993PTC60447	पीसीआई बायोटेक प्रा० लि०
639	U51109WB1995PTC67970	पैकमैन ट्रेड एण्ड सर्विसेज प्रा० लि०
640	U51909WB1997PTC84537	पेकॉन ट्रेडर्स प्रा० लि०
641	L99999WB1992PLC056800	पेनग्यून सर्विसेज एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
642	U51109WB1984PLC37251	पेन्नरयलवानिया होल्डिंग्स लिमिटेड

643	U51909WB1999PTC90482	पेप्सयी फूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
644	U15142WB1993PLC60445	प्रफेक्ट आयल एण्ड एग्री लिमिटेड
645	U51109WB1995PTC68736	फेअसेन्ट कॉमर्श प्रा० लि०
646	U70200WB1992PTC54731	पिडी डेवलपर्स एण्ड कंस्ट्रक्टेसी प्रा० लि०
647	U31909WB1981PTC33726	पिडरिक्स इंजीनियरिंग प्रा० लि०
648	U26626WB1965PTC26626	पायोनिर मेडिकल एजेंसि प्रा० लि०
649	U26102WB1982PTC34683	पायोनिर प्लाट्रेशन ग्लास फाइबर प्रा० लि०
650	U17299WB1974PTC29513	पिरान (कलकत्ता) प्रा० लि०
651	U65993WB1982PLC34460	पिरमाँ इन्वेस्टर्स लिमिटेड
652	U18101WB1999PTC90232	पल्स एजेंसिज प्रा० लि०
653	U30008WB1995PTC74862	प्लेटिनियम इन्फोटेक प्रा० लि०
654	U67120WB1984PLC37198	प्लॉघबैक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
655	U51909WB1997PTC84592	प्लॉटेक कॉमर्शियल प्रा० लि०
656	U99999WB1965PLC026351	पोड्डार इस्टेट लिमिटेड

657	U31200WB1995PLC68691	पल्लुनिल कनवर्टस लिमिटेड
658	U29221WB1965PLC26376	पॉल्लिग्राफ लिमिटेड
659	U24119WB1997PTC84507	पॉलिकैट केमिकल्स प्रा० लि०
660	U99999WB1964PTC026097	पॉलि-फाइबर रैनफ्रोसमेंटस प्रा० लि०
661	U65921WB1994PTC64797	पूजा प्रोफिन प्रा० लि०
662	U65993WB1982PLC34700	पपुलर बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड
663	U51109WB1995PTC68849	पोयशा मर्कण्टाइल प्रा० लि०
664	U45209WB1994PTC61762	प्रभारी प्रोपर्टीज प्रा० लि०
665	U00000WB1972PTC28429	पराची इलेक्ट्रिकल्स प्रा० लि०
666	U61120WB1993PTC60326	पराज क्रेडिट प्रा० लि०
667	U51909WB1995PTC67910	परापति कम्प्युडाटा प्रा० लि०
668	U67120WB1976PTC30492	प्रसाद फिनान्स इन्टरप्राइजेज (इण्डिया) प्रा० लि०
669	U70101WB1990PTC48760	प्रेरना एल्लाइड प्रोपर्टीज प्रा० लि०
670	U65910WB1988PLC44909	प्राइम लेजिंग लिमिटेड

671	U70101WB1995PTC73853	प्रिन्सविल्ले इस्टेट्स प्रा० लि०
672	U29266WB1994PTC65866	प्रियदर्शनि रिमस इंजीनियरिंग प्रा० लि०
673	U74210WB1954PTC21779	प्रोसेस इंजीनियरिंग्स प्रा० लि०
674	U27105WB1967PTC27150	प्रोसेस फिनिशियर्स प्रा० लि०
675	U18101WB1965PTC26668	प्रोग्रेसिव होजरी फैक्टरी प्रा० लि०
676	U33125WB1971PTC28125	प्रोग्रेसिव इन्स्ट्रुमेंट्स प्रा० लि०
677	U23209WB1994PTC61786	प्राइड ट्रेडिंग प्रा० लि०
678	U74300WB1982PLC34901	प्रोटिशरुति फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
679	U01229WB1990PTC48503	प्रोविटा व्हाइट फार्मिंग प्रा० लि०
680	L51909WB1984PLC37103	प्रूडेंटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
681	U51109WB1997PTC84497	पुल्लोक मर्चण्डलाइज प्रा० लि०
682	U74140WB1994PTC61440	पुर्ण फलाट्स प्रा० लि०
683	U27107WB1966PTC26803	पुर्बान्चल मेटल कम्पनी प्रा० लि०
684	U10102WB1954PTC21714	प्योर कटरास कॉलियरि कम्पनी प्रा० लि०

685	U05004WB1976PTC30732	पुरी सिफुड प्रा० लि०
686	U23101WB1997PTC86182	पुरलिया हाइड्रो कार्बन्स प्रा० लि०
687	U63040WB1997PTC86210	पुरवान्चल टूर्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०
688	U51219WB1993PTC61247	पुष्पक एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
689	U28131WB1969PTC27429	क्वालिटी इंजीनियरिंग्स प्रा० लि०
690	U27310WB1964PTC26106	क्वालिटी मल्लेबल कस्टिंग प्रा० लि०
691	U67120WB1997PTC86002	आर डी प्रोमटर्स प्रा० लि०
692	U70109WB1992PTC56301	आर. बी. फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०
693	U25191WB1954PTC21995	आर. बी. एस. रबड़ मिल्स प्रा० लि०
694	U63090WB1997PTC83081	आर. डी. इक्सप्लोसिव प्रा० लि०
695	U65993WB1990PTC48381	आर. आई फिनान्स प्रा० लि०
696	U99999WB2000PTC091968	आर. ऑ.बी. एक्पोर्ट्स प्रा० लि०
697	U64120WB1995PTC68950	राजविंग्स एण्ड होलिडेज प्रा० लि०
698	U51109WB1995PTC68651	रविरुण व्यापार प्रा० लि०

699	U65993WB1994PLC61477	रासमॉडल फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
700	U67110WB1996PTC78415	रेडक्लिफ होल्डिंग्स प्रा० लि०
701	U25201WB1999PTC88925	राधास्वामी पैकजिंग प्रा० लि०
702	U65192WB1992PLC54655	रेडिन्ट फिन्को फिन्वेस्ट (इण्डिया) कम्पनी लिमिटेड
703	U65993WB1990PTC48742	रेडिन्ट सेविंग्स एण्ड हायर पर्चजेज (इण्डिया) लिमिटेड
704	U19129WB1999PTC90697	राहुल एण्ड डरेन लेदर राइट (इण्डिया) प्रा० लि०
705	U33119WB1997PTC84657	रैनबो मेडिकल सिस्टम्स प्रा० लि०
706	U23201WB1989PTC47762	रैनगुवार्ड बियुटिमेन फेल्ड प्रा० लि०
707	U65922WB1992PLC56639	रेशन हाउसिंग एण्ड फिनान्स कम्पनी लिमिटेड
708	U29212B1972PTC28447	राज राजेस्वरी ड्राई केम प्रा० लि०
709	U27109WB1998PTC86552	राज इन्ट्रोड्यूस प्रा० लि०
710	U27203WB1997PTC85259	राजश्री मेटल कार्टिंग प्रा० लि०
711	U70109WB1974PTC29434	राजेश इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०
712	U21019WB1973PTC28845	राजगृह पेपर मिल्स प्रा० लि०
713	U65992WB1971PTC28164	रजिया बेनिफिट स्किम प्रा० लि०

714	U29120WB1976PTC30808	रालबिन इण्डिया प्रा० लि०
715	U74140WB1954PTC21562	राम कुमार अग्रवाल ब्रोस (एजेंसि) प्रा० लि०
716	U55101WB1990PTC48270	रमेश चन्द्रा हीटल्स प्रा० लि०
717	U99999WB1964PTC026003	रमेश टेक्सटाइल डेलर्स प्रा० लि०
718	U51109WB1982PTC34747	रामकनई कृष्णा कान्त पाल प्रा० लि०
719	U51226WB1979PTC32106	रनदेरैन प्लान्टेशन प्रा० लि०
720	U45201WB1980PTC32594	रनदेव प्रा० लि०
721	U74940WB1972PTC28393	रंगलॉक पिक्चर्स प्रा० लि०
722	U26911WB1976PTC30387	रंजन माइका इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
723	U27101WB1998PTC86888	रेपिड कास्टोप्लाट प्रा० लि०
724	U65929WB1983PTC36786	रसेन्दु रेसोर्स प्रा० लि०
725	U28991WB1995PTC67978	रतनम बोल्टस प्रा० लि०
726	U24117WB1964PTC26167	रवि केमिकल्स प्रा० लि०
727	U01111WB1998PTC87667	रायन एग्रो प्रा० लि०

728	U65910WB1993PLC60554	आरसीजी लेजिंग एण्ड क्रेडिट लिमिटेड
729	U24222WB1974PTC29792	रेनु केमिकल्स लिमिटेड
730	U45207WB1980PLC32630	रेनुकूट पावर कम्पनी लिमिटेड
731	L99999WB1914PLC02579	रेनविक एण्ड कम्पनी लिमिटेड
732	U33125WB1959PTC24175	रिसर्च एण्ड कन्ट्रोल इक्युपमेंट्स प्रा० लि०
733	U55101WB1997PTC85314	रेसपाइट रेसोटर्स प्रा० लि०
734	U72200WB1998PTC88168	रेसुरजेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रा० लि०
735	U23109WB1969PTC27566	रहेआ मिनिंग इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
736	U51909WB1997PTC83618	रिकॉन ट्रेडर्स प्रा० लि०
737	U24246WB1967PTC27125	रिंगा परफ्युमरि वर्क्स प्रा० लि०
738	U65992WB1975PTC30316	रिजिता फिनान्स एण्ड चित स्किमस प्रा० लि०
739	U27109WB1998PTC87783	रिस्म-सेठी इंजीनियरिंग प्रा० लि०
740	U63090WB1997PTC84366	आरजेएस रोडलाइनस प्रा० लि०
741	U29212WB1968PTC27296	रोड मशिनस (इण्डिया) प्रा० लि०

742	U52324WB1993PTC60535	रोमा लेदर प्रिन्ट प्रा० लि०
743	U51109WB1994PTC64370	रोटोराज विनिकॉम प्रा० लि०
744	U29269WB1965PTC26627	राय बॉबिन वर्क्स प्रा० लि०
745	U35111WB1998PTC87014	राय चौधरी एण्ड कम्पनी मरिन सर्विसेज प्रा० लि०
746	U70109WB1994PTC065199	आरएसटी डेवलपर्स प्रा० लि०
747	U26921WB1965PLC26645	रुदड़ सूरकय मिल्स प्रा० लि०
748	U65999WB1992PLC56916	रूपालि सेविंग्स एण्ड फिन्वेस्ट कम्पनी लिमिटेड
749	U22219WB1952PTC20201	रूपामुद्रा प्रा० लि०
750	U65992WB1974PTC29164	रूपनारायण सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा० लि०
751	U25211WB1968PTC27314	एस बी रबड़ इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
752	U31200WB1989PTC47641	एस जे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स प्रा० लि०
753	U51507WB1998PTC86650	एस मेडिको प्रा० लि०
754	U27310WB1973PTC29090	एस एन मजुमदार एण्ड ब्रोस (इण्डिया) प्रा० लि०
755	U45209WB1994PTC61727	एस. ए. हाउसिंग डेवलमेंट प्रा० लि०

756	U51109WB1997PTC85417	एस. डी. मर्कण्डलाइज प्रा० लि०
757	U28991WB1976PTC30396	एस. के. रॉल्लिंग सुटर्स प्रा० लि०
758	U23109WB1968PTC27346	एस. एन. मुखर्जी (कॉल सेल्स) एण्ड कम्पनी प्रा० लि०
759	U27106WB1995PTC73329	एस. आर. एस. इलेक्ट्रोहिट प्रा० लि०
760	U55101WB1995PTC74401	सबा रेसोर्ट्स प्रा० लि०
761	U55101WB1998PTC88093	सबकॉन कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०
762	U51433WB1999PTC90853	सबिता बैरिंग प्रा० लि०
763	U99999WB1964PTC026075	सधुखान आयरन वर्क्स प्रा० लि०
764	L99999WB1980PLC32538	सिदिराम गंगाप्रसाद इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
765	U99999WB1974PTC029567	सफर इंजीनियर्स प्रा० लि०
766	U27101WB1982PTC34778	सेफ्टी इन्सपेक्शन (इण्डिया) प्रा० लि०
767	U45201WB1982PLC34976	सागर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
768	U99999WB1996PTC077491	सागर टेक्सटाइलस इण्डिया प्रा० लि०
769	U22202WB1911PLC2059	साहित्य प्रचार समिति लिमिटेड
770	U24232WB1941PTC10828	सैलेन बोस एण्ड कम्पनी

771	U15135WB1997PTC85607	सैनसब्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
772	U15312WB1992PTC54591	साकेत फूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
773	U51109WB1997PTC84411	सकुरा मर्चण्डाइज प्रा० लि०
774	U27109WB1998PTC86409	स्लेक्ट ऑ स्टील प्रा० लि०
775	U29214WB1965PTC26345	सलकिया इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०
776	U26922WB1998PTC86577	सामन्त कॉमर्शियल प्रा० लि०
777	U74140WB1993PTC60116	समिक्षा कंस्ट्रक्शंस प्रा० लि०
778	U45209WB1990PTC48975	सनातन कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०
779	U24232WB1979PTC32399	संकटम फार्मा प्रा० लि०
780	U51109WB1998PTC86368	सनदिन एक्सपोर्ट्स एण्ड इमपोर्ट प्रा० लि०
781	U65999WB1993PLC60016	सनहिता कॉमर्शियल फिनान्स लिमिटेड
782	U51109WB1995PTC74137	सनहिता कॉमोडिटिज प्रा० लि०
783	U51109WB1995PTC74103	सनहित कॉमोसेल्स प्रा० लि०
784	U18104WB1976PTC30439	संजय अप्पारेल्स प्रा० लि०

785	U99999WB1970PTC027743	संजय पेट्रोकेमिकल वर्क्स प्रा० लि०
786	U65192WB1992PLC54668	सनकल्याण फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
787	U65993WB1983PLC36938	संकलप फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
788	U19119WB1994PTC63457	संकर फूटवेयर प्रा० लि०
789	U51109WB1995PTC67711	सनकेश कॉमोडीटिज प्रा० लि०
790	U51109WB1997PTC84452	संकेत मर्चण्ट्स प्रा० लि०
791	U51109WB1997PTC84440	सन्सु कंजुमर प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
792	U24239WB1972PLC28323	स्नवा फार्मासियुटिकल्स प्रा० लि०
793	U29212WB1964PTC26197	सन्थाल इलेक्ट्रिकल्स एण्ड मेकेनिकल इंजीनियरिंग प्रा० लि०
794	U51909WB1994PTC64949	सनयम कॉमोडीटिज प्रा० लि०
795	U51109WB1995PTC68916	स्पेनिंग व्यापार प्रा० लि०
796	U99999WB1970PTC27782	सप्ताह पब्लिकेशनस प्रा० लि०
797	U01132WB1917PLC2842	सरालता डेबिज लिमिटेड
798	U99999WB1964PTC026092	सारंगी महापात्रा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा० लि०
799	U17111WB1972PTC28223	सरोगी स्टील एण्ड एल्लाय इंडस्ट्रीज प्रा० लि०

800	U24123WB1998PTC86346	सतदरू पेन्टस एण्ड केमिकल्स प्रा० लि०
801	U99999WB1974PTC029623	सौदागर चहट फाण्ड प्रा० लि०
802	U65993WB1982PLC34964	सवरे ट्रेड इन्टरप्राइजेज लिमिटेड
803	U28113WB1982PTC34744	सेक्सोनि इंजीनियरिंग प्रा० लि०
804	U25111WB1997PTC84495	स्केड रबड प्रा० लि०
805	U74210WB1994PTC63080	स्किमेटिक कंस्ट्रक्टेडस प्रा० लि०
806	U31102WB1970PTC27748	स्क्रीट इंजीनियर्स (इण्डिया) प्रा० लि०
807	U51109WB1990PTC48210	स्के म ट्रेडर्स प्रा० लि०
808	U5005 WB1995PTC68705	सि-लिक फूड प्रोजेक्टस प्रा० लि०
809	U36939WB1993PTC60439	सिम स्पोर्ट्स वेयर प्रा० लि०
810	U99999WB1917PLC002787	सिरस्लो कॉल कम्पनी लिमिटेड
811	U25209WB1995PTC68642	सिवेव प्लॉमर्स प्रा० लि०
812	U31501WB1984PLC37273	सेरा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
813	U74999WB1919PTC3375	सेन मजुमदार कम्पनी
814	U22219WB1992PTC54962	सेरा प्रकाशक प्रा० लि०

815	U15412WB1997PTC84358	सेवेनिया फूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
816	U99999WB1964PLC026010	सेवानि फाइनेंसर लिमिटेड
817	U67120WB1995PTC74669	साहा निधि निवेश प्रा० लि०
818	U19112WB1964PTC26147	साहफर एण्ड रेपिटाइल स्किनस एक्सपोर्टिंग प्रा० लि०
819	U65910WB1972PTC28370	शंकर सेविंग एण्ड फिनान्स कम्पनी प्रा० लि०
820	U67120WB1971PTC27947	शान्ति इन्व्हेस्टमेंट प्रा० लि०
821	U36911WB1998PTC87578	शर्मा लक्ष्मिनाराया सिल्वर आर्ट्स प्रा० लि०
822	U65910WB1994PLC61322	शनराइज विनियोग एण्ड हाउसिंग फिनान्स लिमिटेड
823	U28812WB1987PTC43071	शिवा इरेक्टर्स प्रा० लि०
824	U17125WB1972PLC28608	श्री बिहार जुट द्यून मिल लिमिटेड
825	U51909WB1998PTC86458	श्री कॉमोडीटिज प्रा० लि०
826	U65923WB1997PTC84446	श्री रामदेवजी फिनान्सियल सर्विसेज प्रा० लि०
827	U52322WB1993PTC60143	श्री सेल्स प्रा० लि०
828	U01132WB1997PTC86176	श्री श्याम प्लान्टेशन प्रा० लि०

829	U24221WB1997PTC85265	श्री सिताराम वाणिज्य प्रा० लि०
830	U67120WB1972PTC28470	श्री त्रिपति फाइबर प्रा० लि०
831	U35112WB1998PTC87676	श्री अमैय फूड्स प्रा० लि०
832	U27105WB1971PTC27904	श्री स्टीलस प्रा० लि०
833	U65999WB1994PTC65314	शरूति सिक्युरिटीज प्रा० लि०
834	U36911WB1997PTC84812	शुभम ज्वेलर्स प्रा० लि०
835	U24241WB1997PTC85134	शुखमय वाइओ-टोन प्रा० लि०
836	U51909WB1995PTC72297	स्वेताम्बर मार्केटिंग प्रा० लि०
837	U27109WB1966PTC26835	सिदिसा इंजीनियरिंग प्रा० लि०
838	U24119WB1977PTC30946	सिगमा रहो ऑफिस मशिनस प्रा० लि०
839	U99999WB1914PLC002444	सिगना (जहेरिया) इलेक्ट्रिक सप्लाय प्रा० लि०
840	U63040WB1999PTC90254	साइलेन्ट वैल्लि (विल्डर्सनेस) टूर्स प्रा० लि०
841	U22219WB1997PTC82296	सिल्वरलाइन पब्लिकेशन प्रा० लि०
842	U74999WB1992PTC54997	सिमरन एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०

843	U51109WB1993PTC61053	सिम्पलेक्स टेक्जिम प्रा० लि०
844	U51909WB1965PTC26385	सिंघ एण्ड चावरा (सेल्स) प्रा० लि०
845	U74140WB1985PTC39500	सिंधल व्यापार प्रा० लि०
846	U01132WB1998PTC86718	सिन्हा ब्रदर्स एण्ड कम्पनी प्रा० लि०
847	U51909WB1994PTC65076	साइन ट्रेडिंग प्रा० लि०
848	U74999WB1984PLC37156	सिपानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
849	U65910WB1992PLC56843	साइरकॉ इण्डिया सेविंग्स एण्ड जेनरल फिनान्स कम्पनी प्रा० लि०
850	U52324WB1992PTC56421	सारसिल मार्केटर्स प्रा० लि०
851	U72200WB1998PTC88561	एसआईएसएस एसोसिएट्स प्रा० लि०
852	U55101WB1997PTC84441	स्किफ होटल्स एण्ड एडवर्टाइजिंग प्रा० लि०
853	U99999WB1999PTC090738	स्कॉकाई इन्टरप्राइज प्रा० लि०
854	U51909WB1995PTC74769	स्मार्ट ट्रेकॉन प्रा० लि०
855	U74300WB1993PTC57956	स्नेदविक कम्युनिकेशन प्रा० लि०
856	U51909WB1995PTC74112	स्नेहा विनिकॉम प्रा० लि०

857	L99999WB1964PLC026063	सॉफ्रेमाइन्स (इण्डिया) लिमिटेड
858	U55101WB1980PTC32578	सॉईगन कस्मस मैरिन प्रा० लि०
859	U65910WB1993PLC61064	सोनार गॉन फिलिकल लिमिटेड
860	U65999WB1992PLC57013	संयोग फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
861	U85195WB1975PTC30254	सौरब ऑस्टॉलॉजिक प्रा० लि०
862	U51223WB1965PTC26716	साउथ कलकत्ता कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०
863	U70101WB1995PTC74038	साउदर्न इन्चलेव प्रा० लि०
864	U01132WB1993PTC57950	एसपीए एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
865	U24299WB1997PTC85473	स्पानिन केम प्रा० लि०
866	U52392WB1993PTC60137	स्पेकस्केन इन्स्ट्रुमेंट्स प्रा० लि०
867	U24119WB1982PTC34551	स्पेक्ट्रम लेदर पिगमेंट्स एण्ड केमिकल्स प्रा० लि०
868	U85110WB1998PTC87726	स्पेक्ट्रम माइक्रोसर्जिरी सेन्टर प्रा० लि०
869	U51909WB1980PTC32579	स्पीडय एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
870	U24222WB1981PTC33914	स्पीट्रम कलर्स (कलकत्ता) प्रा० लि०

871	U51109WB1997PTC84496	स्पेलेण्डर कॉमर्शियल प्रा० लि०
872	U51909WB1995PTC68864	स्प्रिंगटच सेल्स प्रा० लि०
873	U29291WB1974PTC29717	स्पिरिटज ऑटोमोशन (इण्डिया) प्रा० लि०
874	U99999WB1992PLC054644	स्क्वार्ड सॉफ्टवेयर लिमिटेड
875	U51109WB1968PTC27380	श्री बालाजि ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०
876	U74140WB1994PTC63168	श्री फ्लाट ऑनर्स एसोसिएशन प्रा० लि०
877	U99999WB1981PTC33878	श्रीजा (इण्डिया) प्रा० लि०
878	U26941WB1965PTC26602	श्रीपुर ट्रेडर्स प्रा० लि०
879	U99999WB1972PTC028246	श्री अमृत ट्रेडर्स एण्ड मिनरलस प्रा० लि०
880	U28201WB1966PTC26767	श्री चैतन्य टेक्सटाइल प्रोसेसिंग प्रा० लि०
881	U70101WB1997PTC84838	श्री गंगापति मार्केटिंग एण्ड डेवलपर्स प्रा० लि०
882	U01222WB1997PTC84697	एसएसबी पॉलेट्री एण्ड फार्मिंग प्रा० लि०
883	U63090WB1990PTC48275	स्टामफोर्ड शिप मैनेजमेंट प्रा० लि०
884	U51226WB1977PTC30955	स्टेण्डर्ड हेल्थ प्रा० लि०

885	U70101WB1997PTC85309	स्टार एण्ड स्टार एपार्टमेंट्स प्रा० लि०
886	U65929WB1995PLC74348	स्टार म्युचुअल बेनफिट कम्पनी लिमिटेड
887	U67120WB1992PTC54847	स्टेयरलिंग प्रोफोल्ड मैनेजमेंट प्रा० लि०
888	U99999WB1975PLC030217	स्टरलिट केबल लिमिटेड
889	U70101WB1982PTC34962	सटर्डे बिल्डर्स प्रा० लि०
890	U67120WB1997PTC84700	सुबाशयना फि नान्सियल प्रा० लि०
891	U74140WB1982PTC34678	सुभास राय एण्ड कम्पनी (फोरेक्स ब्रोकर्स) प्रा० लि०
892	U23203WB1994PTC63467	सुद्धा गैर प्रा० लि०
893	U74140WB1998PTC86556	सुगोकॉल सेल्स एण्ड सर्विसेज प्रा० लि०
894	U51109WB2000PTC91140	सुखजीत मार्केटिंग प्रा० लि०
895	U51909WB1992PTC56423	सुखमय कंसल्टेंसी एण्ड डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा० लि०
896	U51909WB1994PTC65363	सुकिरण विनकॉम प्रा० लि०
897	U24119WB1975PTC30208	स्लोगना लेब्रोटरिज प्रा० लि०
898	U65992WB1975PTC30238	रोलेखा चीत फाइनेन्सर प्रा० लि०

899	U34300WB1999PTC90831	सन बेम ऑटो प्रा० लि०
900	U51311WB1998PTC87249	सुनिल सन्स फैशन प्रा० लि०
901	U70101WB1997PTC85312	सन्नि रियल इस्टेट्स प्रा० लि०
902	U45203WB1990PTC48283	सनराइज (स्टील) स्ट्रीप्स प्रा० लि०
903	U15549WB1997PTC83854	सुपर इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०
904	U11102WB2000PTC91863	सुप्रियर ब्लास्ट एण्ड इक्सप्लोसिव्स प्रा० लि०
905	U63090WB1976PTC30491	सुराना ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा० लि०
906	U24211WB1979PTC32378	स्योरक्योर प्रा० लि०
907	U67120WB1990PTC48248	सुरेश कुमार सोमानि शेयर ब्रोकर्स प्रा० लि०
908	U01122WB1993PLC57975	सुरोलिया एग्रो-प्लान्टेशन ग्रोथ एण्ड मार्केटिंग (इण्डिया) लिमिटेड
909	U65993WB1976PTC30470	सुरिचि इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा० लि०
910	U51109WB1982PTC34949	सुरया बॉलपेन इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
911	U99999WB1976PTC030810	सुसमित संगीता इन्टरमैग्नेटिक प्रा० लि०
912	U50300WB1990PTC48898	सुवा-प्रिया सेल्स इम्पोरियम सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा० लि०
913	U70109WB1964PTC26175	स्वदेशी लैण्ड डेवलपमेंट कम्पनी प्रा० लि०

914	U72900WB1993PTC60319	स्वागतम् कम्प्यूटर्स प्रा० लि०
915	U99999WB1974PTC029738	स्वैका आयल मिल्स प्रा० लि०
916	U99999WB1974PTC029738	स्वैका सन्स प्रा० लि०
917	U65993WB1975PTC30372	स्वपन वीत एण्ड फिनान्स कम्पनी प्रा० लि०
918	U70109WB1997PTC85579	स्वारन टावर्स प्रा० लि०
919	U51109WB1993PTC61072	स्वर्णधारा कॉमोर्ट्रेड प्रा० लि०
920	U74140WB1993PTC60088	स्वर्णिम कंस्ट्रक्टेसी सर्विसेज प्रा० लि०
921	U15312WB1997PTC86124	स्वरूपनगर रहमानिया राईस मिल प्रा० लि०
922	U74140WB1998PTC86531	स्वासम नेटसॉफ्ट प्रा० लि०
923	U15412WB1990PTC48423	स्वास्तिका कन्फेक्टनर्स प्रा० लि०
924	U64203WB1998PTC87132	सयबेरदरॉम इंटरनेट प्रा० लि०
925	U65191WB1982PTC34944	सयदेक्स इंजीनियरिंग प्रा० लि०
926	U17219WB1980PTC32649	सन्थेटिक्स एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
927	U72200WB1997PTC85994	सिस्टमस इनरगेजर्स प्रा० लि०

928	U70101WB1990PTC48217	टी पी मार्केट प्रोपर्टीज प्रा० लि०
929	U45201WB1998PTC87833	तेज कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०
930	U51109WB1995PTC68889	टकमिन डेल्कोम प्रा० लि०
931	U10101WB1921PLC4372	टालचेर कॉल फिल्ड लिमिटेड
932	U99999WB1998PTC086966	तारा एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
933	U51223WB1995PTC72008	तारम एक्जुआ कल्चर प्रा० लि०
934	U24297WB1964PTC26176	टेक्नॉकेम म्नुफेक्चर्स प्रा० लि०
935	U67120WB1992PTC54573	टलर क्रेडिट एण्ड फिनान्स प्रा० लि०
936	U51109WB1995PTC67882	टेलमस व्यापार प्रा० लि०
937	U51109WB1993PTC057949	टेलरटार कॉमर्श प्रा० लि०
938	U24139WB1979PTC32239	तिगन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
939	U28113WB1973PTC28814	टिकमान्य पैकेजिंग कम्पनी प्रा० लि०
940	U20211WB1964PTC26177	टिम्बरक्राफ्ट्स प्रा० लि०
941	U01132WB1918PLC3017	टिप्परह टी क्रोप्स लिमिटेड
942	U24246WB1990PTC48869	त्रिरूपति कस्मेटिक्स प्रा० लि०

943	U51109WB1997PTC84428	त्रिरूपति विनट्रेड प्रा० लि०
944	U65922WB1992PLC56915	टिस्टा इकॉनोमिक एण्ड फिनान्स लिमिटेड
945	U52393WB1995PTC74924	टीएनटी फैशन प्रा० लि०
946	U27109WB1964PTC26134	दूल स्टील डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि०
947	U63090WB1981PTC33725	टॉप कैरियर्स एण्ड मनुफेक्चर्स प्रा० लि०
948	U51109WB1995PTC74884	टॉरिना ट्रेकॉन प्रा० लि०
949	U99999WB1970PTC27839	ट्रेकॉ सॉ प्रा० लि०
950	U31909WB1965PTC26656	ट्रेकॉन इंजीनियर्स प्रा० लि०
951	U70101WB1997PTC85306	ट्रेटिस एपार्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग म्पिनी लिमिटेड
952	L67120WB1982PLC34467	त्रृष्णा इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि०
953	U51109WB1997PTC84457	त्रिशुल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि०
954	U99999WB1965PTC026664	ट्रोपिक्स पब्लिकेशनस प्रा० लि०
955	U45209WB1964PLC26195	टुल्लोक मिगरलस लिमिटेड
956	U67120WB1997PTC84548	टुलशयन सिक्युरिटिज प्रा० लि०

957	U63022WB1997PTC84489	तुशार कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०
958	U51909WB1997PTC84521	यू के काग्रो लिक्वर्स प्रा० लि०
959	U55101WB1990PTC48452	अबक्यू होटल कम रेस्टुरेन्ट प्रा० लि०
960	U65910WB1973PTC28740	उदय इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०
961	U99999WB1997PTC084436	उद्यान मार्केटिंग प्रा० लि०
962	U65993WB1971PLC28157	उमंग इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड
963	U52201WB1998PTC87429	यूनिफ्लेक्स मार्केटिंग प्रा० लि०
964	U24232WB1954PTC21812	यूनिक कैमिकल्स लब्रोटेरिज प्रा० लि०
965	U22121WB1970PTC27639	यूनिक पब्लिसर्स प्रा० लि०
966	U17232WB1980PTC32653	यूनाइटेड पैकर्स प्रा० लि०
967	U99999WB1953PTC021245	यूनाइटेड टी ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०
968	U19202WB1970PTC27685	यूनिवर्सल सॉ एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
969	U67120WB1992PLC56945	यूनायनि फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
970	U17299WB1966PTC26717	उर्वसि (गारमेंट्स) प्रा० लि०
971	U24229WB1998PTC86932	उत्तकर्म पेंट्स प्रा० लि०
972	U22211WB1972PLC28307	उत्तरायन पत्रिका लिमिटेड
973	U51909WB1990PTC48295	वी आर मर्चण्टलाइ प्रा० लि०

974	U51109WB1995PTC68866	वैशाकी टाई-अप प्रा० लि०
975	U67120WB1999PTC90785	वैष्णव स्टॉक ब्रोकिंग प्रा० लि०
976	U74140WB1994PTC61858	वैल्लय वियू कॉमर्शियल कम्पनी प्रा० लि०
977	U01111WB1997PTC85264	वनिसा फ्रेमलैण्डस प्रा० लि०
978	U15531B1966PTC26826	वराइटिज फूड प्रोडक्ट्स फार्म प्रा० लि०
979	U01111WB1995PTC74344	वशिष्ठ राईस मिल प्रा० लि०
980	U51909WB1994PTC065149	वशिष्ठ कॉमर्शियल प्रा० लि०
981	U85200WB1934PLC8127	वैक्स-इन्सटिट्यूट लेब्रोटरि लिमिटेड
982	U65922WB1992PTC54582	वीसीके एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
983	U70103WB1995PTC72010	वीसीके लैण्ड एण्ड प्रोपर्टीज प्रा० लि०
984	U51909WB1982PTC34959	विक्टोरिया लेदरवारेन प्रा० लि०
985	U21015WB1979PTC32216	विद्यासागर पेपर इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
986	U51109WB1997PTC85408	विशाल लक्ष्मी कंजुमर्स मार्केटिंग प्रा० लि०
987	U51109WB1995PTC74851	विटॉल सेल्स प्रा० लि०
988	U99999WB1964PTC026064	वोहरा टेक्स्टाइल फिनिशिंग प्रा० लि०
989	L99999WB1964PLC026015	वालकर एण्ड ग्रेग (कूनूर) लिमिटेड
990	U22121WB1990PTC48260	वेव पब्लिकेशन प्रा० लि०

991	U99999WB1999PTC90514	वेबकॉम कम्प्यूटर्स एण्ड इन्फोरमेशन प्रा० लि०
992	U30003WB1976PTC30818	वेबेल बिजनसेज मशिनस प्रा० लि०
993	U01132WB1993PLC61123	वेलकेयन मनी प्लान्ट सर्विसेस एण्ड फिन्वेस्ट कम्पनी लिमिटेड
994	U65993WB1982PLC34649	वेलफेयर इकॉनोमि लिमिटेड
995	U51109WB1995PTC74807	वेलविशर ट्रेकॉन प्रा० लि०
996	U73100WB1973PTC28801	वेस्ट बंगाल मेडिकल रिसर्च इन्सटिट्यूट प्रा० लि०
997	U99999WB1971PTC027989	वेस्ट चन्दौर कॉलरि प्रा० लि०
998	U15419WB1997PTC85260	वेस्ट फिल्ड डायरि प्रा० लि०
999	U18101WB1966PTC26856	वूल्कॉ स्टोर्स (इण्डिया) प्रा० लि०
1,000	U99999WB1964PTC026012	राइटर्स फॉर्म प्रा० लि०
1,001	U63090WB1997PTC85572	यातायात काग्रो सर्विसेज प्रा० लि०
1,002	U51909WB1996PTC78916	जेस्सोरा ट्रेडलिक्स प्रा० लि०
1,003	U99999WB1994PTC64373	जोडिमैक निर्यात प्रा० लि०

कम्पनी अधिनियम, 1956

और निम्नलिखित

कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद - 500 0195 दिनांक 31 दिसम्बर, 2007

स: आर ए पी / एस ई एस - 2005/ 560 (3)/एस टी ए -II/ दिसम्बर. 2007 -सूचना दी जाती है कि कम्पनी कार्य मंत्राल के एस.इ.एस- 2005 आसान कलम स्कीम - 2005 दिनांक 28-01-2005 के अनुसार इस कार्यालय में आवेदन किया है. सूचना दी जाती है कि इस तारिक से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी.

क्रम स.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
01	01-7936	नानक गारमेंट्स प्रैवेट लिमिटेड
02	01-15174	सुलक्षना फैनान्स अण्ड लीसींग लिमिटेड
03	01-16671	दिलशाद एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
04	01-17713	लता संजय इन्वेस्टमेंट्स प्रैवेट लिमिटेड
05	01-19500	डी पी एल फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड
06	01-21429	डी एस आर फैनान्सीयल सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
07	01-25930	दिव्या नागार्जुना टौनशीप प्रमोटर्स प्रैवेट लिमिटेड
08	01-26355	डी.एन.राव लीसिंग अण्ड फैनान्सींग लिमिटेड
09	01-28424	लेला राम बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
10	01-29767	सिलवरनेस्ट आरकेड प्रैवेट लिमिटेड
11	01-29840	ग्रेवेल प्रोफेशनल सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
12	01-34885	साफटिमा साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
13	01-19723	सप्तासिकरा ट्रेड लिंक्स प्रैवेट लिमिटेड
14	01-30178	सुप्पा सुर्या एक्जिम प्रैवेट लिमिटेड
15	01-37891	हॉक मल्टिमीडिया प्रैवेट लिमिटेड
16	01-28544	लीयो फोम्स प्रैवेट लिमिटेड
17	01-14871	हरिया इन्वेस्टमेंट्स प्रैवेट लिमिटेड
18	01-11769	हरिदास फैनान्स अण्ड लीसिंग लिमिटेड
19	01-1568	होटेल अपलाइड्स प्रैवेट लिमिटेड
20	01-05757	रामयया मिनिरल्स प्रैवेट लिमिटेड
21	01-31528	श्रीया आग्रीबिसिनस प्रैवेट लिमिटेड
22	01-38133	अक्युरा स्टील फोम्स प्रैवेट लिमिटेड

उक्त दर्शाए कम्पनियों को प्रस्ताव के अनुसार हटाने के बारे में किसी विशेष से कोई आपत्ति हो तो वे इस तारीख से 90 दिनों के भीतर अपनी शिकायत लिखित रूप में अवश्यक दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरी के पास प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रस्ताव के अनुसार बिना किसी सूचना के कम्पनियों के नामों को हटाया जाएगा.

हेन्री रिचर्ड
कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

हैदराबाद-500195, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

स आर ए पी /एस ई एस 2005/560 (5)/एस टी ए - III/ दिसम्बर, 2007 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां राजपत्र में प्रकाशित किया गया दिनांक से विघटित हो गयी है.

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01	01-36423	जीएगन ड्रग्स प्रैवेट लिमिटेड
02	01-34457	नलदा सनवेल्लो इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
03	01-14146	रूपम एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
04	01-15935	साक्षी मिनिरल्स अण्ड कैमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
05	01-30928	सी.डी. सैबरटेक प्रैवेट लिमिटेड
06	01-36670	एस एस ट्रेड अण्ड टैक्स कन्सलटेंट्स प्रैवेट लिमिटेड
07	01-16169	नगमनि कैमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
08	01-35718	अक्टिव पावर जेनरेशन प्रैवेट लिमिटेड
09	01-42279	अतेनास साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
10	01-28223	श्रीपती कान्द्राक्टर्स प्रैवेट लिमिटेड
11	01-1470	बाबू सुब्बा राव जेनरल ट्रेडिंग को प्रैवेट लिमिटेड
12	01-2836	पोसीडिआन कैमिकल्स लिमिटेड
13	01-21662	डीजेएम फूड्स प्रैवेट लिमिटेड
14	01-17500	वे एल एन पावर लिमिटेड
15	01-17760	स्टार विंडटेक प्रैवेट लिमिटेड
16	01-28350	कोस्टल कोयर्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
17	01-28101	विलशैर सोफ्टवेयर टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
18	01-10471	अमूल्या एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड
19	01-12429	एस्सेन ग्रानैट्स प्रैवेट लिमिटेड
20	01-33391	पाल्म स्प्रिंग्स आगोटैक प्रैवेट लिमिटेड
21	01-9773	श्रीलक्ष्मी पावर कान्द्राक्टर्स प्रैवेट लिमिटेड
22	01-21648	श्रीलक्ष्मी कृष्णा फैनान्स लिमिटेड
23	01-12586	डेक्कन पैपर्स अण्ड टियुब्स फैनान्स लिमिटेड
24	01-35173	क्विक शैर्स प्रैवेट लिमिटेड
25	01-37997	अर आर टौनशिप प्रैवेट लिमिटेड
26	01-21718	रवीना पौनडी-कैम इंडिया लिमिटेड
27	01-10885	जया फान्स अप्लैएनसेस प्रैवेट लिमिटेड
28	01-9833	सदर्ण इंटीग्रेटेड नप्रोजेक्ट्स लिमिटेड

29	01-9832	नागर्जुना कमर्सियल प्रैवेट लिमिटेड
30	01-11268	अरुना प्लास्टिक्स प्रैवेट लिमिटेड
31	01-4017	युनी-टेक सेल्स प्रैवेट लिमिटेड
32	01-3622	सक्शन प्लास्ट प्रैवेट लिमिटेड
33	01-34697	ट्रुग्रस इन्फोरमेशन टेक्नोलोजीस प्रैवेट लिमिटेड
34	01-31741	येलसाट सेक्युरिटीस प्रैवेट लिमिटेड
35	01-5776	अगस्त्या इंजीनीर्स प्रैवेट लिमिटेड
36	01-32853	वैशनवी कम्प्युटर सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
37	01-12600	नटराज ग्लास इंडस्ट्रीस प्रैवेट लिमिटेड
38	01-29737	श्री हर्षा ट्रेडिंग प्रैवेट लिमिटेड
39	01-32400	टी.आर. इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
40	01-19138	एमसन कान्ट्रैक्टर्स प्रैवेट लिमिटेड
41	01-2676	वी-के रियल एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड
42	01-16944	रुकसन अक्वा प्रैवेट लिमिटेड
43	01-32173	टी एस आर आई कामर्स प्रैवेट लिमिटेड
44	01-11266	प्रीमट स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
45	01-4413	विजय बीयरिंग्स अण्ड एलैड इंडस्ट्रीस लिमिटेड
46	01-29213	पेन्नार अल्युमिनियम कन्डक्टर्स लिमिटेड
47	01-32799	आलपैन कम्प्युटर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
48	01-40022	विद्या ई-डाटा सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
49	01-32834	श्याम सुंदर पॉवर प्रैवेट लिमिटेड
50	01-30556	पर्ल डैयरी प्रैवेट लिमिटेड
51	01-12428	फलइंग हॉक ससपेनशन्स प्रैवेट लिमिटेड
52	01-44025	शिवम टिम्बर प्रैवेट लिमिटेड
53	01-16677	बी.एस. लक्स अक्वाटेक प्रैवेट लिमिटेड
54	01-28287	एन एच आर इंटरप्राइजेस प्रैवेट लिमिटेड
55	01-4239	रेनुका टेक्सटाइलस प्रोसेसर्स लिमिटेड

हेनी रिचर्ड
कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

हैदराबाद-500195, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं आर ए पी /एस ई एस 2005/560 (5)/एस टी ए - II/
दिसम्बर, 2007 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप धारा (5)
के अनुसरण यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों
का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां राजपत्र में
प्रकाशित किया गया दिनांक से विघटित हो गयी है.

क्रम सं०.	कम्पनी नं०.	कम्पनी का नाम
01	01-19025	धारिवाल मार्केटिंग इण्डिया लिमिटेड
02	01-15473	नागवल्ली प्लंटेसेन्स प्रैवेट लिमिटेड
03	01-18028	पिट्टी लूब्रिकेंट्स प्रैवेट लिमिटेड
04	01-10701	मरुती फेररो अलोइस लिमिटेड
05	01-17113	आर.के. पोलिसाक्स प्रैवेट लिमिटेड
06	01-16353	साई लक्ष्मी एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड
07	01-10074	इंदूपुरु वेंकटा राव एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड
08	01-32470	तंगाडा मेटल्स प्रैवेट लिमिटेड
09	01-32233	सुवा सप्लीमेंट्स प्रैवेट लिमिटेड
10	01-19601	स्रव्या टर्स अण्ड ट्वेल्स प्रैवेट लिमिटेड
11	01-15677	कपिल कैमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
12	01-20062	स्वाती फैबर्स लिमिटेड
13	01-22113	रेविरेन बयोटेक लिमिटेड
14	01-22552	एस्सेस मेडिकल सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड
15	01-20049	अस्वीनी फैबर्स लिमिटेड
16	01-28352	त्रकंती चिट्स प्रैवेट लिमिटेड
17	01-28496	ट्रीस्ट इंजिनियरिंग अण्ड फब्रिकेटर्स प्रैवेट लिमिटेड
18	01-23332	बाटको कैरीरर्स लिमिटेड
19	01-4137	ज्या पाली अल्लोयस प्रैवेट लिमिटेड
20	01-7639	कोलीन डियो स्टोर्स प्रैवेट लिमिटेड
21	01-41825	विनशेन मल्टीटेड प्रैवेट लिमिटेड
22	01-40133	रिलैबल मोनोलिथिक्स प्रैवेट लिमिटेड

23	01-6305	क्रांत मशीन टूल्स प्रैवेट लिमिटेड
24	01-30796	एम एम के पॉवर प्रैवेट लिमिटेड
25	01-4819	टेलीन्युस प्रैवेट लिमिटेड
26	01-4690	पुष्पा पैपर बोर्डस प्रैवेट लिमिटेड
27	01-4232	एल जे के मनेजमेंट कन्सलटेंट्स प्रैवेट लिमिटेड
28	01-4692	हृरिदास प्लास्टिक्स प्रैवेट लिमिटेड
29	01-38747	वलीवेटी प्रोपर्टीस प्रैवेट लिमिटेड
30	01-33711	रांक मेडिका प्रैवेट लिमिटेड
31	01-12091	आड एक्सप्रेसन्स मार्केटिंग प्रैवेट लिमिटेड
32	01-1017	श्री गिरिराज इंटरप्राइस प्रैवेट लिमिटेड
33	01-17518	दान्समैड्स इन्फोटेक लिमिटेड
34	01-17596	स्मार्ट फैनान्सीयल अण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रैवेट लिमिटेड
35	01-14396	प्रतीत एक्विजम प्रैवेट लिमिटेड
36	01-10021	छास प्रोग्रेससिव सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड
37	01-34309	दुनसीस इंटिग्रेटेड सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड
38	01-30385	एवान बयो.-टेक प्रैवेट लिमिटेड
39	01-31285	दन्स सीड्स प्रैवेट लिमिटेड
40	01-39326	श्रीमाता टेलीकॉम सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड
41	01-15425	जय स्टार इन्सुलेशन प्रैवेट लिमिटेड
42	01-22047	गुडवर्त लॉब्स प्रैवेट लिमिटेड
43	01-33742	केलुगू टाकीस कॉम प्रैवेट लिमिटेड
44	01-30325	शीगोल एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
45	01-31967	समैक्या इन्फोटेक प्रैवेट लिमिटेड
46	01-34936	ई.बयोटेक लिमिटेड
47	01-35050	नेट स्टार्ट साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
48	01-32202	कोसैन एनर्जी सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड
49	01-28370	श्री श्रीनिवासा लिटर्स प्रैवेट लिमिटेड
50	01-30568	डॉ.जे.वी. राव पब्लिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
51	01-10006	श्री लक्ष्मी गनपति कन्सल्टन्स प्रैवेट लिमिटेड
52	01-23844	साई सेकर ट्रान्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
53	01-23953	परिमला एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड
54	01-23952	कामारेड्डी मार्केटिंग प्रैवेट लिमिटेड
55	01-28870	ओ एस सी आग्रीजैम प्रोडक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
56	01-15553	इंडकॉम सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड
57	01-15213	बीस टेक्निक्स प्रैवेट लिमिटेड
58	01-38125	महायोगी लक्ष्मम्मा पॉवर प्रैवेट लिमिटेड
59	01-15449	कपिला फैनान्स अण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रैवेट लिमिटेड
60	01-20743	अईकोन सेक्युरिटीस लिमिटेड
61	01-21553	से सी नेट इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
62	01-32949	वे सी के इंटरप्राइस प्रैवेट लिमिटेड
63	01-16489	प्रीमियर मनेजमेंट कन्सलटेंट्स प्रैवेट लिमिटेड

64	01-32498	एस आर जे मेडिसाफ्ट प्रैवेट लिमिटेड
65	01-35331	हुनुमान गिन्नींग प्रैवेट लिमिटेड
66	01-20405	सूपर सप्लाइ एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड
67	01-26611	सैबल सन टेक्नोलोजीस लिमिटेड
68	01-36350	उत्तम अनिमिडिया लिमिटेड
69	01-8214	के एम एलैक्ट्रानिक्स प्रैवेट लिमिटेड
70	01-27686	डेक्कन रिक्विजिशनस प्रैवेट लिमिटेड
71	01-37935	डाटाफोरमिक्स अई टी सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
72	01-21097	सिल्वर ओएक आरकेड प्रैवेट लिमिटेड
73	01-20859	श्रीनिवासा फैंबर इंटरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
74	01-35230	तक्शीला साफ्टवेयर प्रैवेट लिमिटेड
75	01-20516	इण्डिया प्रैमस्टॉक स्कूल आफ मेनेजमेंट लिमिटेड
76	01-35831	सिंधू पॉवर सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड
77	01-35095	आटोफिन इम्पोर्ट अण्ड एक्सपोर्ट प्रैवेट लिमिटेड
78	01-10602	एशियन मिनिरल इंडस्ट्रिज लिमिटेड
79	01-13944	एन.सी.एस. लॉबोरेटरीस प्रैवेट लिमिटेड
80	01-11015	एन.सी.एस. मोलासीस प्रैवेट लिमिटेड
81	01-38714	युनिवर्सल सूगर एक्सचेंज लिमिटेड
82	01-16156	सिम्हागिरि एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड
83	01-15911	श्री लक्ष्मी परमात्मा फ़ैनान्स अण्ड इन्वेस्टमेंट प्रैवेट लिमिटेड
84	01-6917	नूर इंजिनियरिंग कन्सल्टेंसी सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
85	01-36087	डाटाफोरमिक्स टेक्नोलोजीस प्रैवेट लिमिटेड
86	01-36739	वी एस एम जेंटलींग अईलॉड्स अण्ड इंटरटैनमेंट लिमिटेड
87	01-38223	ट्रेडिशनल फार्मा लिमिटेड
88	01-38114	मूलमान मार्केटिंग सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
89	01-20702	श्री शेषा साई लक्ष्मी श्रीनिवासा फ़ैनान्स प्रैवेट लिमिटेड
90	01-20111	तेलंगाना ऑइल टेक प्रैवेट लिमिटेड
91	01-31136	अन्नमैय्या रिसोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
92	01-29971	श्रीविद्या टेलीसाफ्ट सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
93	01-29797	विजय इंटरनेट सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
94	01-38229	ऑंध्रा इंटरटैनमेंट अण्ड मीडिया प्रैवेट लिमिटेड
95	01-35104	ऑंध्रा ज्योती डॉट कॉम प्रैवेट लिमिटेड
96	01-22690	विजय बालाजी एक्विजम प्रैवेट लिमिटेड
97	01-23330	स्प्रिंगलॉड एड्युकेशनल अकादमी लि मिटेड
98	01-8779	श्री वासवी चिट फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड
99	01-41304	आरसेस इंटरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
100	01-15204	बकशर इन्वेस्टमेंट्स प्रैवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रोसलैन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 01 फरवरी 2008

सं. 560(3)एम सी ए/आर ओ सी/एरनाकुलम/560/2008/00150/1762--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रोसलैन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. श्रीकुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
बैंगलूर, दिनांक 25 जनवरी 2008

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/जेके/560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिए गए कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो, रजिस्टर से काट दिये जाएंगे, और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी:--

क्र.	रजि.	कम्पनी का नाम
सं.	सं.	
1	2	3
1.	8472	मैसर्स स्पार्टेक्स सिस्टम्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
2.	8479	मैसर्स एस. एस. डायरेजिंग एण्ड रिक्लेमेशन प्राईवेट लिमिटेड
3.	8480	मैसर्स आवास निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
4.	8497	मैसर्स प्रवीण्य मेडिकल सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
5.	8500	मैसर्स सेंचुरी लैम्प्स एण्ड लाइटिंग प्राईवेट लिमिटेड
6.	8502	मैसर्स ट्राइमाइक्रोबिट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	8505	मैसर्स एक्वेस्ट एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
8.	8508	मैसर्स पेगासस मेटल प्राईवेट लिमिटेड
9.	8517	मैसर्स नित्य सर्जिकल नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
10.	8532	मैसर्स केप्री पोलिमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	8547	मैसर्स हाइलैंड ग्रेनाइट्स एण्ड मोन्यूमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	8561	मैसर्स आविष्कार सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
13.	8574	मैसर्स हेली टायर कॉर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	8576	मैसर्स सण्डूर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	8582	मैसर्स प्लास्टोमेटल कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	8585	मैसर्स इण्टलेक्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	8589	मैसर्स कर्नाटक आरमोर टेप्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	8590	मैसर्स रोहिणी लेदर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	8581	मैसर्स पी. एम. एस. ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
20.	8594	मैसर्स पेनब्रास इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	8595	मैसर्स नान रेसीडेंट इंडियन्स हाउसिंग एसोसियेशन (कर्नाटक) प्राईवेट लिमिटेड
22.	8596	मैसर्स पंचगंगा रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	8602	मैसर्स केपी केसिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	8604	मैसर्स नटेसन्स ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
25.	8605	मैसर्स रत्नामस मल्टी साफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	8623	मैसर्स एयरो नेट ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	8626	मैसर्स साहिल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	8627	मैसर्स निलो एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
29.	8633	मैसर्स वागले फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	8634	मैसर्स वागले मेटल केप्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	8635	मैसर्स बिडानुर डिस्टीलर्स लिमिटेड
32.	8641	मैसर्स सुधंद सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	8642	मैसर्स वेणु स्टोन एण्ड सीमेंट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	8647	मैसर्स पंचप्पा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	8654	मैसर्स शांतनभारत इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	8857	मैसर्स ब्लू स्टील कम्प्यूटर एण्ड साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
37.	8663	मैसर्स कर्नाटक डीहाईड्रेट्स लिमिटेड
38.	8664	मैसर्स स्टालियन बोरवेल्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	8600	मैसर्स चत्विक् स्टैम्पिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	8706	मैसर्स श्रीतिक टेक प्राईवेट लिमिटेड
41.	8672	मैसर्स जे. वी. एम. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	8676	मैसर्स वेंदुज लेविस फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	8677	मैसर्स पटोदिया वाचेस एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	8680	मैसर्स आर. एस. फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	9682	मैसर्स सुमंगला एग्रो फीड्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	8688	मैसर्स निट विट प्राईवेट लिमिटेड
47.	8692	मैसर्स फ्लोरा सिल्क्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	8694	मैसर्स खूबचंदानी प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	8707	मैसर्स मिक्के फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	8718	मैसर्स हलाडी क्लेस प्राईवेट लिमिटेड
51.	8728	मैसर्स कीलेरी पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	8737	मैसर्स एसोसियेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	8738	मैसर्स फेरम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	8744	मैसर्स नार्थ साऊथ मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
55.	8747	मैसर्स श्री एण्ड श्री फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	8751	मैसर्स पै कॉफी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	8761	मैसर्स के. जे. लैण्ड डेवलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
58.	8764	मैसर्स सिद्धेश्वर केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	8766	मैसर्स डेल्टा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	8679	मैसर्स रुचिरा डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	8768	मैसर्स नंदी वेनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	8772	मैसर्स क्राऊन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	8773	मैसर्स माइक्रो स्टार कम्प्यूटर सेंटर एण्ड बिजनेस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	8776	मैसर्स कोल्टन टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	8778	मैसर्स राइट ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	8779	मैसर्स कोडगु डिस्टिलरीज प्राईवेट लिमिटेड
67.	8783	मैसर्स लस्या ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	8786	मैसर्स कर्नाटक हास्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	8789	मैसर्स शंकर सुकुमार मोटर प्राईवेट लिमिटेड
70.	8792	मैसर्स यूनाइटेड डिजीटल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	8793	मैसर्स भाग्यलक्ष्मी हायर पचेस प्राईवेट लिमिटेड
72.	8794	मैसर्स बूट्स लेदर्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	8796	मैसर्स जेमविन लेम्प्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	8803	मैसर्स सुरमेड लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
75.	8807	मैसर्स इंद्रतम कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	8814	मैसर्स स्टेक फ्रुटी एण्ड वेजीटेबल्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	8821	मैसर्स स्टर्लिंग सेचेल्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	8833	मैसर्स शेफा शागा खाण्डसारी प्राईवेट लिमिटेड
79.	8839	मैसर्स अल-अमीन इलेक्ट्रो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	8785	मैसर्स यजमान बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	8844	मैसर्स गिगनटेक्स सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	8854	मैसर्स स्पार कम्प्रेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	8857	मैसर्स क्लास टूल फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	8864	मैसर्स गायत्री सेल्स सिंडीकेट प्राईवेट लिमिटेड
85.	8866	मैसर्स भानु लोहा शिल्पा प्राईवेट लिमिटेड
86.	8868	मैसर्स आजीवेट बायोलॉजिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	8870	मैसर्स चित्र प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड
88.	8871	मैसर्स एस्के एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	8876	मैसर्स मोनोफिक्स पोलिमर्स लिमिटेड

1	2	3
90.	8877	मैसर्स मिनी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	8880	मैसर्स सिक्सन डिस्टिलरीज प्राईवेट लिमिटेड
92.	8883	मैसर्स राजू एण्ड राजू पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड
93.	8884	मैसर्स चदूरंग पेट्रोलियम्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	8886	मैसर्स मेहमा आफिस इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	8888	मैसर्स एवा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	8901	मैसर्स स्केनोरामा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	8910	मैसर्स श्री महाल्सा कॉन्ट्रेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	8911	मैसर्स विक्की प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	8919	मैसर्स शार फ्लोटेक प्राईवेट लिमिटेड
100.	8928	मैसर्स हाइवे ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	8934	मैसर्स त्रिवाल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
102.	8937	मैसर्स संगम मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	8939	मैसर्स एमयेस प्रेसिसन कंपोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	8941	मैसर्स प्रोफिसियेंट ट्रेवल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
105.	8943	मैसर्स हेगडे स्पाइजियाल पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	8944	मैसर्स टारस फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
107.	8945	मैसर्स पेप क्लोसर्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	8947	मैसर्स फ्रेमलेब्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	8952	मैसर्स टेंजेंट टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
110.	8953	मैसर्स विनीला ड्रास प्राईवेट लिमिटेड
111.	8954	मैसर्स गोविंद राज प्रापटी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	8963	मैसर्स शेल पेट्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	8966	मैसर्स शिवराम टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	8977	मैसर्स डुगर प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
115.	8983	मैसर्स ए. एस. के. प्रोसेसर्स एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
116.	8985	मैसर्स शक्ति कंसलटेंट्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
117.	8987	मैसर्स अम्मु डाइकेम प्राईवेट लिमिटेड
118.	8989	मैसर्स रवि लेम्प्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	8992	मैसर्स नाथन टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
120.	8993	मैसर्स जेनिथ रबर गुड्स मेनुफेक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	8996	मैसर्स सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
122.	9008	मैसर्स बोन टेस्ट फिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
123.	9020	मैसर्स कुतुबमीनार टी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
124.	9022	मैसर्स सूर्यमुखी हाउसहोल्ड स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
125.	9023	मैसर्स वेद न्यूज प्राईवेट लिमिटेड
126.	9030	मैसर्स मलनाड फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
127.	9035	मैसर्स मसक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
128.	9040	मैसर्स कथा प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड
129.	9047	मैसर्स कमला डायमंड्स प्राईवेट लिमिटेड
130.	9056	मैसर्स मस्कट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
131.	9057	मैसर्स एग्रो लिवस्टक पब्लिशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
132.	9059	मैसर्स न्यू डील मार्केटिंग एण्ड कंसलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	9063	मैसर्स एने लिजिंग लिमिटेड
134.	9066	मैसर्स प्रगति फेरोएलॉयज प्राईवेट लिमिटेड
135.	9071	मैसर्स हाइ-टेक इंसुलेशन प्राईवेट लिमिटेड
136.	9078	मैसर्स लोहित ऑयल एक्सट्रैक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	9079	मैसर्स क्वारटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	9082	मैसर्स वरनित हाउसेस प्राईवेट लिमिटेड
139.	9085	मैसर्स काम्स्टा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	9086	मैसर्स डीलक्स फाइनर रबर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
141.	9090	मैसर्स आर. एण्ड एन. अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
142.	9093	मैसर्स भाग्यलक्ष्मी शुगर्स प्राईवेट लिमिटेड
143.	9097	मैसर्स लिन्डन प्रोसेस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	9098	मैसर्स सलाग्राम केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
145.	9100	मैसर्स सिप्रे केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
146.	9101	मैसर्स महेश इंस्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
147.	9107	मैसर्स विक्सुन ग्लास बोटल मेनुफेक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड
148.	9108	मैसर्स भीमसेन ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
149.	9111	मैसर्स लैण्ड मार्क बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	9115	मैसर्स टेन्सिल ग्लास वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
151.	9133	मैसर्स रोटसन डायग्नोस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
152.	9139	मैसर्स स्केम्ब पोलि लिमिटेड
153.	9142	मैसर्स आर. सी. एस. टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
154.	9158	मैसर्स आशु इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
155.	9161	मैसर्स फार्चून स्पोर्ट्सवियर लिमिटेड
156.	9164	मैसर्स नालंदा फार्मास्यूटिकल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
157.	9689	मैसर्स वज्रस्ता एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
158.	9176	मैसर्स अभिनव प्रमोटर्स (बेंगलोर) प्राईवेट लिमिटेड
159.	9197	मैसर्स राम्या रेसीडेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
160.	9198	मैसर्स सुगमा साल्वेंट आयल्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	9202	मैसर्स चाणक्य कमर्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
162.	9217	मैसर्स एस. एस. प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
163.	9220	मैसर्स अक्षर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
164.	9173	मैसर्स शिवशक्ति इंडस्ट्रीयल पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
165.	9221	मैसर्स एन. यू. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
166.	9222	मैसर्स परफेक्टो प्रोड एड्स प्राईवेट लिमिटेड
167.	9228	मैसर्स सुपरस्टार केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
168.	9237	मैसर्स ओएसिस डेजर्ट्स एण्ड रेलिसेस प्राईवेट लिमिटेड
169.	9241	मैसर्स शंकर कुप्पुलंग्स टेक्निक प्राईवेट लिमिटेड
170.	9247	मैसर्स रूरल इंटिग्रेट टेलिकॉम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	9239	मैसर्स सिलिकॉन कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
172.	9246	मैसर्स न्यूटेक ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
173.	9248	मैसर्स स्वाति विडियो लिमिटेड
174.	9253	मैसर्स रघु हाउसिंग डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
175.	9255	मैसर्स एक्सिमर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
176.	9256	मैसर्स मंजूला इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
177.	9259	मैसर्स चिनप्पा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
178.	9260	मैसर्स डायनम पेकेजिंग इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
179.	9261	मैसर्स जे. के. एलमास टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
180.	9268	मैसर्स भास्कर सेलेक्टीव सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
181.	9271	मैसर्स नवरंग मिनरल्स एण्ड स्टोन कम्पनी लिमिटेड
182.	9277	मैसर्स सिक्सर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
183.	9278	मैसर्स केप्री सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
184.	9280	मैसर्स करवाली साफ्ट ड्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
185.	9282	मैसर्स सौखला फार्मास्यूटिकल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
186.	9285	मैसर्स ग्रेट एग्री-कॉन इक्विपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
187.	9287	मैसर्स शुहमान शू कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
188.	9294	मैसर्स बेलागोडु एण्ड मेनन पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
189.	9295	मैसर्स कोलोनियल प्रिकास्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
190.	9298	मैसर्स बेंगलोर पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड

1	2	3
191.	9300	मैसर्स ट्रोपिकल ट्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड
192.	9304	मैसर्स हाइ-टेक हाइड्रो हेलन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
193.	9312	मैसर्स हेब्बर सर्जिकल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
194.	9303	मैसर्स होब्स एडवरटायजिंग प्राईवेट लिमिटेड
195.	9314	मैसर्स मंडलिया कलर लेब्स प्राईवेट लिमिटेड
196.	9315	मैसर्स वाइल्डरनेस टूल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
197.	9316	मैसर्स तन्यो इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
198.	9320	मैसर्स ए. वी. एस. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
199.	9321	मैसर्स ग्रीनफील्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
200.	9322	मैसर्स मीनाक्षी हाउसेज एण्ड फ्लेट्स प्राईवेट लिमिटेड
201.	9324	मैसर्स सारा एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
202.	9333	मैसर्स जल ज्योति मेरीटाइम सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
203.	9335	मैसर्स टी. टी. रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
204.	9346	मैसर्स जे. पी. आक्सलेट्स प्राईवेट लिमिटेड
205.	9347	मैसर्स मार्वल एप्लायंसेस प्राईवेट लिमिटेड
206.	9359	मैसर्स त्रिवेणी केटल फीड्स प्राईवेट लिमिटेड
207.	9353	मैसर्स एलेक्स फ्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
208.	9360	मैसर्स सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड्स प्राईवेट लिमिटेड
209.	9381	मैसर्स बुरहान ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
210.	9362	मैसर्स फ्लक्सवेल्ड इलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड
211.	6382	मैसर्स प्रेसस्टॉप पेस्ट ईराडिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
212.	9384	मैसर्स महारानी रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
213.	9389	मैसर्स स्केच केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
214.	9397	मैसर्स तुषार एल्युमिनियम प्राईवेट लिमिटेड
215.	9406	मैसर्स मार्टन सौर शक्ति प्राईवेट लिमिटेड
216.	9411	मैसर्स कदंबा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
217.	9412	मैसर्स नवमार्ग मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
218.	9416	मैसर्स एम. के. सिलेंडर्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	9428	मैसर्स श्री राघवेन्द्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
220.	9417	मैसर्स अल्फा वायर सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
221.	9430	मैसर्स मल्हार मेडिकल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
222.	9431	मैसर्स मल्हार टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
223.	9433	मैसर्स सेरा इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
224.	9450	मैसर्स डायनालाइट पेक प्राईवेट लिमिटेड
225.	9451	मैसर्स मानसा इंटरक्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
226.	9458	मैसर्स साना टूरिज्म एण्ड हाउसिंग डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
227.	9460	मैसर्स एडिरोन्स मार्केटिंग एण्ड एडवरटायजिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
228.	9466	मैसर्स ईश्वरी कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
229.	9474	मैसर्स श्री अमरेश्वर केमिकल प्राईवेट लिमिटेड
230.	9481	मैसर्स एकोर्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
231.	9485	मैसर्स सिटी गेल्वेनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
232.	9489	मैसर्स मल्लिगे मेन्शन ओनर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
233.	9496	मैसर्स ममता केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
234.	9501	मैसर्स श्री बायोमेडिकल लेब्स प्राईवेट लिमिटेड
235.	9503	मैसर्स डेक्कन माइनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
236.	9504	मैसर्स मलाप्रभा फीड्स प्राईवेट लिमिटेड
237.	9497	मैसर्स मेक कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
238.	9506	मैसर्स श्री राम डिस्ट्रीलरीज प्राईवेट लिमिटेड
239.	9509	मैसर्स जेनिथ ब्लॉक्स प्राईवेट लिमिटेड
240.	9517	मैसर्स एल्कोलाइट इलेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
241.	9518	मैसर्स बिटा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
242.	9525	मैसर्स बेनिक्शो कन्स्ट्रक्शन्स इक्विपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
243.	9526	मैसर्स बाइट-राइट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
244.	9531	मैसर्स ग्राम साफ्टवेयर साइंसेस प्राईवेट लिमिटेड
245.	9532	मैसर्स सासा फारफेक्स प्राईवेट लिमिटेड
246.	9533	मैसर्स ग्यान कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
247.	9539	मैसर्स उर्वी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
248.	9542	मैसर्स डे स्टार कम्प्यूटर सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
249.	9551	मैसर्स फामा अरेकानट मार्केटिंग मिडिया प्राईवेट लिमिटेड
250.	9554	मैसर्स जरिन्स एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
251.	9556	मैसर्स मोनोफिक्स पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
252.	9558	मैसर्स स्मार्क क्वार्टर प्राईवेट लिमिटेड
253.	9565	मैसर्स राधा रामलिंगम लेदर बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड
254.	9573	मैसर्स श्री सत्यसाई एग्री आयल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
255.	9571	मैसर्स शास्त्री इंफोड्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
256.	9575	मैसर्स बेंगलोर पावर कंट्रोल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
257.	9576	मैसर्स कालीमाता वाच स्ट्रेप्स प्राईवेट लिमिटेड
258.	9586	मैसर्स जेनुकल कंस्टीट्यूशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
259.	9588	मैसर्स रोशनी लेदर्स प्राईवेट लिमिटेड
260.	9594	मैसर्स लक्ष्मी पेकवेल प्राईवेट लिमिटेड
261.	9591	मैसर्स मारुती गोल्ड स्टार ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
262.	9599	मैसर्स सज्जा सिल्क्स प्राईवेट लिमिटेड
263.	9602	मैसर्स कगोशिमा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
264.	9604	मैसर्स स्टाईल कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
265.	9620	मैसर्स देवता होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
266.	9625	मैसर्स प्रजना रबर फुटवेयर प्राईवेट लिमिटेड
267.	9627	मैसर्स ट्राययूनियन इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
268.	9642	मैसर्स अजंता चेंबर ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
269.	9643	मैसर्स बेलगाम मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
270.	9649	मैसर्स टॉय प्लान प्राईवेट लिमिटेड
271.	9653	मैसर्स एस. एस. मेक्रो लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
272.	9654	मैसर्स मोनोफिक्स एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
273.	9655	मैसर्स आर. एम. पी. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
274.	9662	मैसर्स शुक्र ब्रेवेल्स प्राईवेट लिमिटेड
275.	9664	मैसर्स मेग्नाप्लेक्स इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
276.	9668	मैसर्स बी. एम. जेने-टेक प्राईवेट लिमिटेड
277.	9678	मैसर्स एमिलॉन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
278.	9681	मैसर्स पीस होमर्स प्राईवेट लिमिटेड
279.	9686	मैसर्स मेगा ट्रामेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
280.	9688	मैसर्स प्रतिमाटेक्स स्पेसियलिस्ट प्राईवेट लिमिटेड
281.	9689	मैसर्स वज्रास्ट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
282.	9682	मैसर्स सुभंगला एग्रो फीड्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:—

बेंगलूर, दिनांक 29 जनवरी 2008

सं. 560(5)/सू-मोटो/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:—

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	6816	मैसर्स मॉडर्न वूड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	6844	मैसर्स शान-किन इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	6890	मैसर्स एन ए सी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	6891	मैसर्स चार्ल्स रिवर इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	6888	मैसर्स श्री मिलन सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	6885	मैसर्स दी फोरेस्ट कन्स्ट्रक्टर्स एण्ड टिम्बर मर्केट्स एसोसिएशन लिमिटेड
7.	6886	मैसर्स श्री सिद्धांगगा गिरिंग एण्ड ऑयल प्राईवेट लिमिटेड
8.	6867	मैसर्स वमाना केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	6862	मैसर्स ग्लोबल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	6887	मैसर्स माधवी ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	6851	मैसर्स अमलताशा फार्मास्यूटिकल्स एण्ड फाईन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	6849	मैसर्स बैंकर एण्ड बैंकर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	6815	मैसर्स फैंब निट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	6820	मैसर्स मारुती ग्लास इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
15.	6834	मैसर्स कास स्टील प्राईवेट लिमिटेड
16.	6940	मैसर्स डी जी इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
17.	6926	मैसर्स वानालॉय इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
18.	6922	मैसर्स इम्प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
19.	6906	मैसर्स इन्डाल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
20.	6972	मैसर्स सिगा क्रोमोकेम प्राईवेट लिमिटेड
21.	6963	मैसर्स श्री नियोनिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
22.	6952	मैसर्स एसके मशीनरी मैन्यूफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	6898	मैसर्स प्रि-प्रिंग सैल कास्ट प्राईवेट लिमिटेड
24.	6998	मैसर्स माकादाम ब्रिक्स एण्ड टाईल्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	6982	मैसर्स एलिनो रेमेडीज प्राईवेट लिमिटेड
26.	6981	मैसर्स कादम्बरी वाइर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	6979	मैसर्स यूनाइटेड विट्राईट प्राईवेट लिमिटेड
28.	7004	मैसर्स मैरी क्यूरी फार्मा प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
29.	7005	मैसर्स विनकेम फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
30.	7006	मैसर्स वेलगाम हाउसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
31.	7009	मैसर्स विनायका डेयरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड
32.	7028	मैसर्स वीकुसुक सेफ्टी ग्लास वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	7038	मैसर्स एसपी पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	7087	मैसर्स के वी प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	7088	मैसर्स स्वाती प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	7094	मैसर्स आस्मीर नाचीनेरीज एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	7082	मैसर्स आका प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	7079	मैसर्स मॉडर्न आलिओरेजिन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	7077	मैसर्स क्विक पेस इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	7073	मैसर्स मारुती ब्ले प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	7069	मैसर्स पाटिल प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	7120	मैसर्स कर्नाटका पोलियस्टर लिमिटेड
43.	7115	मैसर्स इन्ड पोली पैक एण्ड ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	7113	मैसर्स बंगलौर मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	7106	मैसर्स एड-डायन इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	7046	मैसर्स बंगलौर रोटेमैक प्राईवेट लिमिटेड
47.	7129	मैसर्स नंदिनी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	7158	मैसर्स कर्नाटका ब्रिक एण्ड टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	7153	मैसर्स कविता ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
50.	7144	मैसर्स कोनटेक्स इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	7141	मैसर्स विरोनिक प्राईवेट लिमिटेड
52.	7142	मैसर्स रिफ्लेक्स होल्डिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
53.	7172	मैसर्स रंगवाल पेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	7227	मैसर्स वरटेक्स हैवी इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
55.	7220	मैसर्स श्रीपावन लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
56.	7207	मैसर्स सिरूगीप्पा सीमेंट्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	7208	मैसर्स वनीलिलास माईनिंग कम्पनी लिमिटेड
58.	7190	मैसर्स संतोष ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	7182	मैसर्स सूर्योदया पब्लिशर्स एण्ड प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	7245	मैसर्स एयरफ्लो कन्ट्रोल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	7238	मैसर्स आई डी ए सिक्क्यूरिटी प्राईवेट लिमिटेड
62.	7236	मैसर्स श्री राजराजेश्वरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
63.	7233	मैसर्स होटल कोरमेंट प्राईवेट लिमिटेड
64.	7235	मैसर्स कर्नाटका मेटकान प्राईवेट लिमिटेड
65.	7298	मैसर्स दास इलियावल सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	7295	मैसर्स सीयाल वेवरेजी प्राईवेट लिमिटेड
67.	7290	मैसर्स श्री विश्वमुक्ता इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	7286	मैसर्स कायेनाथ इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
69.	7277	मैसर्स चन्द्रा मौलिआवारा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	7278	मैसर्स कामधेनु एण्ड कल्पवृक्षा स्टील ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
71.	7253	मैसर्स गणेश मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	7346	मैसर्स पराग मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड
73.	7351	मैसर्स श्री बानी गिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
74.	7353	मैसर्स किंगस्टन्स पील रिथेइम कम्प्यूनिक्शन प्राईवेट लिमिटेड
75.	7331	मैसर्स बंगलौर कारगो मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	7324	मैसर्स श्री अविरामी पोलीसेक्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	7325	मैसर्स निदिया केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	7318	मैसर्स ब्लू बेट इलेक्ट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	7314	मैसर्स के पी फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	7324	मैसर्स सोफाईन ट्रेवल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
81.	7398	मैसर्स डेल्टा अमित फ्लेवर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
82.	7394	मैसर्स वासु ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	7387	मैसर्स सन्स फाईवर्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	7369	मैसर्स प्रालो कैपमार्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	7368	मैसर्स श्री सर्वमंगला डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	7377	मैसर्स ब्रिदावन फीड्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	7413	मैसर्स मारुती मिनरेल्स एण्ड सिलिकेट्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	7254	मैसर्स मेहता हाई-सेक्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	6844	मैसर्स शणकिन इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

बेंगलूर, दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. 560(5)/सू-मोटो/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	28865	मैसर्स सनरे साफ्टवेयर सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड
2.	7428	मैसर्स शिरलाल लिजिंग एण्ड हायर परचेस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	7422	मैसर्स चिनीवार इंजीनियरिंग इन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड
4.	7417	मैसर्स शिमोगा सुगर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	7414	मैसर्स मार्वल कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	7439	मैसर्स सायरो कोकोनट प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
7.	7443	मैसर्स मुलगुंड फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	7464	मैसर्स अश्वरिथी लिजिंग लिमिटेड
9.	7430	मैसर्स प्रदास मेनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
10.	7498	मैसर्स सिडिओ फिल्म्स लिमिटेड
11.	7483	मैसर्स बिलाल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
12.	7481	मैसर्स दत्तात्रेय हिल प्लांट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	7476	मैसर्स आशय इलेक्ट्रीकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
14.	7474	मैसर्स श्री मोकाम्बिका सिल्क केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड
15.	7473	मैसर्स चैतन्य हाउसिंग एण्ड लैंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	7469	मैसर्स संकेत प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	7468	मैसर्स विप्र पब्लिकेशन लिमिटेड
18.	7503	मैसर्स स्मार्टेक सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
19.	7513	मैसर्स क्वाड्रा फिलिंग सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
20.	7514	मैसर्स राजसिंम्हा हाउसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
21.	7524	मैसर्स हास्टेस डिहाइड्रेटर्स फूड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	7567	मैसर्स केन्टेक कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	7569	मैसर्स नमकीन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	7553	मैसर्स भास्कर स्टेम्पिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	7555	मैसर्स दीपा सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	7610	मैसर्स आर. एन. सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	7616	मैसर्स वर्षी इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
28.	7622	मैसर्स मनीपाल केश्यू कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
29.	7623	मैसर्स भवानी बेरियम प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
30.	7627	मैसर्स पंपा प्रिंटिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	7529	मैसर्स श्री एन इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	7631	मैसर्स बोमकर इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
33.	7635	मैसर्स स्मार्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	7653	मैसर्स मिकाडो लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
35.	7654	मैसर्स डेक्कन प्लायवुड्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	7659	मैसर्स मंगलोर स्प्रिंग्स लिमिटेड
37.	7667	मैसर्स ट्रापिकान इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	7673	मैसर्स मयूरा ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	7678	मैसर्स टेक्नो इनोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	7679	मैसर्स शिवम रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड
41.	7684	मैसर्स स्टिल रबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
42.	7687	मैसर्स क्वासेल्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	34369	मैसर्स जिरकान इंफ्राटेक सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड
44.	7688	मैसर्स वीरश्री मशीन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	7694	मैसर्स जे. एफ. के. शूज प्राईवेट लिमिटेड
46.	7693	मैसर्स रिजवान इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	7517	मैसर्स भार्ग भारद्वाज प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	7527	मैसर्स तेन्ना मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
49.	7530	मैसर्स कामत आइस फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
50.	7534	मैसर्स बोस्टन इंडस्ट्रीयल सर्विसेस लिमिटेड
51.	7539	मैसर्स महालक्ष्मी ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
52.	7515	मैसर्स वी. एन. के. इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	7502	मैसर्स विशाख इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	7571	मैसर्स न्यू-मेलवर्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	7576	मैसर्स क्लिफ्स कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	7582	मैसर्स ट्रिनिटी बिजनेस सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
57.	7590	मैसर्स बुक्स होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	7593	मैसर्स सती डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	7594	मैसर्स गुलगुंड यार्न प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	7597	मैसर्स मेनन फार्म्स (इंडिया) लिमिटेड
61.	7599	मैसर्स प्रेमेडिक्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	7604	मैसर्स के. डब्ल्यू. आर. एलॉयकास्ट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
63.	7607	मैसर्स श्री कंट्रोल्स स्वीचार्जेस प्राईवेट लिमिटेड
64.	7609	मैसर्स गुरू राघवेन्द्र पेकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
65.	7540	मैसर्स सुर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
66.	7541	मैसर्स विनसम इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	7544	मैसर्स टेक्सटाइल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
68.	7551	मैसर्स भास्कर फेब्रिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	7552	मैसर्स भास्कर इलास्टोमर्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	7554	मैसर्स ट्राइमेक्स पेकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
71.	7557	मैसर्स एस. टी. वी. इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
72.	7718	मैसर्स हमटूल ड्रिल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	7720	मैसर्स विलम्ज एयर कंडीशनर्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	7722	मैसर्स नैन वूलन टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	7725	मैसर्स कामेट प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	7728	मैसर्स विनायका ऑटो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
77.	7732	मैसर्स मत्सू इंस्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	7733	मैसर्स ट्रिडेन्ट फार्मास्यूटिकल्स एण्ड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड
79.	7741	मैसर्स डेप्ती फास्ट फूड प्राईवेट लिमिटेड
80.	7745	मैसर्स बम्पर शू कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
81.	7748	मैसर्स सत्या डेबेरिंग्स इक्वीपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	7753	मैसर्स एस. एस. प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	7764	मैसर्स ब्लिस्ट ओ पेक प्राईवेट लिमिटेड
84.	7767	मैसर्स मैन-जोग सर्विसेस लिमिटेड
85.	7768	मैसर्स थोडर केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	7769	मैसर्स खोबा केमिकल्स एण्ड सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	7727	मैसर्स नवीन बुड डेकोर्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	7731	मैसर्स चन्नागिरि कॉटन गिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

बेंगलूर, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/560(5)/2006--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिये गये कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	24785	मैसर्स हार्डलोय हीट इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	24657	मैसर्स श्रीशेल नन्दी फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
3.	26702	मैसर्स पंचरत्ना सोफटेक प्राईवेट लिमिटेड
4.	24684	मैसर्स सिकराफ्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5.	24666	मैसर्स करन कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
6.	24662	मैसर्स अभिनेत्री इल्लाम प्राईवेट लिमिटेड
7.	25751	मैसर्स प्रिमियर हैचरीज प्राईवेट लिमिटेड
8.	24606	मैसर्स साईलेंट इंजीनियर्स एण्ड कन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	24619	मैसर्स सिकलेयर एप्परेल प्राईवेट लिमिटेड
10.	25740	मैसर्स विटसोफ्ट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
11.	26692	मैसर्स पॉवरेज इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
12.	25779	मैसर्स लोन मोवर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
13.	24840	मैसर्स परफेक्ट एलॉय कम्पोनेंट्स एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
14.	26043	मैसर्स क्वादरा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	24960	मैसर्स आई क्यू इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	24946	मैसर्स नरोत्तम सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
17.	25063	मैसर्स वेस्टाउन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
18.	25339	मैसर्स एलोवैदिक नेचुरल्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	25121	मैसर्स एस. एम. राम सोफ्ट टेक प्राईवेट लिमिटेड
20.	25606	मैसर्स विन्ड फार्म हायर परचेज एण्ड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
21.	25141	मैसर्स फाउन्टेन हेड टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
22.	25165	मैसर्स इन्फोप्रिज्म टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
23.	25304	मैसर्स एस. वी. फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	25333	मैसर्स रम्पैया सन्स कन्वेंशन सेंटर प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बैंगलूर, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 560(5)/सू-मोटो/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	7770	मैसर्स मिप्स कम्प्यूटर्स कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	7772	मैसर्स कार लिंक्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	7777	मैसर्स केनोबिंड प्राईवेट लिमिटेड
4.	7778	मैसर्स प्रिमियर एपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	7779	मैसर्स रोलवोर प्रोडक्ट्स एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	7783	मैसर्स जब इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	7787	मैसर्स गजानन टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	7790	मैसर्स लीना इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	7791	मैसर्स इगोलाईट फ्यूल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	7793	मैसर्स तिरुमला प्लास्टिक्स स्टेबलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	7798	मैसर्स मेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	7802	मैसर्स वीनस रेडियेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	7803	मैसर्स श्री वरलक्ष्मी टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	7806	मैसर्स ओडीसी कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	7807	मैसर्स फिल्रे कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	7808	मैसर्स डेक्स टेलिओलाजिकल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	7813	मैसर्स विजया पिगमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	7820	मैसर्स शिभा इलेक्ट्रीक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	7821	मैसर्स इगोलाईट कल्चर्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	7822	मैसर्स प्रोटेक सिंथेटिक्स एण्ड पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	7824	मैसर्स जे. एस. कार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	7831	मैसर्स वेस्ट लैंड एनोडायसिंग प्राईवेट लिमिटेड
23.	7840	मैसर्स ब्राऊन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	7842	मैसर्स मेगनम होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	7843	मैसर्स जयंती बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	7845	मैसर्स बेंटोकेब केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	7819	मैसर्स रैबो पेकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
28.	7837	मैसर्स स्नेश एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	7850	मैसर्स पैकवेल कार्टून्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	7928	मैसर्स के. टी. ग्रीन एक्सर्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	7920	मैसर्स प्रताप पोलिपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	7925	मैसर्स स्पेन इंफोरमेशन प्राईवेट लिमिटेड
33.	7929	मैसर्स डी. डी. मेडिकल डिवाइसेस प्राईवेट लिमिटेड
34.	7939	मैसर्स चिटिनीस प्रेसिसियन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	7940	मैसर्स जिग ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	7942	मैसर्स के. वाई. ए. एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	7945	मैसर्स बालाजी डीपवेल पम्प्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	7950	मैसर्स सोना ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	7960	मैसर्स इंद्रा डिफ्यूजन एडवरटाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
40.	7961	मैसर्स जे. एम. टी. लाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	7963	मैसर्स सिटी पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	7964	मैसर्स जी. वी. सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	7966	मैसर्स गुरुकृपा इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	7967	मैसर्स इंसु लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	7974	मैसर्स टेक्नोपेटर्न एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	7982	मैसर्स सुपर्बा एप्लीयांस प्राईवेट लिमिटेड
47.	7983	मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीयल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
48.	7987	मैसर्स सिंगिरि पल्चराइसर्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	7973	मैसर्स ओलिम्पिया गैस एप्लायसेस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
50.	7853	मैसर्स एस पैक कंटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	7859	मैसर्स करूणा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	7867	मैसर्स फेयर फील्ड कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	7874	मैसर्स पोद्दार मेनेजमेंट एण्ड टेक्नीकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
54.	7873	मैसर्स चन्द्रा बिजनेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
55.	7875	मैसर्स साल्वोकेम फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	7895	मैसर्स एम्के इलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	7896	मैसर्स गुलबर्गा वायर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	7912	मैसर्स नंदा वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	7913	मैसर्स डी. एस. ए. फाइबर रेनफोर्सड कम्पोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
60.	7702	मैसर्स एच. एम. के. प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
61.	7715	मैसर्स कंसोलीडेटेड सीमेंट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
62.	7998	मैसर्स भवानी पोलिमर प्राईवेट लिमिटेड
63.	8006	मैसर्स नारेल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
64.	8018	मैसर्स सौम्या डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	8027	मैसर्स वेलगार्ड पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	8028	मैसर्स वितम्स फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	8030	मैसर्स मंदाकिनी चित्र प्राईवेट लिमिटेड
68.	8032	मैसर्स सेविक विजय इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
69.	8033	मैसर्स गोड्या टिशु प्राईवेट लिमिटेड
70.	8037	मैसर्स माइक्रो एनर्जी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
71.	8042	मैसर्स राज राजेश्वरी हाऊसिंग लिमिटेड
72.	8050	मैसर्स सुयोग डेवलपमेंट एण्ड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
73.	8052	मैसर्स प्राइम मूवर्स प्रोजेक्ट्स कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	8053	मैसर्स ट्रायबोल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
75.	8057	मैसर्स माइकोटेल कम्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
76.	8064	मैसर्स मीनार सीमेंट्स लिमिटेड
77.	8066	मैसर्स शेरी फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड
78.	8019	मैसर्स कर्नाटक कोपर काम्प्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	7990	मैसर्स श्री गुरुकृपा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	8067	मैसर्स सूर्यभारती पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	8045	मैसर्स सूरगीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	8070	मैसर्स शास्ता कम्यूटीनक्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	8071	मैसर्स एवरोन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	8073	मैसर्स पुलकेशी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	8078	मैसर्स अर्गय एक्सट्रुशन प्राईवेट लिमिटेड
86.	8079	मैसर्स रामसज इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
87.	8080	मैसर्स मयूर स्ट्रक्चरल्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	8068	मैसर्स विनीता इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	8083	मैसर्स फ्यूजम एडवरटाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
90.	8084	मैसर्स मारुती लैम्प्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	8086	मैसर्स पाइथागोरस इंफोर्मेशन टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
92.	8088	मैसर्स राम्या टाईल्स एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
93.	8091	मैसर्स मेनेजेमवेल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	8101	मैसर्स अरविंद एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	8104	मैसर्स सिलराइट्स पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	8105	मैसर्स डिववा लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
97.	8107	मैसर्स फोनिक्स कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	8111	मैसर्स कौशलेश नियति प्राईवेट लिमिटेड
99.	8112	मैसर्स मैसूर वृंदावन स्टील प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. संजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 560(5)/केएम/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र.	रजि.	कम्पनी का नाम
सं.	सं.	
1	2	3
1.	20044	मैसर्स मार्केट विजन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	20072	मैसर्स डी. डी. प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	20082	मैसर्स इंसेमवल पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	20113	मैसर्स श्री पाईप्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5.	20117	मैसर्स जे. आर. एस. होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	20121	मैसर्स सूर्यदेव प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	20145	मैसर्स पाराडिगम साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
8.	20148	मैसर्स मैदास लेदर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	20150	मैसर्स वरूण प्लॉयवुड प्राईवेट लिमिटेड
10.	20151	मैसर्स रेशमा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	20163	मैसर्स अवरा इस्टेट्स एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	20229	मैसर्स फोरच्यून रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	20242	मैसर्स श्री सत्या साईराम होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	20246	मैसर्स लेखसटन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	20252	मैसर्स इंगल हंटर डिटेक्टिव (बेंगलूर) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
16.	20253	मैसर्स स्पेड डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	20288	मैसर्स गिरिलोक बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. संजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बैंगलूर, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 560(5)/केएम/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	22027	मैसर्स अमलास वेकेशन क्लब (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2.	22064	मैसर्स गौरव ऑयल फिल्ड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	22083	मैसर्स एमराल्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	22085	मैसर्स इम्पीरियल होलीडेज प्राईवेट लिमिटेड
5.	22106	मैसर्स इन्स्टीट्यूटिव टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड
6.	22109	मैसर्स फ्लो लाईन ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
7.	23711	मैसर्स आर. एच. एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड
8.	22155	मैसर्स चेमिन्द इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	22174	मैसर्स मैसूर वास्तुशिल्प बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	22175	मैसर्स रिशि वेली फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	22197	मैसर्स ओजासी सॉफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	22208	मैसर्स स्टर्लिंग एग्रो फार्म्स इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	22221	मैसर्स अन्नपूर्णेश्वरी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	22228	मैसर्स डायनामिक इस्टेट्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	22236	मैसर्स तवाककल क्रशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
16.	22238	मैसर्स वी. जी. एल. इंजीनियरिंग एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
17.	22254	मैसर्स बशेश्वर पोलीथिन बैग्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	22257	मैसर्स मंजूनाथ पोल्ट्री फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	22265	मैसर्स वेनैट एक्सपोर्ट्स एण्ड ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	22282	मैसर्स डेफोडिल्स एग्रीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
21.	22283	मैसर्स वर्ड्स एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
22.	22284	मैसर्स फ्लोरिस मैडोव्ज एण्ड फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	22318	मैसर्स बैंगलोर इन्फोटेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	22361	मैसर्स कनिष्का कॉफी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
25.	22412	मैसर्स ओलम्पिया लक्जरी रिसोर्ट्स वेन्चर प्राईवेट लिमिटेड
26.	22418	मैसर्स कनल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
27.	22431	मैसर्स मीडोज इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
28.	22433	मैसर्स पद्मावती पैराडाइज डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	22470	मैसर्स क्रोनको एण्ड क्रश ट्राम-एड्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	22456	मैसर्स साई किरण प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	22481	मैसर्स आर्य रिसोर्ट्स एण्ड फार्म प्राईवेट लिमिटेड
32.	22483	मैसर्स सुधा सिल्क प्राईवेट लिमिटेड
33.	22524	मैसर्स एस. एस. मशीनरीज मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
34.	22556	मैसर्स रोज-एन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	22589	मैसर्स निसारगा इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	22633	मैसर्स एस. वी. वाटर पार्क्स एण्ड काटेज प्राईवेट लिमिटेड
37.	22641	मैसर्स रूफ स्केप प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	22669	मैसर्स वेन्ट एक्सिया कंज्यूमर अप्लाइड्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	22681	मैसर्स नित्या हार्डवेयर मैनुफैक्चरिंग एण्ड सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
40.	22690	मैसर्स फूनिन एडवेन्चर टूरस प्राईवेट लिमिटेड
41.	22694	मैसर्स हिल्टी माइक्रो इन्फोरमेशन सिस्टम्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
42.	22699	मैसर्स सूर्या प्रभा एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	22703	मैसर्स इकोटेल सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
44.	22753	मैसर्स टेलमाको इलेक्ट्रीक प्राईवेट लिमिटेड
45.	22766	मैसर्स सन सोलवेक्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	22785	मैसर्स फाईनकास्ट एलाइज प्राईवेट लिमिटेड
47.	22805	मैसर्स मनगेस सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
48.	22812	मैसर्स श्रीगुरु राघवेन्द्रा इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
49.	22816	मैसर्स सूर्या एडवटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
50.	22823	मैसर्स कावेरी पार्सल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
51.	22839	मैसर्स सुनोवा एग्रो प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
52.	22851	मैसर्स अनुशा कम्प्यूटर्स एण्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	22867	मैसर्स प्लस सिस्टम एण्ड इनफार्मेटिक्स इन्फोरमेशन प्राईवेट लिमिटेड
54.	22880	मैसर्स बालाजी ग्रैनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	22890	मैसर्स विस मेडिकेट्रिक्स नेचर फोरमुलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	22893	मैसर्स सिससोफ्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	22899	मैसर्स श्री वीरेश्वर गिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
58.	22901	मैसर्स सर्वेशा रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड
59.	22922	मैसर्स इन्फोरेक सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
60.	22933	मैसर्स भूगोवे एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	22967	मैसर्स श्रीनी कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	22997	मैसर्स ओम साई फ्लोरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
63.	23047	मैसर्स विश्वदीप मिडिया सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
64.	23050	मैसर्स हयामुखा प्लान्ट्स एण्ड एक्सट्रैक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	23053	मैसर्स फोर डाईमेंशन टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	23064	मैसर्स एस एक्सपोजिशन प्राईवेट लिमिटेड
67.	23066	मैसर्स रूपाश्री फ्लोरोटेक प्राईवेट लिमिटेड
68.	23068	मैसर्स फोक्स विजनेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
69.	23077	मैसर्स इन्डेक्स स्टॉक एण्ड शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	23094	मैसर्स पोर्टसब्रिज एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	23107	मैसर्स सोलरनोवा सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
72.	23108	मैसर्स जी ई सी पॉवर कम्पनी ऑफ कुद्रेमुख इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
73.	23132	मैसर्स अपराजिता इन्टेलपावर प्राईवेट लिमिटेड
74.	23150	मैसर्स कोरेन मोलेन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
75.	23157	मैसर्स सीताराम एक्सट्रैक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	23173	मैसर्स इम्मार कम्प्यूनिकेशन्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
77.	23185	मैसर्स एस. बी. आर. राईस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	23199	मैसर्स मेनन टेकओवर कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	23216	मैसर्स आर के एच राईट केयर प्राईवेट लिमिटेड
80.	23220	मैसर्स साईबर स्टार प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	23227	मैसर्स सनक्रांति एग्रो सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	23247	मैसर्स संकल्प कम्पोर्ट्स एण्ड होम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
83.	23265	मैसर्स सर्वेयर कौनेन टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
84.	23293	मैसर्स सिनियस इन्टिरिस्च प्राईवेट लिमिटेड
85.	23356	मैसर्स ग्रीन मेडोज होम रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	23357	मैसर्स प्रगति कोरूगेटेड वॉक्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	23379	मैसर्स चित्रा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	23404	मैसर्स हॉक एयर प्राईवेट लिमिटेड
89.	23406	मैसर्स सप्यागिरि होलीडेज रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	23420	मैसर्स पोत्री एक्सप्रेस लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	23424	मैसर्स ग्रीनगलोरी इम्पेक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
92.	23427	मैसर्स एस आर एस मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	23433	मैसर्स ग्रेपक्स स्पेक्ट्रम प्राईवेट लिमिटेड
94.	23446	मैसर्स फ्रंटलाइन कम्प्यूनिकेशन्स एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	23448	मैसर्स जे ए पी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	23451	मैसर्स रेन्सासीन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	23453	मैसर्स एस. एंकीरेड्डी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	23465	मैसर्स प्रोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	23492	मैसर्स ओरवित रिंग ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	23534	मैसर्स अरूणा ज्योथि इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	23538	मैसर्स विभा टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
102.	23542	मैसर्स कोह्लार लक्ष्मी पावर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
103.	23585	मैसर्स प्रमीला एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	23635	मैसर्स लीजरली वेकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	23640	मैसर्स पद्मा पेंट वोटल्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
106.	23648	मैसर्स टी सी एफ कामर्शियल एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	23657	मैसर्स विजयलक्ष्मी रिकवरी एजेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	23670	मैसर्स सीलोकस वैट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
109.	23684	मैसर्स विशाल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
110.	23685	मैसर्स देवता पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
111.	23686	मैसर्स अचर पेंट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
112.	23692	मैसर्स कोंकण कोस्टल लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	23696	मैसर्स विनसोम कान्स्टेक प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. संजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 560(5)/केएम/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	23714	मैसर्स वैरीसन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
2.	23742	मैसर्स सी पी एच विजनेस सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	23746	मैसर्स काफी कोदागु एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	23750	मैसर्स यूनिप्रो पॉवर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5.	23751	मैसर्स प्रो-टेक्नोलोजी एनर्जी कम्पनी (बेंगलूर) प्राईवेट लिमिटेड
6.	23756	मैसर्स अनु रिकवरी एजेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	23758	मैसर्स इवोरी सोल्वेंट एक्स्प्रेस एण्ड ऑयल रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड
8.	23779	मैसर्स फारचून इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	23786	मैसर्स रोशनी मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
10.	23794	मैसर्स व्यासा बीच रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	23798	मैसर्स हरिहरा मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	23818	मैसर्स अज्ञावा केमिकल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
13.	23819	मैसर्स काफी पैराडाइज प्राईवेट लिमिटेड
14.	23843	मैसर्स यूनाइटेड त्रिकोट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	23856	मैसर्स सनराइज कोचेज प्राईवेट लिमिटेड
16.	23877	मैसर्स माचसन ट्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
17.	23891	मैसर्स गार्डन सिटी पिज्जा रेस्टोरेंट प्राईवेट लिमिटेड
18.	23917	मैसर्स सबको इंजीनियर्स (बेंगलूर) प्राईवेट लिमिटेड
19.	23928	मैसर्स श्री पाडा रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	23949	मैसर्स ब्यूटी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	23979	मैसर्स प्रोसोफ्ट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	23980	मैसर्स सारिका सायवरस्पेस प्राईवेट लिमिटेड
23.	24027	मैसर्स इन्द्रप्रस्थ फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
24.	24029	मैसर्स चिरोनिनफोरमेशन टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड
25.	24041	मैसर्स जियो रॉक माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
26.	24042	मैसर्स अदवैता सिस्टम (बेंगलूर) प्राईवेट लिमिटेड
27.	24050	मैसर्स जनाडु होलीडेज प्राईवेट लिमिटेड
28.	24056	मैसर्स होली रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	24064	मैसर्स एस. आर. सी. ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
30.	24075	मैसर्स समरून टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
31.	24085	मैसर्स कस्टमर इमेज मार्केटिंग लिंक प्राईवेट लिमिटेड
32.	24087	मैसर्स पार्थी साईकिरण ऑयल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
33.	24090	मैसर्स कनोएक्स सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
34.	24108	मैसर्स राजीव स्टोन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	24124	मैसर्स सनाथा फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	24127	मैसर्स श्री कल्पतरु होम कोन्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	24146	मैसर्स किशकिंदा होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	24165	मैसर्स वी-टेक लेजर एण्ड पंचिंग प्राईवेट लिमिटेड
39.	24175	मैसर्स इलिक्सर हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
40.	24201	मैसर्स अदोनी स्मिनिंग एण्ड विमिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
41.	24214	मैसर्स हसन वुड एण्ड प्लावुड प्राईवेट लिमिटेड
42.	24218	मैसर्स सदफ इंवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	24222	मैसर्स सिंगापुर एग्रो टेक प्राईवेट लिमिटेड
44.	24226	मैसर्स सहाना एयर ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	24230	मैसर्स श्री हनुमान रिकवरी एजेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	24232	मैसर्स वेलगाम एग्रो प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड
47.	24292	मैसर्स ऑक्सफोर्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
48.	24315	मैसर्स एल. एन. एन. जी. जे. पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड
49.	24328	मैसर्स कनकॉर्ड इन्फोटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
50.	24337	मैसर्स सरवोडाईन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	24344	मैसर्स माइकल एग-मेक प्राईवेट लिमिटेड
52.	24358	मैसर्स एम्पायर एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
53.	24373	मैसर्स सुरक्षा सर्विसेस (गोकड) प्राईवेट लिमिटेड
54.	24375	मैसर्स डीवी सोफ्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
55.	24381	मैसर्स एडकॉन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	24418	मैसर्स साव्वी होटल मोवाईल सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	24434	मैसर्स द्रव्य प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	24436	मैसर्स मनसा ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
59.	24459	मैसर्स वेदम एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
60.	24472	मैसर्स आइन इस्टेट्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	24486	मैसर्स इम्फोमा टेक प्राईवेट लिमिटेड
62.	24507	मैसर्स युगाकेन प्लांटर क्लब एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	24509	मैसर्स अल्ट्रा कन्जक्चर प्राईवेट लिमिटेड
64.	24511	मैसर्स कल्पवृक्ष डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	24512	मैसर्स कास्टर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	24534	मैसर्स ग्रुप गियर कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	24540	मैसर्स ओम श्री चामुण्डेश्वरी पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड
68.	24550	मैसर्स उमा एरोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	24552	मैसर्स नागार्जुना बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
70.	24568	मैसर्स ठाकुर टी-रोलिंग एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
71.	24587	मैसर्स शंकरसन ऊर्जा प्राईवेट लिमिटेड
72.	24599	मैसर्स शिशु फाउन्डेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	24602	मैसर्स सांस एण्ड पेंट्स इन्फोटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
74.	24607	मैसर्स कामसोफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
75.	24608	मैसर्स रोप्रो कलर स्केन प्राईवेट लिमिटेड
76.	24627	मैसर्स साइंस इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	24639	मैसर्स क्वालिटी सोफ्टेल प्राईवेट लिमिटेड
78.	24648	मैसर्स जे. एस. आर. रिकवरी एजेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	24660	मैसर्स राधिका सोमाना कॉफी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	24663	मैसर्स उरनिता एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
81.	24664	मैसर्स डोनटी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
82.	24694	मैसर्स मार्क पेटीकोरल्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	24703	मैसर्स जियो कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	24708	मैसर्स क्लब आईस प्राईवेट लिमिटेड
85.	24711	मैसर्स यूएस यूनिगैस प्राईवेट लिमिटेड
86.	24714	मैसर्स सुरमी टूल्स एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
87.	24752	मैसर्स गिरीकन्या कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	24762	मैसर्स डिजाइन मेडीसंस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
89.	24768	मैसर्स वेलोसाइन डीजल्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	24804	मैसर्स इनफोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
91.	24805	मैसर्स श्रेष्ठ एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
92.	24819	मैसर्स आन इंटरियर्स एण्ड फर्नीशर्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	24824	मैसर्स वर्क्स वेन डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड
94.	24830	मैसर्स ट्रेडमेकर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
95.	24834	मैसर्स आदिन कानसेप्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
96.	24844	मैसर्स काप्रोस इन्टरनेशनल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
97.	24877	मैसर्स पार्वती कृपा शेयर्स एण्ड सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
98.	24881	मैसर्स आमनिको कांसेप्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	24887	मैसर्स इन्टेक्शंस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
100.	24913	मैसर्स आनाकस टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
101.	24919	मैसर्स वेस्ट टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	24923	मैसर्स प्रुडिनरोज प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	24929	मैसर्स श्री भाग्य लक्ष्मी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
104.	24936	मैसर्स ईस्ट वेस्ट वाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	24957	मैसर्स हाइलाईट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	24958	मैसर्स सुराटेक इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
107.	24965	मैसर्स कमल इनसेक्ट कंट्रोल सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
108.	24985	मैसर्स वेस्टर्न पार आयुर्वेदिक फार्मा लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	24990	मैसर्स सीराट्रानिक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
110.	25019	मैसर्स ब्लैक फोरेस्ट होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	23752	मैसर्स यूनिक एनर्जी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. संजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

बेंगलूर, दिनांक 4 फरवरी 2008

सं. 560(5)/सू-मोटो/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	5003	मैसर्स सनराइज अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	5025	मैसर्स इम्पारजय प्रोपर्टी डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	5027	मैसर्स पी एण्ड जे कम्यूनिकेशन डिवाइस प्राईवेट लिमिटेड
4.	5028	मैसर्स के. एम. एलॉय एण्ड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	5031	मैसर्स सिंडीकेट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	5036	मैसर्स रियाकोन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	5037	मैसर्स डागा टेक्सटाईल प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	5040	मैसर्स एम. एस. फास्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	5042	मैसर्स फ्रीज फास्ट प्राईवेट लिमिटेड
10.	5064	मैसर्स के. एन. डी. फाउंड्रीज प्राईवेट लिमिटेड
11.	5071	मैसर्स सोना एक्वासीवस प्राईवेट लिमिटेड
12.	5087	मैसर्स अशोका फ्रूट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	5092	मैसर्स एच. एम. टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	5097	मैसर्स इनसैट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
15.	5104	मैसर्स वन्देकर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
16.	5105	मैसर्स माधवी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	5126	मैसर्स स्कन्दा ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
18.	5135	मैसर्स अल-यामा ट्रेवल्स एण्ड एलाईड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
19.	5145	मैसर्स नित्या सर्वमंगला ट्रेडिंग एण्ड एलाईड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
20.	5159	मैसर्स चोपड़ा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
21.	5160	मैसर्स रॉयल इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	5169	मैसर्स स्पेसियलिटी टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
23.	5171	मैसर्स कंटेनरैडस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
24.	5184	मैसर्स इलेक्ट्रोपॉवर इन्स्यूलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	5217	मैसर्स अल-आमीन ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	5123	मैसर्स रोहिणी स्टार्च एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	5223	मैसर्स सल-वेली सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	5224	मैसर्स नोनस्टन लिजिंग (इंडिया) लिमिटेड
29.	5225	मैसर्स अजय एण्ड अमित मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	5226	मैसर्स रस्तापुर आनन्द होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	5227	मैसर्स सोमप्पा गिन्निंग एण्ड ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	5236	मैसर्स प्रसाद कैस्यू प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	5250	मैसर्स 20वीं सेंचुरी प्रिंट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	5256	मैसर्स एम. कनू कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
35.	5318	मैसर्स बेंगलोर ऑफसेट प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	5314	मैसर्स वम्मू ओ कनैक्सनरीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	5303	मैसर्स महावीरा ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
38.	5295	मैसर्स गायत्री टेक्सटाईल सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	5294	मैसर्स सूरी एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	5275	मैसर्स रीगल मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	5261	मैसर्स वेलब्रो सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड
42.	5275	मैसर्स वंदना ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	5264	मैसर्स राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
44.	5395	मैसर्स केतक कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	5277	मैसर्स एसोसिएटिड आरकिटेक एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	5272	मैसर्स पुसालकर इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	5362	मैसर्स गुब्बी वीराना ब्रिक्स एण्ड टाईल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
48.	5259	मैसर्स एस. वी. एस. फूड इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
49.	5254	मैसर्स कश्यप वैट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
50.	5352	मैसर्स इन्डो-जय सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	5348	मैसर्स रजित बंधु वाक्स वेल्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	5343	मैसर्स स्वर्ण प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	5330	मैसर्स परफेक्ट ड्राईव्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	5451	मैसर्स प्रोटेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
55.	5469	मैसर्स माईकम प्राईवेट लिमिटेड
56.	5470	मैसर्स गिगि इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	5411	मैसर्स ट्वेंटी फर्स्ट सेन्चुरी नोह कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	5416	मैसर्स विट्टल फ्रूट्स कैनिंग प्राईवेट लिमिटेड
59.	5426	मैसर्स अनुग्रह इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
60.	5434	मैसर्स अन्नपूर्णा मार्केटिंग एण्ड ट्रेडिंग एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
61.	5439	मैसर्स अपेक्षा एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	5480	मैसर्स पॉवर लाइन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	5483	मैसर्स एडलिव प्राईवेट लिमिटेड
64.	5476	मैसर्स मां इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
65.	5475	मैसर्स कन्नड सीमेंट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
66.	5493	मैसर्स राजधानी केवल्स एण्ड कंक्रिट्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	5516	मैसर्स वी सी एम एस प्राईवेट लिमिटेड
68.	5510	मैसर्स डी. जी. एन. प्रेसेसिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	5502	मैसर्स वन्डम प्राईवेट लिमिटेड
70.	5597	मैसर्स कविता डायल्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	5600	मैसर्स कम्प्यूटेक सोफ्टवेयर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	5547	मैसर्स पायोनियर एक्सेक्सन्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	5557	मैसर्स मुलगावल सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	5545	मैसर्स मेडिकल डायगनोस्टिक रिसर्च लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
75.	5534	मैसर्स सिसासी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	5533	मैसर्स हरियाणा-पंजाब रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड
77.	5521	मैसर्स न्यू डीलक्स ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	5651	मैसर्स डिनडेट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
79.	5661	मैसर्स जय भवानी सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	5648	मैसर्स माथूर खान्दसारी शूगर्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	5645	मैसर्स सिल्वर विल्लेट मोटर साईकिल स्पोर्ट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
82.	5628	मैसर्स जदम इंटरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
83.	5624	मैसर्स आदर्श टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	5625	मैसर्स देव-परफ्यूम्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	5619	मैसर्स देव पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	5601	मैसर्स कराना गैस सिलिन्डर्स एण्ड एलाईड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
87.	5609	मैसर्स रेनू टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	5757	मैसर्स चित्रा मिनेरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	5755	मैसर्स राजवंशी कंस्ट्रक्शन्स एण्ड एंजिनीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	5723	मैसर्स रूथमैन इंस्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	5685	मैसर्स ऊनहोदया मैसीन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	5676	मैसर्स सामिया इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	5665	मैसर्स इनजय स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	5709	मैसर्स आदर्श ऑटो वर्कशाप प्राईवेट लिमिटेड
95.	5714	मैसर्स मल्टी प्रिंट्स प्रोसेस इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
96.	5720	मैसर्स नीलसन प्राईवेट लिमिटेड
97.	5583	मैसर्स केमट्रोड प्राईवेट लिमिटेड
98.	5449	मैसर्स दीगाशु सिल्क्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	5544	मैसर्स ब्राइट इंजीनियरिंग कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	5758	मैसर्स चित्रा सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	5770	मैसर्स वाईट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
102.	5778	मैसर्स कामधेनु ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	5779	मैसर्स नाथ एण्ड नाथ एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	5785	मैसर्स सिटीजन रिफाईनरीज प्राईवेट लिमिटेड
105.	5788	मैसर्स सहयाद्री सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	5718	मैसर्स पोलीपोसाईड सिस्टम्स एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
107.	5761	मैसर्स कर्नाटक ऑटो कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	5867	मैसर्स महालक्ष्मी मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	5870	मैसर्स मन्थ्या मिनेरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	5863	मैसर्स वेलगाम कम्प्यूटर्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
111.	5864	मैसर्स ट्रेवल करे (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
112.	5862	मैसर्स एसोसिएटेड वेल्डमेट्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	5854	मैसर्स गोविन्दप्पा वूलन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
114.	5796	मैसर्स रामक्रिश्ना दाल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
115.	5815	मैसर्स सिहरा ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
116.	5915	मैसर्स पौरनामी इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
117.	5917	मैसर्स मुद्रा ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	5920	मैसर्स फरमेन्ड्रक प्राईवेट लिमिटेड
119.	5921	मैसर्स अक्षम मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड
120.	5834	मैसर्स वेंकटेश्वरा पाईप्स मेन्यूफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
121.	5835	मैसर्स वेलडार्क प्राईवेट लिमिटेड
122.	5838	मैसर्स आरोलाईट प्राईवेट लिमिटेड
123.	5827	मैसर्स रूपा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	5923	मैसर्स दीप प्रेशर वेशल्स (कर्नाटक) प्राईवेट लिमिटेड
125.	5839	मैसर्स इन्टीग्रेटेड कंसलटेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
126.	5856	मैसर्स श्रीधी सिल्क प्राईवेट लिमिटेड
127.	5868	मैसर्स सुतालिया स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
128.	5855	मैसर्स रत्ना कैंड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
129.	5930	मैसर्स फोएनिक्स कास्टिंग लिमिटेड
130.	5913	मैसर्स मोना प्राईवेट लिमिटेड
131.	5907	मैसर्स वालिया नीशिमोटो प्राईवेट लिमिटेड
132.	5926	मैसर्स गृहलक्ष्मी हाउसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
133.	5904	मैसर्स श्री पुलाकेशी सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
134.	5890	मैसर्स मेट्रोपोल हाउसिंग डेवलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
135.	5899	मैसर्स श्री वन्सनकरी लीजिंग कम्पनी लिमिटेड
136.	5975	मैसर्स पाक्सल लीजिंग लिमिटेड
137.	5965	मैसर्स इक्सापेस्ट कन्ट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
138.	6000	मैसर्स मन्जू मिनरल्स वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	6004	मैसर्स वन्डारी फुटवेयर प्राईवेट लिमिटेड
140.	5995	मैसर्स श्री धुवानेक्शरी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
141.	5992	मैसर्स राजन पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
142.	5937	मैसर्स पैनोरमा एडवरटाईजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
143.	5945	मैसर्स रायचूर इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	5949	मैसर्स वेन्चर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
145.	5968	मैसर्स सरकूलर सैम्स (कर्नाटक) प्राईवेट लिमिटेड
146.	6013	मैसर्स पारस ऑटो एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
147.	6044	मैसर्स वनु स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
148.	6059	मैसर्स केम-ओ-फ्लेवर प्राईवेट लिमिटेड
149.	6056	मैसर्स मैक्स पावर एक्ज्यूमुलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	6075	मैसर्स मी-वोन फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
151.	6088	मैसर्स नर्मदा मार्केटिंग एण्ड एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
152.	6087	मैसर्स विदार प्रेशर चेशल्स प्राईवेट लिमिटेड
153.	6057	मैसर्स मार्बल इंडस्ट्री (मंगलोर) प्राईवेट लिमिटेड
154.	6085	मैसर्स जोर्ड टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
155.	6080	मैसर्स कार्टिक एपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
156.	6078	मैसर्स एशिया ग्राफिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	6121	मैसर्स विन्डसोर कंस्ट्रक्शन्स एण्ड टेक्नीकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
158.	6138	मैसर्स इसमेस इंडस्ट्रीयल प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
159.	6107	मैसर्स के सी पी एफ फेरो कंक्रीट प्राईवेट लिमिटेड
160.	6111	मैसर्स अदलाइन्स ऑयल एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
161.	6097	मैसर्स वेनाका पेपर्स बोर्ड्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
162.	6098	मैसर्स किंगस्टन पर्ल पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
163.	6154	मैसर्स वेल्डेन रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड
164.	6155	मैसर्स इन्टरनेशनल शॉक एब्जोर्बर्स लिमिटेड
165.	6142	मैसर्स विनय इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
166.	6029	मैसर्स ग्रीन-लीक्स ओरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
167.	6082	मैसर्स मैन-जोग लीजिंग एण्ड हायर परचेज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
168.	6161	मैसर्स डायना फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
169.	6164	मैसर्स लिब्रा लिंक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
170.	6173	मैसर्स अजित सिलिन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	6185	मैसर्स अरसलन मासकन मसीन्स प्राईवेट लिमिटेड
172.	6212	मैसर्स जी के ऑयल मिल्स एण्ड रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड
173.	6211	मैसर्स कम्मार केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
174.	6192	मैसर्स चाराणी लिमिटेड
175.	6215	मैसर्स वम्बर डेयरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड
176.	6219	मैसर्स एग-को फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
177.	6220	मैसर्स श्री कृष्णा टेक्नोक्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
178.	5871	मैसर्स विजय एक्सपोर्ट्स एण्ड रियटर्स प्राईवेट लिमिटेड
179.	6239	मैसर्स यूनिट प्लायवुड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
180.	6268	मैसर्स डायट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
181.	6229	मैसर्स बेंगलोर कंसल्टिंग ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
182.	6244	मैसर्स सायओजायम सेल्स (कर्नाटक) प्राईवेट लिमिटेड
183.	6246	मैसर्स गायत्री रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड
184.	6249	मैसर्स शारावती मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
185.	6251	मैसर्स मारुती सी प्राईवेट लिमिटेड
186.	6274	मैसर्स गोयशाला थर्मो फोर्म्स प्राईवेट लिमिटेड
187.	6287	मैसर्स एजेवी केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
188.	6283	मैसर्स स्नोवाईट डिटरजेंट प्राईवेट लिमिटेड
189.	6393	मैसर्स कियोनिक्स शांति माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
190.	6389	मैसर्स मौर्या इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
191.	6391	मैसर्स पेंटागन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
192.	6325	मैसर्स ज्यूपिटर रिसोर्स इंटरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
193.	6300	मैसर्स एन टी ए प्राईवेट लिमिटेड
194.	6266	मैसर्स वायलर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
195.	6298	मैसर्स एम जे एस ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
196.	6294	मैसर्स विश्वनजनेया लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
197.	9154	मैसर्स इम्पावर कंट्रोल सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
198.	6361	मैसर्स अलीफ फिसरिज एण्ड रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
199.	6346	मैसर्स मारुती इन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
200.	6437	मैसर्स एस एगो फोर्म्स प्राईवेट लिमिटेड
201.	6417	मैसर्स अलीफ माईनिंग एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
202.	6425	मैसर्स सुपरा फेब्री टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
203.	6426	मैसर्स सुरेश कलर लेब्स प्राईवेट लिमिटेड
204.	6423	मैसर्स विवेकानंद मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
205.	6427	मैसर्स बेंगलोर हेल्थकेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
206.	6445	मैसर्स रोज हिल टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
207.	6428	मैसर्स वेस्ट्री रेमेडीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
208.	6468	मैसर्स बेंगलोर टफग्लास प्राईवेट लिमिटेड
209.	6509	मैसर्स मैसूर रॉक मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
210.	6479	मैसर्स सी. आर. इंजीनियरिंग एण्ड कार्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
211.	6494	मैसर्स होमशाला प्रिया दर्शिनी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
212.	6498	मैसर्स बोर-बोरा सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
213.	6525	मैसर्स बी जे एस सोलमेक्स प्राईवेट लिमिटेड
214.	6523	मैसर्स पूर्वाजा मर्कैटाईल प्राईवेट लिमिटेड
215.	6519	मैसर्स मोडर्न ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
216.	6442	मैसर्स निप्पी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
217.	6510	मैसर्स पम्पासर केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
218.	6478	मैसर्स गोलडन कास्मेटिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
219.	6464	मैसर्स यूरो प्लास्ट्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
220.	6461	मैसर्स मेट्रो बेंगलोर ब्रिक्स वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
221.	6414	मैसर्स श्री ग्यानासही कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
222.	6552	मैसर्स एशिया प्रिफेक्स प्राईवेट लिमिटेड
223.	6546	मैसर्स मल्लूर टेक्नो मैनेजीरियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
224.	6544	मैसर्स गुलबर्ग फूलर्स रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
225.	6554	मैसर्स आरमौर प्राईवेट लिमिटेड
226.	6557	मैसर्स एगो कोलडस्टोरेज एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
227.	6573	मैसर्स रोड कैरियर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
228.	6571	मैसर्स ग्रेट वर्च इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
229.	6567	मैसर्स स्कार्ग स्टील प्राईवेट लिमिटेड
230.	6605	मैसर्स सुपर गैलेक्सी ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
231.	6603	मैसर्स रोटिस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
232.	6620	मैसर्स इरिन प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
233.	6563	मैसर्स ज्ञानी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
234.	6607	मैसर्स लिंव-केम प्राईवेट लिमिटेड
235.	6606	मैसर्स पी सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
236.	6619	मैसर्स पोमेचन पोलीफेब प्राईवेट लिमिटेड
237.	6614	मैसर्स माडर्न टेक्नीकल्स शूज प्राईवेट लिमिटेड
238.	6581	मैसर्स कन्सोलिडेटेड ट्रांसमिशंस प्राईवेट लिमिटेड
239.	6601	मैसर्स जी पी होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
240.	6721	मैसर्स आर जे एल्यूमिनियम प्राईवेट लिमिटेड
241.	6650	मैसर्स जयश्री ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
242.	6626	मैसर्स रूबी सीमेंट्स इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
243.	6638	मैसर्स सोनी बाईसाइकिल प्राईवेट लिमिटेड
244.	6645	मैसर्स अल-अमीन टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
245.	6649	मैसर्स एच सुवान्ना एण्ड लेस प्राईवेट लिमिटेड
246.	6676	मैसर्स त्रिचूर फर्निचर इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
247.	6655	मैसर्स वल्डपैक एयर कोरियर सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
248.	6714	मैसर्स इलिजेंट बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
249.	6713	मैसर्स प्राइम पोली प्लास्ट इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
250.	6733	मैसर्स आकाश एयर ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
251.	6727	मैसर्स अल्फा ओमेगा टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
252.	6709	मैसर्स इल्लार इमिको (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
253.	6707	मैसर्स क्राउन इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
254.	6702	मैसर्स इनटेल कम्प्यूट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
255.	6693	मैसर्स आरो कैप प्राईवेट लिमिटेड
256.	6691	मैसर्स वैक्स इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
257.	6808	मैसर्स एस. एस. कम्पवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
258.	6752	मैसर्स वेलटेक्स इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
259.	6764	मैसर्स इम्यू रिकार्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
260.	6755	मैसर्स लिथिक स्टोन एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
261.	6750	मैसर्स पी. एल. इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
262.	6744	मैसर्स हेमावशी पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
263.	6786	मैसर्स निरलोन कर्नाटक सिनथेटिक फार्डवर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
264.	6738	मैसर्स माईक्रो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस लिमिटेड
265.	6806	मैसर्स मैसूर कैप्ल एण्ड कैंस प्राईवेट लिमिटेड
266.	6849	मैसर्स वैकर्स एण्ड वैकर्स प्राईवेट लिमिटेड
267.	6851	मैसर्स आमला तशा फार्मास्यूटिकल्स एण्ड फाईन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
268.	6834	मैसर्स काश स्टील प्राईवेट लिमिटेड
269.	6815	मैसर्स फेवनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
270.	6820	मैसर्स मारुती ग्लास इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
271.	5734	मैसर्स सैफसिल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
272.	8116	मैसर्स उन्नति लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
273.	8121	मैसर्स कर्नाटक बायो-राम्पस प्राईवेट लिमिटेड
274.	8136	मैसर्स पाल स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
275.	8140	मैसर्स शारदा इलेक्ट्रोडस प्राईवेट लिमिटेड
276.	8146	मैसर्स विद्यार्थी पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
277.	8145	मैसर्स मरकॉट हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
278.	8137	मैसर्स डी-मेक फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
279.	8127	मैसर्स एल. ए. सी. प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
280.	8142	मैसर्स टेलर बर्ड्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
281.	8141	मैसर्स ग्रीन विन्डो डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
282.	11413	मैसर्स डिप्सीम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
283.	34089	मैसर्स प्रकृति वनीला ग्रोवर्स प्राईवेट लिमिटेड
284.	32539	मैसर्स क्वांटम इंफोनेट प्राईवेट लिमिटेड
285.	8149	मैसर्स बेंगलोर इन्वलेव डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
286.	8153	मैसर्स मेग्ना मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
287.	8155	मैसर्स सेवक इंजीनियरिंग कंसल्टेन्सी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
288.	8161	मैसर्स जी. एस. इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
289.	8171	मैसर्स लार्डवेन फार्मा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
290.	8173	मैसर्स एंगस टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
291.	8174	मैसर्स सौम्या प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
292.	8179	मैसर्स आलोका पॉलिप्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
293.	8184	मैसर्स विजयलक्ष्मी इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
294.	8185	मैसर्स भक्त इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
295.	8187	मैसर्स च्वाइस पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
296.	8188	मैसर्स इण्डोमल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
297.	8192	मैसर्स एस. बी. लिथो प्रिन्ट पेक प्राईवेट लिमिटेड
298.	8198	मैसर्स मिर्जा इलेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
299.	8199	मैसर्स राहत स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
300.	8200	मैसर्स ओमेगा फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
301.	8201	मैसर्स अंशु इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
302.	8202	मैसर्स हिमांशु इरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
303.	8203	मैसर्स कांत केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
304.	8165	मैसर्स रोशनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
305.	8280	मैसर्स कर्मा फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
306.	8275	मैसर्स शालीमार सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
307.	8268	मैसर्स लखिया फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
308.	8258	मैसर्स मिलर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
309.	8274	मैसर्स न्योवे इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
310.	8256	मैसर्स विकुल डायकास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
311.	8204	मैसर्स अमर ज्योति इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
312.	8209	मैसर्स रोलवोर एडमार्क प्राईवेट लिमिटेड
313.	8218	मैसर्स रॉक-वेल हाऊसिंग लिमिटेड
314.	8219	मैसर्स ऑस्कर इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
315.	8225	मैसर्स सतबीर मूवीस प्राईवेट लिमिटेड
316.	8227	मैसर्स फाइनटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
317.	8231	मैसर्स सकुरा होरोलॉजिक्स प्राईवेट लिमिटेड
318.	8240	मैसर्स एप्लाइड इंफोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
319.	8243	मैसर्स डीन एवियेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड,
320.	8249	मैसर्स स्नीश इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
321.	8250	मैसर्स जोडियाक आर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
322.	8251	मैसर्स अकोमा एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
323.	8281	मैसर्स लिन सेक्रेटिरियल मेनेजरियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
324.	8282	मैसर्स निशान फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
325.	8283	मैसर्स इलीस स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
326.	8284	मैसर्स विम्पेक्स फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
327.	8285	मैसर्स अक्षय केश्यू प्राईवेट लिमिटेड
328.	8289	मैसर्स केडकाम कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड
329.	8290	मैसर्स रेडियल ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
330.	8295	मैसर्स मनदेव होटल्स एण्ड काम्प्लेक्सेस प्राईवेट लिमिटेड
331.	8296	मैसर्स क्रिस्टल कोला एण्ड क्रीम प्राईवेट लिमिटेड
332.	8298	मैसर्स नयन स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
333.	8294	मैसर्स सुकुमेक पैकेजिंग इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
334.	8301	मैसर्स लक्षद्वीप टेक्नोक्रेट्स प्राईवेट लिमिटेड
335.	8302	मैसर्स मल्टीमोड फेब्रिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड
336.	8307	मैसर्स प्रशांत मिनरल्स एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
337.	8312	मैसर्स कनिचयी कंसलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
338.	8315	मैसर्स एमरल्ड ट्रेवल्स एण्ड टूरस प्राईवेट लिमिटेड
339.	8317	मैसर्स एपेक्स कोरिस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
340.	8320	मैसर्स राव एण्ड राव आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स एण्ड कांटेक्टर्स लिमिटेड
341.	8322	मैसर्स मन्ना फ्रूट्स प्राईवेट लिमिटेड
342.	8323	मैसर्स शिशि क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
343.	8326	मैसर्स एम. एन. फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
344.	8329	मैसर्स विक्रम मेसवियर प्राईवेट लिमिटेड
345.	8332	मैसर्स मस्कॉट बेकरीस प्राईवेट लिमिटेड
346.	8339	मैसर्स प्रजवल फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
347.	8343	मैसर्स बसवेश्वर इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नीकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
348.	8350	मैसर्स ए. ए. प्रापटी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
349.	8351	मैसर्स इसरेल इलास्टोमर्स प्राईवेट लिमिटेड
350.	8344	मैसर्स श्री लिंगेश्वर पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
351.	8353	मैसर्स एस. के. एस. आक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड
352.	8363	मैसर्स स्वगृह हाऊसिंग लिमिटेड
353.	8364	मैसर्स आग्नी सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
354.	8369	मैसर्स अकास्ट मशीनरी मेन्यूफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
355.	8370	मैसर्स राजगीर स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
356.	8371	मैसर्स सुवेश इंडस्ट्रीयल प्लांट्स प्राईवेट लिमिटेड
357.	8373	मैसर्स पायोनियर पोलिफेब मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
358.	8375	मैसर्स श्री यदु मैसेइक्स प्राईवेट लिमिटेड
359.	8376	मैसर्स श्री यदु ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
360.	8386	मैसर्स आकाश पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
361.	8391	मैसर्स मालचर सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
362.	8393	मैसर्स मालकानी रबर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
363.	8398	मैसर्स धर्मेस क्रैन्स प्राईवेट लिमिटेड
364.	8400	मैसर्स एम. ए. टेक फोर्जिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
365.	8403	मैसर्स कलियानपुर पेस्ट कंट्रोल एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
366.	8405	मैसर्स आर. सी. पी. टेलिकॉम्स प्राईवेट लिमिटेड
367.	8408	मैसर्स इंटर फेस केमिकल्स लिमिटेड
368.	8409	मैसर्स मणिभद्र एग्रो पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
369.	8413	मैसर्स प्लामा पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड
370.	8419	मैसर्स भवानी बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
371.	8434	मैसर्स त्रिडेन्ट डिस्टिलरीज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
372.	8435	मैसर्स हाई रेन्ज इन लिविंग प्राईवेट लिमिटेड
373.	8438	मैसर्स न्यूटेक बिल्डएड्स प्राईवेट लिमिटेड
374.	8440	मैसर्स वैशाक कंस्ट्रक्शन्स एण्ड स्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
375.	8412	मैसर्स पुष्पा सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड
376.	8442	मैसर्स इनलैंड फूड्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
377.	8445	मैसर्स वरास मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
378.	8448	मैसर्स सदरन एक्सपोर्ट्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
379.	8451	मैसर्स मलाहार ट्रेवल प्राईवेट लिमिटेड
380.	8453	मैसर्स विप्र मेनुफैक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
381.	8461	मैसर्स निशा किरण प्राईवेट लिमिटेड
382.	8463	मैसर्स विपदिन पेन्ट्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
383.	8424	मैसर्स सदरन स्टार कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:—

बेंगलूर, दिनांक 7 फरवरी 2008

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/जेके/560(5)/2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिए

गए कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	24474	मैसर्स कुन्दोधरी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	24353	मैसर्स फिगलिक्स क्लोजिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	24320	मैसर्स श्रीगुरु प्रोपर्टीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4.	24319	मैसर्स फ्रंटलाईन ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	24280	मैसर्स हनुप्पा निट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	24239	मैसर्स सिम्पल सिलिकन प्राईवेट लिमिटेड
7.	24261	मैसर्स मथियास लाईसेंस प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
8.	24260	मैसर्स मथियास मार्केटिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
9.	24258	मैसर्स इन्टेल्ली सोफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	24224	मैसर्स जीपीसिज फार्म लिमिटेड
11.	24186	मैसर्स इगल आईजलैंड हाई-टेक डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
12.	24185	मैसर्स विजकिड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
13.	24030	मैसर्स श्री साई विशाल फार्मास (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
14.	24016	मैसर्स रीमैक कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	24387	मैसर्स गोल्डन टीम डेवलपर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
16.	24727	मैसर्स विजेल वाटलीवॉय प्राईवेट लिमिटेड
17.	24440	मैसर्स इस्पात ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
18.	28113	मैसर्स लिंकुपसिस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
19.	28746	मैसर्स रॉयल ऑफिस इक्विपमेंट्स एण्ड फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड
20.	28029	मैसर्स जासमिन नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	27388	मैसर्स पावर जंक्शन डाटकाम प्राईवेट लिमिटेड
22.	27027	मैसर्स सिसलोजिक इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
23.	27733	मैसर्स इपसिलॉन सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
24.	24998	मैसर्स जी एस एल ट्रेड कनेक्शन प्राईवेट लिमिटेड
25.	28514	मैसर्स वेनटेल टेक सिस्टमस लिमिटेड
26.	28645	मैसर्स रॉयल फिसरिज प्राईवेट लिमिटेड
27.	27007	मैसर्स ई-डेन नेटवर्क्स लिमिटेड

सी. वी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

बेंगलूर, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. आरओसीबी/एमसीए-21/टीए-एमएम/560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिये गये कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	17826	मैसर्स हाई-टेक निट्स एण्ड फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	36987	मैसर्स ओके मैगजीन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	19542	मैसर्स नार्थ पाइंट प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
4.	38435	मैसर्स डा. केयर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5.	33440	मैसर्स फूड फार थर्स्ट प्राईवेट लिमिटेड
6.	35507	मैसर्स ग्रीनफील्ड डिस्ट्रीलरी एण्ड ब्रेवरीस प्राईवेट लिमिटेड
7.	12628	मैसर्स इंडूप्लेक्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	14028	मैसर्स टेपलिन पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

बेंगलूर, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/560(5)/2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिये गये कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	12043	मैसर्स हिल टिल्लर एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
2.	12046	मैसर्स श्री विनायका डाईंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	12049	मैसर्स मुरुडेश्वरा ग्रेनाइट लिमिटेड
4.	12037	मैसर्स इन्नोवेटर्स एग्रो क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
5.	12033	मैसर्स प्रिशिशन मेडीकल डेवीस प्राईवेट लिमिटेड
6.	12032	मैसर्स प्रकाश रियलिटी सर्विसेस लिमिटेड
7.	12028	मैसर्स बेंगलोर वेईंग इंस्ट्रुमेंट्स एण्ड सर्विस इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	12008	मैसर्स पैप्पूर पयूल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	12065	मैसर्स श्री सूर्यालक्ष्मी ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
10.	12060	मैसर्स निसर्गा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	12075	मैसर्स विशुकाँम्प सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	12079	मैसर्स ए. आर. ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
13.	12080	मैसर्स चकराइन सोल्वेन्ट ऑयल एक्स्ट्राशन्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	12093	मैसर्स वीवासो कंस्ट्रक्शन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	12100	मैसर्स जी. बी. एस. कम्प्यूटर कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	12094	मैसर्स वरूण सेरिकल्चर प्राईवेट लिमिटेड
17.	12104	मैसर्स हेमागिरी फाईनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	12071	मैसर्स सिद्धा एण्ड गुरु हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
19.	12069	मैसर्स श्रीधर एण्ड सम्पत इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
20.	12068	मैसर्स एस. एण्ड एस. कम्प्यूनिक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	12208	मैसर्स न्यूऐज इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	19870	मैसर्स बी. बी. वोवन सेक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
23.	13015	मैसर्स एस. जी. बी. सोफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
24.	13007	मैसर्स स्टेन्डर्ड इलास्टोमर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	13000	मैसर्स वीके प्रॉमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	13044	मैसर्स मुदुगल कंस्ट्रक्शन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
27.	13042	मैसर्स मित्रा रॉक्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	12206	मैसर्स न्यू येलो पेजस एण्ड मार्केटिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
29.	12203	मैसर्स अशोक मैगनीज माईन्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	12166	मैसर्स शामला इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	12148	मैसर्स जचिन सी ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	12152	मैसर्स अर्पिता बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	12160	मैसर्स न्यू टेक केबल्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	12138	मैसर्स मोती महल रेस्टोरेंट प्राईवेट लिमिटेड
35.	12134	मैसर्स भास्कर प्रधान रविन्द्रा पावर ट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
36.	12121	मैसर्स सौहार्द इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
37.	12111	मैसर्स प्रजनाशिला इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
38.	12264	मैसर्स ब्लू बर्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	12265	मैसर्स इन्टर जिनियस प्राईवेट लिमिटेड
40.	12267	मैसर्स साहा (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
41.	12270	मैसर्स मोड्यूलर बिजनेस इन्वायरमेंटल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	12278	मैसर्स बद्री ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
43.	12281	मैसर्स फेमिली टाइड प्राईवेट लिमिटेड
44.	12284	मैसर्स प्रो-टेक केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	12211	मैसर्स सुनील सरिकल्चर प्राईवेट लिमिटेड
46.	12219	मैसर्स रेयान सिटी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	12234	मैसर्स सफम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

बी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

बेंगलूर, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/560(5)/2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिये गये कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	12239	मैसर्स नंदा दीप टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	12288	मैसर्स दयाना स्पेश्यालिटी हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
3.	12246	मैसर्स एपेक्स वर्ल्ड फाईनेशियल एण्ड कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
4.	12189	मैसर्स आकाश लैम्प प्राईवेट लिमिटेड
5.	12188	मैसर्स अज्ञा लैम्प प्राईवेट लिमिटेड
6.	12191	मैसर्स बिजय प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	12209	मैसर्स चिराग क्रियेशन प्राईवेट लिमिटेड
8.	12176	मैसर्स सुर्देशन स्टोन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
9.	12184	मैसर्स रेलीश रेस्टोरेण्ट एण्ड केटरार प्राईवेट लिमिटेड
10.	12190	मैसर्स बेंगलोर मल्टी परी डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	12314	मैसर्स मैसूर रेशमी सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	12342	मैसर्स नताशा कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	12347	मैसर्स चियर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	12375	मैसर्स मंगल लॉटरीस प्राईवेट लिमिटेड
15.	12405	मैसर्स शक्ति ऑक्साईड्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	12415	मैसर्स हारवेस्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
17.	12410	मैसर्स एम्बियंस होटल मैनेजमेंट सर्विसज़ प्राईवेट लिमिटेड
18.	12357	मैसर्स आपही केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	12427	मैसर्स हैट्रिक ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	12363	मैसर्स जनवारीयस सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	12494	मैसर्स पॉवर लैम्पस प्राईवेट लिमिटेड
22.	12500	मैसर्स रैनप्री लैम्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	12501	मैसर्स शिवा मेट्रोलोजी इंस्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	12505	मैसर्स साईक्राफ्ट इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	12506	मैसर्स एस पी मिक्स स्टील एण्ड एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
26.	12439	मैसर्स हैताई डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
27.	12440	मैसर्स एमबी शेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
28.	12454	मैसर्स चैन्नईगरामीह सिल्क एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	12457	मैसर्स एम. आर. टाईलर्स एण्ड फार्म इक्यूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	12467	मैसर्स बेंगलौर जनरल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
31.	12517	मैसर्स मौर्या ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	12529	मैसर्स जेलकोर्न टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
33.	12519	मैसर्स स्पेक्टा होरोलोजिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	12526	मैसर्स अर्चना टेलीकॉम सर्विसेस लिमिटेड
35.	12533	मैसर्स सिटीजन डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	12475	मैसर्स मिडिया लुब्रीकेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	12490	मैसर्स कल्याणी डिस्ट्रीब्यूटींग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
38.	12583	मैसर्स प्रोसपेक्ट फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	12555	मैसर्स परवाना डेवलपर्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	12574	मैसर्स विजन यूनोटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
41.	12572	मैसर्स बी. फाई. इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
42.	12586	मैसर्स गोपाल गणेश चितनिस इंडस्ट्रीयल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
43.	12546	मैसर्स मयूर सोफ्टवेयर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
44.	12597	मैसर्स मैनसंस एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
45.	12598	मैसर्स रामसंस फार्माटिका प्राईवेट लिमिटेड
46.	12666	मैसर्स नाशोफ्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	12696	मैसर्स विंडसन ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	12691	मैसर्स थानम बेसिक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
49.	12690	मैसर्स साउंड एण्ड शेडो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	12687	मैसर्स पाल ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	12678	मैसर्स सूर्या लेबल्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	12604	मैसर्स मनासा लैम्पस प्राईवेट लिमिटेड
53.	12632	मैसर्स अम्बा ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	12677	मैसर्स विश्वामानवा होस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
55.	12663	मैसर्स संजय विक्रम कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	12658	मैसर्स स्विफ्ट एक्सप्रेस कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	12618	मैसर्स राजालक्ष्मी एस्टेट्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	12651	मैसर्स लाल साई कंस्ट्रक्शन्स एण्ड प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
59.	12622	मैसर्स केसरला प्रोजेक्ट कंसलटेसी प्राईवेट लिमिटेड
60.	12645	मैसर्स बालार पोलीओल्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	12675	मैसर्स विंध्या मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
62.	12731	मैसर्स लिंगयाह एण्ड थाईमयाह प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	12737	मैसर्स कोलम्बस लीजिंग एण्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
64.	12747	मैसर्स पिट्टी ओरियंटल प्राईवेट लिमिटेड
65.	12756	मैसर्स अगलखन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	12849	मैसर्स मास पॉवर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	12858	मैसर्स विकास कूलिंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	12802	मैसर्स फोटो ट्रेवल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	12804	मैसर्स नेफ्रन्स टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
70.	12814	मैसर्स बिलेरी फिलामेंट्स एण्ड बायर्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	12842	मैसर्स टेक्समेक इक्यूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	12847	मैसर्स बेंगलोर प्राइम टेनेरी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
73.	12848	मैसर्स विजय रीयलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	12786	मैसर्स शुभादेव केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	12787	मैसर्स कोउंटी होम्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	12776	मैसर्स आनन्द म्यूजिक्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	12869	मैसर्स कर्नाटका जेम कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	12875	मैसर्स बरालको स्ट्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	12887	मैसर्स स्लिप फार्म कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	12892	मैसर्स गोविन्दा एपटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	12893	मैसर्स यूनीबांड लिकर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
82.	12895	मैसर्स सेन्स मेडीकल टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
83.	12910	मैसर्स सरफाकेंट केमिकल प्राईवेट लिमिटेड
84.	12918	मैसर्स मालनड गोल्ड माइन्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	13046	मैसर्स पैरामाउन्ट पावांइट प्राईवेट लिमिटेड
86.	13056	मैसर्स ग्रीन गोल्ड प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	13066	मैसर्स कोलोसल रोकस प्राईवेट लिमिटेड
88.	13067	मैसर्स नास एडवर्टाईजिंग एण्ड कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	13007	मैसर्स स्टैंडर्ड इलास्टोमर्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	13000	मैसर्स बीके प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	13015	मैसर्स एस. जी. बी. सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
92.	12991	मैसर्स सीविजन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	12978	मैसर्स लक्सोन लैम्प्स एण्ड लाइटिंग प्राईवेट लिमिटेड
94.	13036	मैसर्स एशियन डिटेक्टीव एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
95.	13095	मैसर्स हाऊस ऑफ सीजन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
96.	13085	मैसर्स टाऊन एण्ड कंट्री डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	13129	मैसर्स कर्नाटका एससी/एसटी कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
98.	13072	मैसर्स महेश्वरी वाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	13127	मैसर्स शक्ति रेबिट फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	13120	मैसर्स रॉयलस्टार इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	13074	मैसर्स कोटला प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	13130	मैसर्स आदित्य लैम्प्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	13121	मैसर्स ईस्टवुड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	13119	मैसर्स लेक्जोस इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	13168	मैसर्स हरी वायर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
106.	13164	मैसर्स सिल्वर श्रीमप्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	13157	मैसर्स ओक्टो सर्किट्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	13156	मैसर्स आरडी सोल्वेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	13147	मैसर्स राजेन्द्रन ट्रेडर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	13134	मैसर्स ओपेड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
111.	13191	मैसर्स शंकीरना प्रोपर्टी डेवलपर्स एण्ड फाईनेंशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	13192	मैसर्स एडविद्या इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	13189	मैसर्स माधुर्या सोल्वेंट प्राईवेट लिमिटेड
114.	13185	मैसर्स पोलीकास्ट इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
115.	13213	मैसर्स फोर्टीफोरी कंट्रोल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
116.	13199	मैसर्स बिन्दू एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
117.	13194	मैसर्स येसगी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	13193	मैसर्स सोमया निर्माण इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	13275	मैसर्स गुडमार्क रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
120.	13268	मैसर्स गुडरिच शूगर एण्ड केमिकल कम्पनी लिमिटेड
121.	13308	मैसर्स गुलवर्गा प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
122.	13295	मैसर्स पी. एन. इन्वेस्टमेंट्स (बेंगलोर) प्राईवेट लिमिटेड
123.	13294	मैसर्स श्री एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	13289	मैसर्स वुडलैंड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
125.	13335	मैसर्स श्री महालक्ष्मी बस कोच बिल्डर्स एण्ड फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
126.	13319	मैसर्स पद्मावती लैंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
127.	13313	मैसर्स सरोज विद्युत प्राईवेट लिमिटेड
128.	13600	मैसर्स विकास प्लांटेशन एण्ड रिसर्च लिमिटेड
129.	13605	मैसर्स क्यूक्सीनिट्रो इंडस्ट्रीयल गैस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
130.	13606	मैसर्स फ्रैश फोर्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
131.	13540	मैसर्स माऊसी एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
132.	13555	मैसर्स केनरा ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	13560	मैसर्स सुदर्शन ग्रेनाइट एक्सपोर्टर्स (कर्नाटका) प्राईवेट लिमिटेड
134.	13563	मैसर्स वसुधा बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
135.	13569	मैसर्स सुजाता सिल्क्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
136.	13247	मैसर्स नयन शुभा सुपर रिबाईडिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	13494	मैसर्स बेंगलोर हाई-टेक सिलिड प्राईवेट लिमिटेड
138.	13498	मैसर्स वेंकटेश्वरा फेब्रीकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	13500	मैसर्स वेनडोन विजय एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	13499	मैसर्स वामदेव नाथक्स कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
141.	13518	मैसर्स मगनीरा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
142.	13536	मैसर्स कॉपीराईट क्रियेटिव कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
143.	15865	मैसर्स कारावली एक्वा कल्चर प्राईवेट लिमिटेड
144.	13610	मैसर्स सीमोन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
145.	13612	मैसर्स रिचमंड डिस्टिलरीस प्राईवेट लिमिटेड
146.	13619	मैसर्स बिदार ओरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
147.	13631	मैसर्स श्री कृष्णा देवआर्या ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
148.	13625	मैसर्स ए. ए. सी. मेनफॉवर कंसलटेंट्स बेंगलोर प्राईवेट लिमिटेड
149.	13756	मैसर्स नन्दा गोकुल ट्रेड एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	13745	मैसर्स विकोन फ्ल्यूड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
151.	13748	मैसर्स प्राग कंसोलीडेटेड प्राईवेट लिमिटेड
152.	13746	मैसर्स शुभ लाभ लैंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
153.	13752	मैसर्स भामा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
154.	13738	मैसर्स साकेत ग्रेनाइट्स लिमिटेड
155.	13727	मैसर्स ओपीयम फैशन प्राईवेट लिमिटेड
156.	13725	मैसर्स सुप्रीम हाऊसींग एण्ड इंडस्ट्रियल लैंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	13731	मैसर्स बेंगलोर एंटीपाइरसी सेल प्राईवेट लिमिटेड
158.	13730	मैसर्स लिंक एयर कार्गो लिफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
159.	13728	मैसर्स सोल्यूशन्स एरोसोल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
160.	13805	मैसर्स भवानी कमर्शियल काम्प्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	13803	मैसर्स कामटेक मैसूर प्राईवेट लिमिटेड
162.	13795	मैसर्स शोना प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
163.	13788	मैसर्स पिनोलक्स प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
164.	13787	मैसर्स बौरीका इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	13782	मैसर्स एलके डीडरेडजींग कम्पनी लिमिटेड
166.	13778	मैसर्स साइटेक कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
167.	13767	मैसर्स नंदी पेपर्स लिमिटेड
168.	12756	मैसर्स आगलखन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

बेंगलूर, दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. 560(5)/एसईएस/2005-2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विधित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	32708	मैसर्स टी.ए.आर. ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
2.	30440	मैसर्स आइसोफ्टेल टेलीकम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	24859	मैसर्स एस्ट्रल डिजिटैल्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	35230	मैसर्स सुबोध विण्ड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
5.	29597	मैसर्स एम. आई. बी. सोफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
6.	26868	मैसर्स वृक्ष सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
7.	30240	मैसर्स कूलोक्स फैशन गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	31109	मैसर्स फोकस ह्यूमेन रिसोर्सेस कंसलटिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	24734	मैसर्स स्टारनेट कम्प्यूटर्स एण्ड एलाइड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
10.	26891	मैसर्स ओमटेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	27152	मैसर्स प्राइम इंफोसाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	27681	मैसर्स इएनसोफ्ट डॉट कॉम प्राईवेट लिमिटेड
13.	24002	मैसर्स वेस्ट्य सोफ्टवेयर टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
14.	26479	मैसर्स फैंटसी टाउनशिप प्राईवेट लिमिटेड
15.	31625	मैसर्स चित्रा ब्लू डायमंड डायरेक्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
16.	32506	मैसर्स जुपिटर टेप्स एण्ड एड्हेसिव प्राईवेट लिमिटेड
17.	27422	मैसर्स नेनो मेंबरेन्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	26369	मैसर्स प्रोकॉन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	28302	मैसर्स टीचेनल प्राईवेट लिमिटेड
20.	24069	मैसर्स शिवयोगी फार्म्स लिमिटेड

1	2	3
21.	25665	मैसर्स अंजनाद्री चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	25425	मैसर्स रत्ना रॉय इन्फोग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
23.	29342	मैसर्स सिफिनेट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	27963	मैसर्स फयुचुरिस्टिक इंटरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड
25.	30908	मैसर्स वेन्चर्ज वायरलेस सोफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	31206	मैसर्स नेक्सस आईटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	29828	मैसर्स इंडियन एक्सपेरियन्स टूर एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	28150	मैसर्स सुस्मी कंसलटेंट्सीस प्राईवेट लिमिटेड
29.	29191	मैसर्स बसवगौरी चिट फंड्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	25016	मैसर्स मेंगलोर प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	27441	मैसर्स सृष्टि नेटवर्क सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	25666	मैसर्स एस. एन. होमफिन (इंडिया) लिमिटेड
33.	24606	मैसर्स सायलेंट इंजीनियर्स एण्ड कांटेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	30275	मैसर्स इंटिग्रेटेड टीचिंग टीम प्राईवेट लिमिटेड
35.	31805	मैसर्स एक्जेक्ट आउटसोर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	31189	मैसर्स विनेप सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
37.	25464	मैसर्स वसुप्रभा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	25977	मैसर्स इफोमेड हेल्थ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
39.	29894	मैसर्स भगवान गणेश चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	25488	मैसर्स एलीसन्स होलिडिंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	27577	मैसर्स इंटेलिजेन्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	29033	मैसर्स भाग्यनिधी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	28068	मैसर्स शुभधन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	25406	मैसर्स विरकॉन सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	32322	मैसर्स जे-डॉक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
46.	25202	मैसर्स स्टार कॉफी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	25203	मैसर्स निर्मला कॉफी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	27334	मैसर्स वर्चस टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
49.	26658	मैसर्स टीचसर टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
50.	29292	मैसर्स श्री संपत्तिलक्ष्मी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	29639	मैसर्स सुरक्षन इश्योरेन्स मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
52.	25553	मैसर्स हेबरी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
53.	27185	मैसर्स संवृद्धि सेक्युरिटीस प्राईवेट लिमिटेड
54.	28995	मैसर्स एम.बी.आर.आर. रिसोर्ट्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
55.	25116	मैसर्स सूरज पावर एण्ड हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
56.	26958	मैसर्स जे.बी.एच. इंप्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
57.	25033	मैसर्स बटर स्पॉज बेकरी एण्ड मेनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
58.	25125	मैसर्स आईबेक्स टेक्नोलोजिस लिमिटेड
59.	25421	मैसर्स गुडविल एयरसिस लिमिटेड
60.	30361	मैसर्स इंबेक्स इंफोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	34359	मैसर्स सिमकॉन रिवरसेंड सोफ्टवेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
62.	32426	मैसर्स स्कंच क्लेम्पिंग एण्ड आटोमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	25507	मैसर्स सेमाफोर सोफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
64.	33408	मैसर्स मुंबई टाक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
65.	28794	मैसर्स जीत ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	31380	मैसर्स एलेक्जेंडर टेलिकम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	25503	मैसर्स ग्रांड इफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
68.	33237	मैसर्स सेंटलाइफ बायोसाइन्सेस प्राईवेट लिमिटेड
69.	24928	मैसर्स एडवान्स टेक्नोलोजी कालेज प्राईवेट लिमिटेड
70.	33492	मैसर्स आयसिस डाटा सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	31513	मैसर्स एकार्ड बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
72.	25754	मैसर्स कला मैट्रिक्स मेटल प्राईवेट लिमिटेड
73.	25831	मैसर्स हिटरेक आईटी डाटा काम प्राईवेट लिमिटेड
74.	31239	मैसर्स ड्यूस इंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
75.	29003	मैसर्स माइको मोटर्स एण्ड कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	35693	मैसर्स सेडो सेलुलर टेलिकॉम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
77.	25350	मैसर्स आद्रिजा कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	35401	मैसर्स बनिला ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
79.	24542	मैसर्स गौतम स्टाक ब्रोकिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
80.	30355	मैसर्स श्री प्रगति चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	28369	मैसर्स हेग्गाडल सिक्कुरिटीस प्राईवेट लिमिटेड
82.	25163	मैसर्स सावन्ती चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	32098	मैसर्स क्वाडरकेप सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
84.	29364	मैसर्स सफेक्स चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	27487	मैसर्स प्रोग्रेस इंफोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	24302	मैसर्स वी. एम. न्यूज प्राईवेट लिमिटेड
87.	25695	मैसर्स ब्योट ई-सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	29872	मैसर्स जयहिंद इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
89.	25032	मैसर्स गंगोत्री स्टॉक्स एण्ड शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	29489	मैसर्स मणिपाल एपेक्स चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	26714	मैसर्स ई-सॉल्यूक्स टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
92.	26337	मैसर्स इंफोस्ट्रीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
93.	30331	मैसर्स श्री सिद्धिविनायक चिट्स मैसूर प्राईवेट लिमिटेड
94.	25929	मैसर्स एस.सी.एस. चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	26492	मैसर्स सप्तजन्य चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	25204	मैसर्स अर्चीस प्लानेशन प्राईवेट लिमिटेड
97.	30090	मैसर्स के.डी.एम. फाइनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
98.	30525	मैसर्स नेलकॉम मनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
99.	29784	मैसर्स तलिस्मा आउटसोर्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
100.	24816	मैसर्स बेल सायबर पब प्राईवेट लिमिटेड
101.	24151	मैसर्स विवेक सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
102.	32450	मैसर्स दक्षिण ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	26686	मैसर्स सुस्वित्थ सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	28603	मैसर्स एन.एस.आर. गैस पाईट प्राईवेट लिमिटेड
105.	25932	मैसर्स चरवास निटवियर प्राईवेट लिमिटेड
106.	27306	मैसर्स देवानंद एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
107.	28920	मैसर्स बेनक अपेरल एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
108.	28336	मैसर्स कस्टमर रिलेशनशिप मनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
109.	25439	मैसर्स श्री सुमुखा अरेका प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	30397	मैसर्स श्री शनमुख कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	29073	मैसर्स ज्योति ऑगो एक्सेसरीस प्राईवेट लिमिटेड
112.	29921	मैसर्स आईडिओलोजिक्स कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	26867	मैसर्स अद्वैत प्लेसमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	26468	मैसर्स हेमवती स्टॉक्स एण्ड शेयर्स ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
115.	28285	मैसर्स इंफोग्लोब (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
116.	31997	मैसर्स हठीला कमर्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
117.	27973	मैसर्स सेफवेस फाईनेंस लिमिटेड
118.	30921	मैसर्स रास टोटल कम्प्यूटर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	32482	मैसर्स टेलिकॉम डाय प्रोसेस प्राईवेट लिमिटेड
120.	31120	स्कंद चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
121.	26703	मैसर्स फेओबस सॉफ्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
122.	24495	मैसर्स वृष्टि चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
123.	28116	मैसर्स हासानंबा स्टॉक्स एण्ड शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	26657	मैसर्स ट्रेवलिंग प्राईवेट लिमिटेड
125.	30089	मैसर्स सिल्वर कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
126.	27236	मैसर्स नंदित शेयर्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
127.	26087	मैसर्स हाई स्पीड वेंचर प्राईवेट लिमिटेड
128.	24217	मैसर्स ईल्काल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
129.	27756	मैसर्स विश्वास बायो-टेक प्राईवेट लिमिटेड
130.	25755	मैसर्स ओम श्री आर्किटेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
131.	26587	मैसर्स इंडेया इंफोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
132.	25877	मैसर्स श्री गोकुल रोडवेस प्राईवेट लिमिटेड
133.	30877	मैसर्स कौशिक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
134.	24861	मैसर्स टेक्नोसिस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
135.	30007	मैसर्स कारफ्यूचर्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
136.	31640	मैसर्स प्लेनेट आई टेक्नोलोजिज (इंडिया) लिमिटेड
137.	32397	मैसर्स काँवेरी नेटवर्क कांसेप्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	31160	मैसर्स च्वाइस मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	31917	मैसर्स सर्विट्रस सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	25374	मैसर्स भानिटी एडवायसरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
141.	33117	मैसर्स डिजीटल ला प्राईवेट लिमिटेड
142.	29561	मैसर्स ड्यूमिस्ट ईवेंट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
143.	26892	मैसर्स फ्यूचुरिस्टिक हरबोटेक प्राईवेट लिमिटेड
144.	30119	मैसर्स संकल्प गेसेस मेन्यूफेक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

बैंगलूर, दिनांक 4 फरवरी 2008

सं. 560(3)/सुओ-मोटो/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3656	मैसर्स कम्प्यूटर प्रोडक्ट्स एण्ड सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड
2.	3929	मैसर्स जेनिथ बॉडी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	3940	मैसर्स हाल्टसंस फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	3942	मैसर्स फाइबर मौल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	3955	मैसर्स एड्रामाक्स इनोवेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	3964	मैसर्स कल्पना ईस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
7.	3765	मैसर्स कोयस होटल्स इंटरनेशनल लिमिटेड
8.	3767	मैसर्स अरिहंत कंडक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	3774	मैसर्स सफायर ग्रास प्राईवेट लिमिटेड
10.	3776	मैसर्स गुड लाईफ फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	3780	मैसर्स रेवती इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
12.	3790	मैसर्स इस्सर इंजीनियर्स कांटेक्टर्स एण्ड कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	3791	मैसर्स किरण मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	3798	मैसर्स विश्वकिरण होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	30605	मैसर्स यूनिक प्रेस्टो मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
16.	30608	मैसर्स श्री अन्नपूर्णेश्वरी मार्केटिंग (बैंगलूर) प्राईवेट लिमिटेड
17.	30611	मैसर्स एस. ए. फिफथ डे डायविंग स्कूल प्राईवेट लिमिटेड
18.	30622	मैसर्स एक्सिस मार्केटिंग एण्ड कंसलटेंट्स (कर्नाटक) प्राईवेट लिमिटेड
19.	30624	मैसर्स जेनप्रोवेस सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
20.	30634	मैसर्स अरविंद डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड
21.	30637	मैसर्स टिंबरसिटी डॉट नेट प्राईवेट लिमिटेड
22.	30639	मैसर्स वर्कवेल डायरेक्ट मर्चेंट प्राईवेट लिमिटेड
23.	30644	मैसर्स ल्युमिनस डिस्प्ले साईन प्राईवेट लिमिटेड
24.	30646	मैसर्स लिमरा हाई-टेक प्लानर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

संजय कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 4th February 2008

No. F. 20/2008-SCA (I).—Shri O. P. Chadha, Officiating Director (Ex-Cadre), Supreme Court Library has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of January 31, 2008 on his attaining the age of superannuation.

ASHOK KUMAR
Additional Registrar (Admn.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110 023, the 6th February 2008

CORRIGENDUM

No. 01/6/004-Admn./3355.—In partial modification of the Commission's Notification Number 01/6/004-Admn/2789 dated 30.1.2008 the date of appointment of Shri R. C. Arora, Under Secretary, Ministry of Power as Deputy Secretary in the Commission on deputation basis in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- shall be with effect from the forenoon of 07.01.2008 instead of the afternoon of 07.01.2008 as inadvertently mentioned in the said notification.

SATVINDER SINGH
Under Secy. (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110 003, the 29th January 2008

No. O. II. 1886/83-CRC (MOs).—In continuation to this Directorate Notification of even number dated 12.11.2007, the date of struck off strength from the Force in respect of Dr. Ashok Kumar Sharma, CMO (OG) (IRLA-2135), CH, CRPF, Hyderabad (AP) may be read as 12.10.2007 (FN) instead of 11.10.2007 (AN).

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUES

New Delhi-110 002, the 30th January 2008

No. Admn. I/O. O. No. 262.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints Shri Yogender Kumar, Audit Officer as Sr. Audit Officer with effect from 01.01.2008 (FN.) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- under the provisions of "Next Below Rule". He is currently on deputation to the office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (CIVIL AUDIT), ORISSA

Bhubaneswar, the 28th January 2008

No. Admn. (CA)17-2(AO)/Vol.-V/2226.—In pursuance of OOC No. 886 dt. 29.11.2007 communicated vide Memo No. Admn. (CA) 17-2 (AO)/Vol. V/1779 dt. 29.11.2007 the following officer on promotion has assumed charge as Audit Officer (Civil) in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date as indicated against him.

Name of the Officer taken over charge as Audit Officer	Date of taking over charge as Audit Officer
Sunaram Hembram	03.12.2007 FN

TRILOCHAN ACHARYA
Sr. Audit Officer/Admn.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 31st January 2008

OFFICE ORDER

No. WM-I/Q-55(G)/Vol.-II/2922-2925.—Under the Orders of the A. G. (A&E), W. B. the following Divisional Accounts Officer Grade-I are hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Senior Divisional Accounts Officer in the present divisions/division noted against each till further order(s). They will be on probation for a period of 02(two) years from the date of promotion :—

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
1.	Shri Sahadev Patra
2.	Shri Kasinath Chakraborti

The above named officers may submit their options under FR-22 (I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as Sr. D. A. O. for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A/cs)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500 004, the 23rd January 2008

No. Admn. I/A&E/I/4-26/2007-2008/160.—The Accountant General (A&E), A. P., Hyderabad is pleased to promote the under mentioned Section Officers to officiate

as Asstt. Accounts Officers in the Scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name	O.O. No. & Date	Date of assumption of charge as A. A. O.
1	2	3	4
1.	S/Shri/Smt./Kum. M. Srinivasa Prasad	Admn. I/A&E/I/ 4-26/2007-08/ O. O. No. 98, Dt. 01.01.2007	1.1.2008 (F.N.)
2.	S. K. Suryanarayana Varma	Do.	Do.
3.	S. Shujauddin	Do.	Do.
4.	E. Jyothi	Do.	Do.
5.	M. Gurudevaiah	Do.	Do.
6.	M. Lakshmi Ramana Kumari	Do.	Do.
7.	K. Jaya Rao	Do.	Do.
8.	Khammuanthang Samte	Do.	21.1.2008 (F.N.)
9.	W. Mary Ratnakumari Silas	Do.	1.1.2008 (F.N.)
10.	R. Manohar Singh	Do.	Do.
11.	Rajecna Mathews	Do.	Do.
12.	B. R. Jayathirtha	Do.	Do.
13.	K. S. Vasundhara	Do.	Do.
14.	V. Usha Kumari	Do.	Do.
15.	M. Ramachandra Rao	Do.	Do.
16.	E. Raghunatha Rao	Do.	Do.

The promotions ordered are without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

E. SRINIVASAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
KARNATAKA

Bangalore, the 1st January 2008

No. ES I/A 8/AO/2007-2008/147.—The Accountant General (A&E) is pleased to promote the following Accounts Officers as Senior Accounts Officers carrying the scale of

pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 01.01.2008 FN or from the date of assuming charge whichever is later until further orders :—

Sl. No.	Name	Unique I. D. Number	Remarks
1.	S/Shri/Smt. Sainath K.	KABNE 209 0050	—
2.	Ramamani S. A.	KABNE 209 0051	—

2. Option may be exercised by them for fixation of pay in the higher scale in terms of Rule FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

No. ES I/A 8/2007-2008/148.—The Accountant General (A&E) is pleased to promote the following Section Officers as Asstt. Accounts Officers (Group 'B' Gazetted) carrying the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 01.01.2008 FN or from the date of assuming charge whichever is later without prejudice to the claims of seniors, if any, until further orders :—

Sl. No.	Name	Unique I. D. Number	Remarks
1.	S/Shri/Smt. Rani P.	KABNE 209 0186	—
2.	Usha Thomas	KABNE 209 0187	—
3.	Niranjana T. K.	KABNE 209 0188	—
4.	Geetha B. (1)	KABNE 209 0189	—
5.	Suma B. S.	KABNE 209 0190	On deputation to O/o Pr. (AG) (C&CA)
6.	Gayathri Sreenath	KABNE 209 0191	—
7.	Asha D. M.	KABNE 209 0192	—
8.	Nalini Balakrishnan	KABNE 209 0193	—
9.	Mahadev M.	KABNE 209 0194	—
10.	Usha Devi N. S.	KABNE 209 0195	—
11.	Nalini Naidu D.	KABNE 209 0196	—
12.	Brinda Rani B. P.	KABNE 209 0197	—
13.	Latha Sarathy M. C.	KABNE 209 0199	—

2. Smt. Suma B. S. (at Sl. No. 5) is promoted as Assistant Accounts Officer on Proforma basis under "Next Below Rule". The promotion of Smt. Suma B. S., is effective from the date her junior i.e., Smt. Gayathri Sreenath reports as Assistant Accounts Officer.

3. Their pay in Assistant Accounts Officer's scale shall be fixed in accordance with Rule FR 22 (I) (a) (1).

4. They will be on probation for a period of two years from the date of taking charge.

5. Option has to be exercised by them for fixation of pay in higher scale in terms of Rule 22 (I) (a) (1) within one month from the date of order.

6. The Charge Report in respect of the Officers may be sent to ES I Section through their Branch Officers.

Sd/- ILLEGIBLE

Dy. Accountant General (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF
DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-110 605, the 7th February 2008

No. AN-I/1880/5/II (PC).—The President is pleased to appoint Shri S. S. Mohanty, an officer of the Indian Defence Accounts Service, to the Senior Administrative Grade of that Service under "Next Below Rule", with effect from 22nd July, 1998 and until further orders under the provisions of DoP&T OM No. 8/4/84-Estt. (Pay-I) dated 15.07.1985.

VISHVAJIT SAHAY
Sr. Dy. CGDA (Admin.)

MINISTRY OF MINES
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 31st January 2008

No. 238A/A-32013/4-Dirller (Grade-II)/2006/19B.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General is pleased to approve the appointment of the following officers in the grade of STA (Drilling) in Geological Survey of India on promotion to the post of Driller Grade-II in the same department on pay according to Rules in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis with effect from the date mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name of the officers	Present place of posting	Date of promotion
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Neel Ratan Prasad	CRO, GSI, Nagpur	02.08.2007
2.	K. C. Hansda	ERO, GSI, Kolkata	03.08.2007
3.	M. S. Pandiyan	SRO, GSI, Hyderabad	03.08.2007

1	2	3	4
	S/Shri		
4.	Harihara Rao	SRO, GSI, Hyderabad	03.08.2007
5.	R. Radha Krishnan	SRO, GSI, Hyderabad	06.08.2007
6.	Joginder Nair Singh	AMSE Wing, GSI, Bangalore	03.08.2007
7.	B. Prasad	AMSE Wing, GSI, Bangalore	03.08.2007
8.	K. L. Meena	WRO, GSI, Jaipur	03.08.2007

D. T. SYIEMLIEH
Director (P & A)
for Director General

The 5th February 2008

No. 2906B/A-32013/DDG (Geol.)/2006/19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, and subsequent acceptance of the terms and conditions laid down in Office Memorandum No. 1102 SP to 1105 SP, 980B to 981B/A-32013/DDG(Geol.)/2006/19A dated 4.4.2007, the President is pleased to appoint the following Director (Geol.)(Sl. Gr.), Geological Survey of India on promotion to the post of Dy. Director General (Geol.) in the same department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- w.e.f. the date as mentioned against the officer, in a temporary officiating capacity, until further orders :—

Name of the officer	Designation	Date of assumption of charge
Dr. Balaram Chattopadhyay	Dy. Director General (Geol.)	6.4.2007

D. T. SYIEMLIEH
Director (P&A)
for Director General

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 28th January 2008

No. 18/1/6/2005-ER/1.—The President is pleased to extend the tenure of appointment of Shri Surendra Kumar Sharma as Cairman, Atomic Energy Regulatory Board in the scale of pay of Rs. 26,000/- (Fixed) by six months from 14th January 2008.

O. T. G. NAIR
Under Secy.

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400 094, the 24th January 2008

No. HWB/R/4(16)/2008/107.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers of Heavy Water Plant (Kota/Baroda/Tuticorin/Talcher/Manuguru) to the posts as indicated in Column 4 below with effect from the forenoon of date mentioned against each in the same Plant in a temporary capacity until further orders. The scales of pay of the posts are also indicated below :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Promoted to Grade	Plant	Date of Appointment to the promoted Grade
	S/Shri				
1.	Vijay Nath Dubey	SO/D	SO/E	Kota	01.02.2007
2.	Maresh Kumar Rahul	SO/D	SO/E	Kota	01.02.2007
3.	Narendra Kumar Jain	SO/D	SO/E	Kota	01.02.2007
4.	Madan Mohan Lohani	SO/D	SO/E	Kota	01.02.2007
5.	Vinod Kumar Singh	SO/C	SO/D	Kota	01.02.2007
6.	Aditya Kumar Srivastava	SO/C	SO/D	Kota	12.02.2007
7.	Surendrasinh Natwarsinh Vansia	SO/D	SO/E	Baroda	01.02.2007
8.	Sharanbhai Chimanlal Shah	SO/D	SO/E	Baroda	01.02.2007
9.	Rajkumar Jyotiswarup Bhatnagar	SA/F	SO/E	Baroda	01.02.2007
10.	Vyagappan Cyprian Patrick Amarnath	SO/D	SO/E	Tuticorin	01.02.2007
11.	Jayaraman Vijaya Renga Venkatesan	SA/F	SO/E	Tuticorin	01.02.2007
12.	Subir Kumar Bhowmik	SA/F	SO/E	Talcher	01.02.2007
13.	Gowni Brahmananda Reddy	SO/D	SO/E	Manuguru	01.02.2007
14.	Dwadasi Sreenivasa Rao	SO/D	SO/E	Manuguru	01.02.2007
15.	Dr. Tadepathi Vijaya Kumar	SO/D	SO/E	Manuguru	01.02.2007
16.	Avadhanam Rama Mohan	SO/D	SO/E	Manuguru	01.02.2007
17.	Pravakar Pradhan	SO/D	SO/E	Manuguru	01.02.2007
18.	Rohit Kumar Panigrahi	SO/C	SO/D	Manuguru	01.02.2007
19.	Kapadasu Yohan	SA/E	SO/D	Manuguru	01.02.2007

The above Officers relinquished charge of the lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

Scale of Pay

1.	Scientific Officer/Engineer Grade 'E'	—	Rs. 12,000-375-16,500/-
2.	Scientific Officer/Engineer Grade 'D'	—	Rs. 10,000-325-15,200/-

R. K. SAINI
Director (Personnel & Admin.)

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 12th February 2008

No. NFC/PAR. II/8-2007/43.—Chief Executive, NFC appoints the undermentioned Scientific Assistants Grade 'C' of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the Grade of Scientific Officer/Engineer 'SB' (Scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/-) with effect from 01.08.2007 in the same unit, in an officiating capacity, until further orders.

Sl. No.	Name
1.	Shri A. Srinivasa Chary
2.	Smt. C. Jaya Sheela
3.	Shri K. Venkateshwar
4.	Shri B. Ramesh Babu
5.	Shri G. Ashok Kumar

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

New Delhi-110019, the 4th February 2008

No.12/05/2007/Regular/9843.—Notice is hereby given pursuant to Sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	132564	M/s Trufruit Juices India Private Limited
2.	059219	M/s. Avishkar Computers Limited
3.	029714	M/s. Ashimon Trade Linx Private Limited
4.	125883	M/s. Adharshila Buildwell Private Limited
5.	127199	M/s. Damini Buildwell Private Limited
6.	127690	M/s. Varun Buildwell Private Limited
7.	060114	M/s. Aryaman Securities Limited
8.	060115	M/s. Aryaman Share Registry Limited
9.	082476	M/s. Shambhavi Prints Limited

V. K. GUPTA
Asstt Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

Jalandhar City-144001, the 5th February 2008

No. SES-2005/560/1829.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said Company shall be dissolved.

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	26861	M/s. Antelope Ship Management & Consultants Private Limited
2.	8232	M/s. Neel Kamal Tailors Private Limited
3.	22765	M/s. Rise Infotech Services Private Limited
4.	17941	M/s. Klass Apart Fashions Private Limited
5.	03262	M/s. Brij Finance Private Limited
6.	03789	M/s. Savrupson Travels & Exports Private Limited
7.	29050	M/s. Guru Harkrishan Ji Infotech Private Limited
8.	26073	M/s. Vitsha Import & Export Private Limited
9.	15468	M/s. Apex Tutorials Private Limited
10.	16223	M/s. M. M. Cotspin Limited
11.	15843	M/s. Mukhmailpur Gases Private Limited
12.	15813	M/s. Mata Naina Devi Spinning Mills Limited
13.	10359	M/s. Agro Holdings Private Limited
14.	30247	M/s. Aiman Exports Private Limited

K. C. MEENA
Asstt. Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s Jagmeru Granimarmo Tiles Pvt. Ltd.

Jaipur, the 3rd December 2007

No. ROC/JPR/560/7834/11412.—Notice is hereby given in pursuant to Sub-sec (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s Jagmeru Granimarmo

Tiles Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s Bharatpur Tolls Pvt. Ltd.
Jaipur, the 3rd December 2007

No. ROC/JPR/560/9307/11416.—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s Bharatpur Tolls Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s Golabchand Batwara Textile Pvt. Ltd.
Jaipur, the 18th December 2007

No. ROC/JPR/560/17405/1577.—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s Golabchand Batwara Textile Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s Vikas Capital Services Pvt. Ltd.
Jaipur, the 19th December 2007

No. ROC/JPR/560/8972/1590.—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s Vikas Capital Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s Hari Om Special Gases Pvt. Ltd.
Jaipur, the 2nd January 2008

No. ROC/JPR/560/23090/01.—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s Hari Om Special Gases Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s SDM Mediconsultants and Research Centre
Private Limited

Jaipur, the 11th January 2008

No. ROC/JPR/560/15967/23.—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s SDM Mediconsultants and Research Centre Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s Kritika Capital Services Pvt. Ltd.

Jaipur, the 11th January 2008

No. ROC/JPR/560/9522/27.—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s Kritika Capital Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s Neemrana Organic Pvt. Ltd.

Jaipur, the 28th January 2008

No. ROC/JPR/560/15967/110.—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s Neemrana Organic Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies.

Patna-800 001, the 7th February 2008

No. ROC/PAT/560/7861—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved.

Sl. No.	Regd. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	4420	M/s Kumar Developers Private Limited
2.	10802	M/s Munsi Modi Multilink Trading Company Private Limited
3.	2656	M/s Gulraj Estate Developers Pvt. Ltd.
4.	6702	M/s Sainik Welfare Security Services Private Limited
5.	2984	M/s Parasmani Chemical and Oil Industries Private Limited
6.	8882	M/s Apar Trade International Limited.
7.	4850	M/s Rungta Investment Private Limited
8.	1502	M/s Chhotanagpur Delhi Body Builders Private Limited

K. PRASAD
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s Millenium Aerospace Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00031—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s Milleneum Aerospace Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s Vito Dye Chem Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00028—Notice is hereby given in pursuant to Sub-sec (3)

of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s Vito Dye Chem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s R. T. Agro Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00025—Notice is hereby given in pursuant to Sub-sec (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s R. T. Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s HK Fine Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00022—Notice is hereby given in pursuant to Sub-sec (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s HK Fine Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s Swaran Export Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00019—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s Swaran Export Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s Suksham Export Private Limited
Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00016—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after
expiry of three months from the date hereof the name of
M/s Suksham Export Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s Dazzle Publications Private Limited
Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00013—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after
expiry of three months from the date hereof the name of
M/s Dazzle Publications Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Brajwasi Polymers Private Limited
Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Brajwasi Polymers Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Technip Engineering Works Private Limited
Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00007—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Technip Engineering Works Private

Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be
dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Micromaster Laboratories Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00004—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Micromaster Laboratories Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Flair Marine Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00204—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Flair Marine Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. AWS Consultants and Engineers Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00207—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. AWS Consultants and Engineers Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Cenotaph Construction Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00220—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Cenotaph Construction Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mosam Export Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00233—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Mosam Export Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marvel Marcons Engineering Works Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00245—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Marvel Marcons Engineering Works
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off from the Register and the said Company will
be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Savi Computron Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00253—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Savi Computron Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. P. Auto Engineering Works Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00263—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. S. P. Auto Engineering Works Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Patil and Rochlani Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00292—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Patil and Rochlani Finance Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Encee Projects Private Limited

Mumbai-400002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00304—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Encee Projects Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Superball Bearings Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00314—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Superball Bearings Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Inani Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00332—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Inani Textiles Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Guruprasad Agro-Techno Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00497—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Guruprasad Agro-Techno Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gaymukh Leasing and Finance Company
Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00536—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Gaymukh Leasing and Finance Company Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Varun Clearing and Forwarding Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00558—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Varun Clearing and Forwarding Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Harpar Pharmaceutical Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00879—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Harpar Pharmaceutical Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Sai Vinayak Constructions Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00894—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Shree Sai Vinayak Constructions Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Yeola Shetkari Dairy Udyog Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00887—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Yeola Shetkari Dairy Udyog Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sindhudurga Agro Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00059—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Sindhudurga Agro Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mohak (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00138—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Mohak (India) Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Agarwal Teak Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00085—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Agarwal Teak Farm Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hot Tea Leaves (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00098—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Hot Tea Leaves (India) Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sun Sura Wineries Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00166—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Sun Sura Wineries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pub Tea Leaves Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00171—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Pub Tea Leaves Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Doe Breeders and Livestock Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00857—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Doe Breeders and Livestock Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. J. T. Tea Processing and Packers Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00174—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. J. T. Tea Processing and Packers Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Umesh Hatcheries and Horticulture Farm
Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00225—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Umesh Hatcheries and Horticulture Farm
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off from the Register and the said Company will
be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Natural Brews Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00187—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Natural Brews Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Godavary Bedana Prkalp Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00193—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Godavary Bedana Prkalp Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jatin Spice Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00200—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Jatin Spice Foods Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Broiler Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00239—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Shree Broiler Farm Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Merchant's Hatcheries Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00297—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Merchant's Hatcheries Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saphala Shrimps Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00282—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Saphala Shrimps Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Abhimanyu Feed Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00308—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Abhimanyu Feed Mills Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gerry's Piggeries and Farm Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00342—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Gerry's Piggeries and Farm Products
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off from the Register and the said Company will
be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Neharika Poultry Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00320—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Neharika Poultry Farms Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rakesh Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00336—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Rakesh Farms Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Best Sheep Breeders Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00349—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Best Sheep Breeders Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ravi Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00362—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Ravi Farms Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mandanged Taluka Milks Scheme Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00521—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Mandanged Taluka Milks Scheme Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bin Hussain Stud Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00527—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Bin Hussain Stud Farm Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anusuya Poultry Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00569—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Anusuya Poultry Farms Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tirupati Poultries Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00575—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Tirupati Poultries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Universal Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00566—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Universal Farms Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Akila Poultry Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00581—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Akila Poultry Farm Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bombay Dairy Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00587—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Bombay Dairy Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Laxmi Beads Manufacturing Company
Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00829—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Laxmi Beads Manufacturing Company Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Himatnagar Stud Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00809—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Himatnagar Stud Farm Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Scorpio Equine Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00820—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Scorpio Equine Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vibha Dairy Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00643—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Vibha Dairy Products Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Safal Poultry Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00628—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Safal Poultry Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Damavand Stud Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00620—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Damavand Stud Farm Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Narayani Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00615—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Narayani Farms Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aja Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00602—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Aja Farms Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajdeep Live Stock Breeders Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00599—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Rajdeep Live Stock Breeders Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Archana Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00592—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Archana Farms Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mantra Agro Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00373—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Mantra Agro Farm Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hanico Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00385—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Hanico Farms Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Amolanand Om Sai Shakti Cattle and Poultry
Feeds Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00946—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Amolanand Om Sai Shakti Cattle and
Poultry Feeds Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off from the Register and the said
Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chaitanya Goat Farming Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00665—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Chaitanya Goat Farming Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tip Top Live Stock and Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00410—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Tip Top Live Stock and Farms Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivkripa House of Livestock and Farm
Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00416—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Shivkripa House of Livestock and Farm Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nitin Estate Live-Stock and Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00702—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Nitin Estate Live-Stock and Farms Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Anant Farms and Estates Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00661—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Shree Anant Farms and Estates Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saibhawani Agro-Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00655—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Saibhawani Agro-Industries Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Platinum Poultry and Hatcheries Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00652—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Platinum Poultry and Hatcheries Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Junnar Kanhoba Live-Stock and Farms
Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00729—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Junnar Kanhoba Live-Stock and Farms Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shetkari Agro Combines Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00425—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Shetkari Agro Combines Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alpine Goat Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00445—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Alpine Goat Farm Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Padmalaya Oils and Protins Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00452—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Padmalaya Oils and Protins Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhoomiputra Goat Farming Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00456—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Bhoomiputra Goat Farming Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Liberty Poultry Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00753—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Liberty Poultry Farms Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasundhara Farmhouse Developers Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00465—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Vasundhara Farmhouse Developers Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaymallhar Livestock Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00766—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jaymallhar Livestock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nasik Livestocks Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00736—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nasik Livestocks Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Siddhivinayak Cattle Feeds Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00717—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Siddhivinayak Cattle Feeds Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gramin Goatfarms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00474—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gramin Goatfarms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Shree Balaji Goat and Agro Farms
Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00781—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jai Shree Balaji Goat and Agro Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marathwada EMU Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00932—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marathwada EMU Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aditya Agrotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00792—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Aditya Agrotech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rohan Bloodstock Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00485—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Rohan Bloodstock Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hajari Agro Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00507—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Hajari Agro Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. CLP Power India Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
01023—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. CLP Power India Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Delta Western (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00965—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Delta Western (India) Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prince Poultry Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00956—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Prince Poultry Farm Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deepika Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00945—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Deepika Impex Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arsi Pharmaceuticals Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00906—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Arsi Pharmaceuticals Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tech Coat (Nashik) Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00893—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Tech Coat (Nashik) Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mitra Future Options and Equities Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00839—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Mitra Future Options and Equities Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jewalex International Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00831—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Jewalex International Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jay Vijay Marketing Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00778—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Jay Vijay Marketing Company Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Desh Bhumi Stock Brokers Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00765—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Desh Bhumi Stock Brokers Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Spraj Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00737—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Spraj Exports Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Punjabi Ghasitaram Halwai Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00704—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Punjabi Ghasitaram Halwai Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Harswardhan e-Logistic Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00688—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Harswardhan e-Logistic Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pancham Capital Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00548—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Pancham Capital Services Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sun Resources India Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00521—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Sun Resources India Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sky Sales Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00499—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Sky Sales Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Creative Kids Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00485—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Creative Kids Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sabrang Textiles Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00475—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Sabrang Textiles Mills Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aries Cad Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00457—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Aries Cad Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Waltz Infotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00697—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Waltz Infotech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Millennium Infrastructure (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00437—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Millennium Infrastructure (India) Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bioscan Diagnostics (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00419—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Bioscan Diagnostics (India) Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dipen Steels and Metals Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00388—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Dipen Steels and Metals Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Indiabizline Infotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00375—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Indiabizline Infotech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nexus Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00369—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Nexus Exports Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Quest-Con Computer Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00358—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Quest-Con Computer Solutions Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Satellite Trading Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00355—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Satellite Trading Company Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Infologique (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00321—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Infologique (India) Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rarechem Electro-Heat Enterprises Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00302—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Rarechem Electro-Heat Enterprises Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Innovision Advertising and Printing Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00288—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Innovision Advertising and Printing Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shrisina Palace Hotels Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00108—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Shrisina Palace Hotels Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sirakh Investment Consultancy Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00082—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Sirakh Investment Consultancy Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. B. B. C. Edcons Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00100—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. B. B. C. Edcons Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Manish Multiproducts and Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00075—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Manish Multiproducts and Services Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Reach Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00061—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Reach Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Engineering Creations Consultancy (India)
Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00052—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Engineering Creations Consultancy (India) Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Timsway Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
01111—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Timsway Marketing Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saral Envirotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00399—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Saral Envirotech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Albrots Shipping Agencies Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00391—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Albrots Shipping Agencies Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kheladi.Com (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00376—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Kheladi.Com (India) Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rotco Oil Storage and Weigh Bridge
Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00330—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Rotco Oil Storage and Weigh Bridge
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off from the Register and the said Company will
be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Vighnesh Transport Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00275—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Shri Vighnesh Transport Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Byte Publications Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00270—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Byte Publications Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chairu Export Products Manufacturing
Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00261—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Chairu Export Products Manufacturing
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off from the Register and the said Company will
be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Avenue Software Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00151—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Avenue Software Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Malvino Shares and Securities Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
01112—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Malvino Shares and Securities Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Artic Computronics Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
01095—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Artic Computronics Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Acme Wood Processing Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00386—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Acme Wood Processing Company Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aaswad Agrotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00226—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Aaswad Agrotech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pathan Garment Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00213—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Pathan Garment Impex Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ajay Engineering Works Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00947—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Ajay Engineering Works Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Uniport Software Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00936—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Uniport Software Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Balaji Holidays.Com Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00163—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Sai Balaji Holidays.Com Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Compact Software Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00251—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Compact Software Solutions Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kharoshti Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00236—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Kharoshti Chemicals Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nash Management Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00720—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Nash Management Services Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Socks India.Com Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00713—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Socks India.Com Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alphabet Software Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00731—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Alphabet Software Solutions Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Welpport Software Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00700—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Welpport Software Solutions Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Asthavinayak Builders Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00686—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Shri Ashtavinayak Builders Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ahura Enterprises Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00682—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Ahura Enterprises Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Wallace Infotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00690—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Wallace Infotech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anusaya Constructions Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00677—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Anusaya Constructions Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bright Mercantile Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00550—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Bright Mercantile Company Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mithcon Technologies Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00534—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Mithcon Technologies Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Regal Software Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00515—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Regal Software Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Panama Software Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00496—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Panama Software Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Papernexus.Com (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00484—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Papernexus.Com (India) Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Raigad Dairy Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00473—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Raigad Dairy Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Triveni Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00459—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Triveni Textiles Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Zingre Testing and Calibration Laboratories Private
Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00441—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Zingre Testing and Calibration
Laboratories Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off from the Register and the said
Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Sadguru Realtors (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00420—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Shree Sadguru Realtors (India) Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Logitherm Engineering and Consulting
Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00959—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Logitherm Engineering and Consulting
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off from the Register and the said Company will
be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vizar Home Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00969—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Vizar Home Products Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai-Ganesh Productions Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
01046—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Sai-Ganesh Productions Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vaibhav Vruddhi Investment and Financial
Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00192—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Vaibhav Vruddhi Investment and Financial
Services Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off from the Register and the said
Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Superlan Computer Systems Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00133—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Superlan Computer Systems Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Progressive Trading Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00272—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Progressive Trading Company Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Beta Office Machines Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00305—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Beta Office Machines Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dolbi Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00289—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Dolbi Trading Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Om Sai Granite Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00207—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Om Sai Granite Industries Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. ACE Tech (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00234—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. ACE Tech (India) Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bharari Savings and Investment Finance
Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00223—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Bharari Savings and Investment Finance
Company Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off from the Register and the said
Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Navnit Fin-Vest Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00907—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Navnit Fin-Vest Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanmitra Enterprises Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00390—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Sanmitra Enterprises Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mrutyunjay Builders Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00937—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Mrutyunjay Builders Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Ganesh Leasing and Finance Company
Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00031—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Sai Ganesh Leasing and Finance Company
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off from the Register and the said Company will
be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dossier Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
01073—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Dossier Exports Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahalaxmi Collections Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00331—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Mahalaxmi Collections Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tornado Traders Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
01058—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Tornado Traders Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Yamai Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00037—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Yamai Trading Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Cosmos-com Systems Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00122—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Cosmos-com Systems Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arc Surface Tunnel System Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00111—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Arc Surface Tunnel System Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. PK Pelican Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00077—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. PK Pelican Products Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rebel Syntex Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00067—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Rebel Syntex Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Feena Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00104—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Feena Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sugee Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00095—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sugee Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swarakar Telecom Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00145—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swarakar Telecom Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sypro Data Forms Private Limited

Mumbai-400 002, the 26th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00051—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sypro Data Forms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shetye Steel Udhog Private Limited

Panaji-403 001, the 6th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Goa/Sec 560/2007/00451/TA(S)/1910/8206—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shetye Steel Udhog Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Amar Software Private Limited

Panaji-403 001, the 6th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Goa/Sec 560/2007/00435/2359/TA(S)/8209—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amar Software Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Genetic Computers Private Limited

Panaji-403 001, the 6th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Goa/Sec 560/2007/00441/2356/TA(S)/8212—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Genetic Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shah Shoe Mac Private Limited

Panaji, the 6th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Goa/Sec 560/2007/00455/
1107/8215—Notice is hereby given pursuant to Sub-
section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that at the expiration of three months from the date
hereof the name of M/s. Shah Shoe Mac Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Indiamart Impex Private Limited

Panaji, the 6th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Goa/Sec 560/2007/00082/
2378/8224—Notice is hereby given pursuant to Sub-
section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that at the expiration of three months from the date
hereof the name of M/s. Indiamart Impex Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sairaj Strips Private Limited

Panaji, the 6th February 2008

No. 24-02719/8227—Notice is hereby given pursuant
to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that at the expiration of three months from
the date hereof the name of M/s. Sairaj Strips Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saimika Parks and Amusements Private Limited

Shillong-793001, the 5th February 2008

No. ML 004612 of 2008—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the
Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saimika
Parks and Amusements Private Limited has this day been

struck off from the Register and the said Company is
dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Namchik Mining and Engineering Company Limited

Shillong-793001, the 5th February 2008

No. AR 005728 of 2008—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the
Companies Act, 1956 that the name of M/s. Namchik
Mining and Engineering Company Limited has this day been
struck off from the Register and the said Company is
dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhandh Forest Private Limited

Shillong-793001, the 5th February 2008

No. AS 004687 of 2008—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the
Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhandh
Forest Private Limited has this day been struck off from the
Register and the said Company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Orient Auto Wheels Private Limited

Shillong-793001, the 5th February 2008

No. AS 004694 of 2008—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the
Companies Act, 1956 that the name of M/s. Orient Auto
Wheels Private Limited has this day been struck off from
the Register and the said Company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. J. D. Entrade Private Limited

Shillong-793001, the 5th February 2008

No. AS 005899 of 2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J. D. Entrade Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Panikhaiti Timber Products Private Limited

Shillong-793001, the 5th February 2008

No. AS 002321 of 2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Panikhaiti Timber Products Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Galaxy Tyres Private Limited

Shillong-793001, the 5th February 2008

No. ML 004399 of 2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Galaxy Tyres Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Highland Teak Plantations Private Limited

Shillong-793001, the 5th February 2008

No. TR 004341 of 2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Highland

Teak Plantations Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Brahmaputra Communication Network
Private Limited

Shillong-793001, the 5th February 2008

No. AS 004361 of 2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Brahmaputra Communication Network Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Opal India Private Limited

Shillong-793001, the 5th February 2008

No. AS 004371 of 2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Opal India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Abotani Tea Estate Private Limited

Shillong-793001, the 5th February 2008

No. AR 005251 of 2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Abotani Tea Estate Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shillong Motors Private Limited
Shillong-793001, the 5th February 2008

No. ML 004397 of 2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shillong Motors Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Kolkata-700 020, the 7th February 2008

No. ROC/WB/IPC/560 (SM)/07—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 under Suo Moto that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and is dissolved :

List of Companies Approved U/S 560(5) (Suo Moto)

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	34500	M/s A. B. Stationers Private Limited
2.	37253	M/s A. J. Gas Appliances Manufacturing Co. Private Limited
3.	33742	M/s. A. M. Electronics Private Limited
4.	60357	M/s. A. K. Pal Construction Private Limited
5.	34952	M/s. Aarther Properties Private Limited
6.	65577	M/s. Aashra Tie-up Private Limited
7.	65895	M/s. Abee Diving Services Private Limited
8.	65896	M/s. Abee Speciality Products Private Limited
9.	72991	M/s. Accord Express Services Private Limited
10.	33785	M/s. Ace Transmission Products Private Limited
11.	59425	M/s. Acolyte Construction Company Private Limited
12.	26707	M/s. Acroy Allied Steel Co. Private Limited
13.	30964	M/s. Ad Theatre Private Limited
14.	86835	M/s. Adi Shakti Construction Company Private Limited
15.	86344	M/s. Adiem Combined Private Limited
16.	48203	M/s. Aerofin Holdings Private Limited

1	2	3
17.	21670	M/s. Agency Services Private Limited
18.	74873	M/s. AGM Plantation Finance & Credit India Limited
19.	56832	M/s. Ahoron Finance & Investment Limited
20.	63062	M/s. Air Borne Travels Private Limited
21.	84826	M/s. Air Jet Courier & Cargo Private Limited
22.	86548	M/s. AJ Overseas Private Limited
23.	86769	M/s. Akshay Synthetics Limited
24.	37178	M/s. Alaknanda Viniyog Limited
25.	37366	M/s. Alankrit Papers Limited
26.	86072	M/s. Alaric Developers Private Limited
27.	32644	M/s. Alco Associates Private Limited
28.	26712	M/s. Alcon (Agency) Private Limited
29.	60002	M/s. Alfa Renewable Energy Devices and Systems Private Limited
30.	30905	M/s. Aliah Hotel Private Limited
31.	02232	M/s. Alipurduar Loan Co. Limited
32.	26017	M/s. All Mechanical Private Limited
33.	86202	M/s. Allied Agrotech Private Limited
34.	88096	M/s. Alo & Co. Metal Private Limited
35.	32380	M/s. Alpha Gloves Private Limited
36.	85993	M/s. Alps Cooling Company Private Limited
37.	60313	M/s. Altos Distributors Private Limited
38.	88135	M/s. AM Rice Mill Private Limited
39.	28245	M/s. Amalgamated Enterprises (Constructions) Private Limited
40.	32115	M/s. Amar Grantha Prakashan Private Limited
41.	26702	M/s. Amba Electricals Private Limited
42.	86717	M/s. Ambika Mercantile & Co. Private Limited
43.	84511	M/s. AMG Consultants Private Limited
44.	28476	M/s. Analab Chemical Testing Laboratory Private Limited
45.	88664	M/s. Analytical Engineers & Consultants Private Limited
46.	84571	M/s. Anand Overseas Private Limited

47	U51909WB1998PTC87803	ANDUL MECHANICAL WORKS PRIVATE LIMITED
48	U51109WB1998PTC86590	ANITA-N-ALPS CONNECTIONS PRIVATE LIMITED
49	U45309WB1998PTC86518	ANJANEYA BUILDERS & PROMOTERS PRIVATE LIMITED
50	U15143WB1999PTC90419	ANNAPURNA SOLVENT PVT. LIMITED
51	U24233WB1998PTC86403	ANPOUL PHARMA PRIVATE LIMITED
52	U74210WB1997PTC85431	APEX INDUSTRIAL & FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
53	U24231WB1976PTC30399	APEX PHARMACEUTICALS PVT LTD
54	U72300WB1995PTC73335	APNA COMPUTERS PVT.LTD.
55	U31300WB1990PTC48540	APS INSULATION PVT. LTD.
56	U15424WB1965PTC26669	ARAMBAGH SUGAR MILLS PVT LTD
57	U65993WB1980PTC32761	ARENA INVESTMENT PVT LTD
58	U74210WB1967PTC27130	ARESEN CONSTRUCTION CO PVT LTD
59	U65993WB1982PLC34936	ARGOSY FINANCE & INDUSTRIAL INVESTMENT (INDIA) LTD
60	U51909WB1994PTC64409	ARIDH TRACON PVT. LTD.
61	U17297WB1972PLC28321	ARIHANT CHEMICAL FIBRES LTD.
62	U51909WB1998PTC87622	ARISTO TRADEFIN PRIVATE LIMITED
63	U51909WB1994PTC64908	ARIYADAN MERCHANDISE PVT. LTD.
64	U74210WB1990PTC48848	AROMATIC TAR OILS PVT. LTD.
65	U51229WB1990PTC48746	ARPAN TRADE & CREDIT PVT LTD
66	U21019WB1954PTC21666	ART PRESS OF INDIA PVT LTD
67	U22121WB1954PTC21495	ARTINE PRESS PVT LTD
68	U31908WB1973PLC28925	ARUN STEELS & ALLOYS LTD
69	U51909WB1993PTC60087	ARVIND VINIMAY PVT. LTD.

70	U24232WB1994PTC65518	ARYABHATA LABORATORIES PVT.LTD.
71	U65910WB1993PLC57939	ASHAR ALO FINANCIAL SERVICES LTD.
72	U63040WB1998PTC88421	ASHIRBAD AGENCY PRIVATE LIMITED
73	U26914WB1980PTC32942	ASHISH REFRACTOREIS & ENGINEERS PVT LTD
74	U70101WB1998PTC86798	ASHIYANA NIKETAN PRIVATE LIMITED
75	U27202WB1972PLC28426	ASHOK STEEL CORPN LTD
76	U51109WB1995PTC68628	ASPECTIVE SALES AGENCIES PVT.LTD.
77	U15491WB1919PLC3543	ASSAM SYLHET TEA CO LTD
78	U70101WB1998PTC86442	ASSOCIATED ENCLAVE PRIVATE LIMITED
79	U51909WB1954PTC21897	ASSOCIATED MARKETING CO PVT LTD
80	U34102WB1982PLC34462	ASSOCIATES DEALERS LIMITED.
81	U99999WB1964PTC026024	ATLAS ORES & MINERALS PVT LTD
82	U70109WB1995PTC74343	AUDH PROPERTIES PVT.LTD.
83	U51109WB1995PTC73897	AUROVIL COMMODITIES PVT.LTD.
84	U67120WB1982PLC34967	AVENIR FINANCE & GENERAL INVESTMENT CO LTD
85	U70101WB1997PTC85558	AVINASH ABHISHEK PROPERTIES PRIVATE LIMITED
86	U74300WB1998PTC86773	AVISHKAR COMMUNICATION SERVICES PRIVATE LIMITED
87	U51109WB1997PTC85240	AXS INDIA PRIVATE LIMITED
88	U70109WB1997PTC84775	B B HOUSING PRIVATE LIMITED
89	U65992WB1970PTC27683	B B R CHIT FUND PVT LTD
90	U92132WB1998PTC86247	B K TRANSCOM PRIVATE LIMITED
91	U51216WB1980PTC32666	B V LEATHER INDUSTRIES PVT LTD

92	U51395WB1990PTC48758	B.D. ELECTRONICS PVT. LTD.
93	U15116WB1976PTC30462	B.J.MEAT PACKERS PVT LTD
94	U67120WB1972PLC28417	B.S.K.INVESTMENTS LTD
95	U27101WB1998PTC86305	B.S.R. METAL WORKS PRIVATE LIMITED
96	U99999WB1972PTC028502	B.S.S.PRECISION TOOLS & EQUIPMENTS CO PVT LTD
97	U70109WB1997PTC84587	BABA LOKENATH PLANTATION INDIA PRIVATE LIMITED
98	U99999WB1972PTC028629	BAGRI ALLUMINIUM TUBES PVT LTD
99	U15495WB1979PTC32257	BAIDYANATH DUTTA SPICES CO PVT LTD
100	U63022WB1967PTC27008	BAIDYAPUR COLD STORAGE INDUSTRIES PVT LTD
101	U01111WB1997PTC85988	BANANI AGRO FARMING PRIVATE LIMITED
102	U22219WB1967PTC27113	BANDANA IMPRESSION PVT LTD
103	U51909WB1964PTC26156	BANERJEE CHAKRABORTY & CO. (SUPPLY & AGENCIES) PVT LTD
104	U22211WB1998PTC88069	BANGA DARPAN PRTINTERS PRIVATE LIMITED
105	U45201WB1974PTC29565	BANGABASI OWNERSHIP HOMES & INVESTMENT SERVICES PVT. LTD.
106	U51109WB1994PTC63969	BANKURA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
107	U14104WB1982PTC34656	BANKURA PORCELAIN PVT LTD
108	U99999WB1984PLC037096	BANYAN SMALL SAVINGS AND INVESTMENT (INDIA) LTD
109	U27109WB1998PTC86793	BASANT LAL NARESH KUMAR FOUNDARY PRIVATE LIMITED
110	U18101WB1966PTC26919	BENARAS APPARELS PVT LTD
111	U28112WB1964PTC26135	BENDS INDIA PVT LTD
112	U99999WB1910PLC002229	BENGAL DUARS BANK LTD
113	U92111WB1993PTC57476	BENGAL FILM PUBLICITY ASSOCIATION

114	U01115WB1982PTC34918	BENGAL MAHUA INDUSTRIES PVT LTD
115	U51909WB1995PTC74798	BENGAL METAL FORM PVT.LTD.
116	U10200WB1973PTC28688	BERHAMPORE TAR PRODUCTS (INDIA) PVT LTD
117	U65999WB1998PTC88039	BERHAMPUR FINANCE & LEASING PRIVATE LIMITED
118	U26939WB1973PTC29143	BEST STEEL INDUSTRIES PVT LTD
119	U65993WB1975PTC30287	BESTOWAL FINANCE & SAVINGS (CHIT) CO PVT LTD
120	U67120WB1993PTC57982	BHAGIRATH STOCK & FINANCE PVT. LTD.
121	U63090WB1993PTC60100	BHAGIRATHI RESOURCES PVT. LTD.
122	L99999WB1984PLC037285	BHAGWANDAS GOENKA EDUCATIONAL INSTITUTION LTD.
123	U15419WB1984PLC37138	BHARTIYA CONFECTIONERS LTD.
124	L99999WB1992PLC054601	BHILAI FERROUS LTD.
125	U51109WB1994PTC64160	BHIPSON VINIMAY PVT. LTD.
126	U51909WB1993PTC57981	BHOMIYA TRADING PVT. LTD.
127	U51109WB1982PTC34997	BHUVAN INVESTMENTS PVT LTD
128	U17115WB1965PLC26352	BIDHAN CHANDRA TEXTILE MILLS LTD
129	U22121WB1990PTC48235	BIDHANNAGAR PUBLISHING HOUSE PVT LTD
130	U99999WB1964PLC026085	BIHAR ULTRAMARINE BLUE & PIGMENTS INDUSTRIES LTD
131	U31501WB1972PTC28254	BIKASH ELECTRIC LAMP MFG. CO PVT LTD
132	U64204WB1997PTC84013	BINAYAK NETWORK & UTILITIES PRIVATE LIMITED
133	U85195WB1982PTC34541	BIOSYN PVT LTD
134	U51109WB1990PTC48468	BIRBHUM CHEMICALS PVT. LTD.
135	U15520WB1998PTC88349	BIRBHUM DISTILLERY PRIVATE LIMITED
136	U51909WB1992PLC56984	BLACK DIAMOND TREXIM LTD.

137	U99999WB1973PTC029142	BLACKWOODS BUSINESS MACHINES PVT LTD
138	U51109WB1977PTC30857	BLOOMS PVT LTD
139	U70109WB1994PTC65049	BLUE SEA ESTATE PVT.LTD.
140	U63090WB1968PTC27214	BOLSON ENGINEERING CO PVT LTD
141	U51109WB1997PTC84451	BONANZA COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
142	U24299WB1992PTC54854	BOSU CHEMICALS PVT. LTD.
143	U51109WB1994PTC64040	BREEZE COMMODEAL PVT. LTD.
144	L99999WB1984PLC037055	BRIGHT STONES LTD
145	U51909WB1994PTC66195	BRIGHTMOON FABTRADE PVT. LTD.
146	U51109WB1994PTC64341	BRILLIANT VINIMAY PVT. LTD.
147	U65993WB1964PLC26141	BUDAKIA BROTHERS FINANCIERS LTD
148	U63022WB1979PTC32325	BULBULITALA COLD STORAGE PVT LTD
149	U25119WB1976PTC30815	BURLOW RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
150	U65993WB1974PTC29168	BURNPUR SMALL SAVINGS PVT LTD
151	U14140WB1998PTC88049	CADTECKNIK STRUCTURAL ENGINEERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
152	U51109WB1997PTC83599	CALCON TRADELINK PRIVATE LIMITED
153	U65203WB1975PTC30288	CALCUTTA ABRASIVES PVT LTD
154	U51109WB1980PTC32915	CALCUTTA BITUCHEM AGENCIES PVT LTD
155	U65992WB1966PTC26774	CALCUTTA CHIT FUND PVT LTD
156	U74140WB1994PLC61467	CALCUTTA COMPROSCENT INFOTECH LTD.
157	U31402WB1973PTC28788	CALCUTTA ELECTRO INDUSTRIES PVT LTD
158	U27106WB1972PTC28557	CALCUTTA ROLLING & WIRE MILLS PVT LTD

159	U45500WB1998PTC86378	CALCUTTA SHIPPING & MARINE ENGINEERING CO.(VIZAG) P L
160	U29199WB1993PTC60061	CALCUTTA SPARES SUPLIERS PVT. LTD.
161	U51909WB1990PTC48504	CALEXIM PVT LTD
162	U51109WB1993PTC57977	CANISTAR TRADING PVT. LTD.
163	U52335WB1995PTC74834	CANLAY ENGINEERING PVT.LTD.
164	U65921WB1992PLC54550	CASION LEASING AND FINANCE (INDIA) LTD.
165	U13100WB1972PTC28545	CASTOLINK CHEMICAL PVT LTD
166	U18101WB1998PTC86526	CDS COMMERCE PRIVATE LIMITED
167	U51909WB1998PTC88455	CENTRE INDO TYRE & AUTOMOBILE PRIVATE LIMITED
168	U67120WB1994PTC61406	CGS FINANCIAL SERVICES PVT.LTD.
169	U65993WB1976PTC30384	CHAITALI CHIT SCHEMES & INVESTMENT CO PVT LTD
170	U31504WB1976PTC30708	CHAKRABORTY CABLES PVT LTD
171	U51109WB1995PTC73679	CHAKRADHARI SUPPLIERS PVT.LTD.
172	U74950WB1981PTC33897	CHAKRAVORTY CHEMICALS & ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
173	U17226WB1980PTC32542	CHAMPO CARPETS PVT LTD
174	U7010 WB1995PTC67107	CHANDANNAGAR ABASAN PVT.LTD.
175	U99999WB1915PLC002639	CHAPARMUKH SILGHAT RAILWAY CO LTD
176	U74210WB1936PLC8750	CHATTARJEE BHATTACHARJEE & CO LTD
177	U65992WB1971PTC28008	CHATURANGA CHIT FUND PVT LTD
178	U63040WB1982PTC34728	CHATURVEDI TRANSPORT SERVICES PVT LTD
179	U51109WB1994PTC64345	CHAYYA BARTER PVT. LTD.
180	U74210WB1979PTC32135	CHEMFLOW INDUSTRIES (INDIA) PVT LTD
181	U51109WB1993PTC57978	CHEMIE TRADING PVT. LTD.

182	U24119WB1980PTC32576	CHEMISCHE FABRIK INDIA PVT LTD
183	U25209WB1973PTC29082	CHEMISOL POLYMER COATINGS PVT LTD
184	U24243WB1973PTC29051	CHEMPLEX CHEMICALS PVT LTD
185	U51109WB1997PTC84211	CHETAN TIE-UP PRIVATE LIMITED.
186	U51109WB1998PTC87385	CHIDES COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
187	U24239WB1954PTC21964	CHIMICA PHARMACEUTICAL INDUSTIES PVT LTD
188	U55101WB1995PTC74458	CHINAR RESORT PVT. LTD.
189	U65993WB1983PLC37048	CHIRANTANI FINANCE AND INVESTMENT CO LTD
190	U99999WB1964PTC026028	CHITRASEN PHOTO ENGRAVING CO PVT LTD
191	U23109WB1982PTC34475	CHOUDHARY COKE MANUFACTURING CO PVT LTD
192	U65999WB1974PTC29179	CITIZEN FINANCE CO PVT LTD
193	L99999WB1984PLC037157	CLASSIC SERVICES LTD
194	U67120WB1980PTC32689	CLASSICAL FINANCES & INVESTMENTS PVT LTD
195	U15491WB1972PTC28463	CLONAL TEA CO PVT LTD
196	U99999WB1964PTC026060	COLOURMANN PRINTERS PVT LTD
197	U51109WB1982PTC34948	COMMERCIAL WRITING AIDS PVT LTD
198	U67120WB1998PTC87813	COMMUNICO AD & MARKETING PRIVATE LIMITED
199	U67120WB1982PLC34710	COMPETENT FINANCE AND INVESTMENT CO.LTD
200	U45201WB1990PTC48469	COMPREHENSIVE LAND AND HOUSING DEVELOPERS PVT. LTD.
201	U99999WB1970PTC027780	CONSOLIDATED ELECTRONICS & TRADING CO PVT LTD
202	U67120WB1993PLC60279	CONSORTIUM FINANCIAL RESOURCES LTD.
203	U45201WB1982PTC34738	CONSTRUCTION RASA PVT LTD
204	U70109WB1982PTC34532	CONSTRUCTIVE CONSTRUCTION CO PVT LTD

205	U51101WB1998PTC86482	CONSUMER TRADEWINDS PRIVATE LIMITED
206	U19201WB1984PLC37549	CONT RUNNER FOOTWEAR LTD.
207	U51109WB1994PTC64343	CONVERTEX DEALERS PVT. LTD.
208	U65910WB1993PLC60277	CORPUS CREDIT & LEASING LTD.
209	U74140WB1983PLC35881	COUNCIL OF FINANCIAL MANAGEMENT
210	U45202WB1992PLC56953	CRESCENT GRANITES LTD.
211	U28999WB1988PLC43967	CRESCENT METALS LTD
212	U51909WB1994PTC65334	CUPID VINCOM PVT. LTD.
213	U99999WB1970PTC027873	D E PHARMAK PVT LTD
214	U28920WB1964PTC26168	D M S ENGINEERING CO PVT LTD
215	U99999WB1964PTC026065	D MAC & COPVT LTD
216	U45201WB1967PTC27208	D N GHOSH PROPERTIES PVT LTD
217	U31109WB1994PTC64529	D.G. ELECTROTRADE PVT.LTD.
218	U99999WB1981PTC033660	D.M. FARMS & DIARIES PVT. LTD.
219	U45209WB1992PTC54718	DAG DEVELOPMENTS PVT. LTD.
220	U36102WB1953PTC21211	DALHOUSIE STEEL FURNITURE PVT LTD
221	U28991WB1953PTC21231	DAMODAR ENGG WORKS PVT LTD
222	U51909WB1995PTC073625	DANISH EXPORTS PVT.LTD.
223	U99999WB1919PLC003521	DANTMARA TEA CO LTD
224	U16001WB1982PTC34690	DARBAR TOBACCO ENTERPRISES PVT LTD
225	U51494WB1954PTC21621	DAS BROTHERS & CO TEXTILES PVT LTD
226	U63090WB1995PLC67975	DATT AIR EXPRESS LTD.
227	U67120WB1982PLC34465	DAYAMAI INVESTMENTS LTD

228	U65923WB1993PLC57924	DEEP ECONOMIC INVESTMENT COMPANY LTD.
229	U26921WB1975PTC29910	DEEP REFRACTORIES PVT LTD
230	U65999WB1971PTC28184	DELIP.K HALDER & CO (AGENTS) PVT LTD
231	U31300WB1973PTC28938	DELTA FASTERNERS PVT LTD
232	U99999WB1982PTC034719	DELTON ELECTRICALS CO PVT LTD
233	U51109WB1984PLC37355	DEMPO MERCANTILE LIMITED.
234	U65999WB1971PTC28117	DESTINY SAVINGS BENEFIT CO PVT LTD
235	U60210WB1998PTC86530	DEVSAR TRANSPORT PRIVATE LIMITED
236	U99999WB1999PTC090185	DGC CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
237	U51909WB1995PTC74800	DHANPARI TRACON PVT.LTD.
238	U23109WB1967PTC27072	DHARAM PAUL BEHL & CO PVT LTD
239	U51909WB1982PTC34966	DIGILAC INSTRUMENTATION PVT LTD
240	U32203WB1997PTC84796	DIGITAL FOTOLAB PRIVATE LIMITED.
241	U72900WB1997PTC85358	DIGITAL SOURCE PRIVATE LIMITED
242	U74300WB1982PTC34702	DINESH PRINTADDEX ADVERTISING PVT LTD
243	U22219WB1967PTC27212	DIPAK PRINTING & TYPE FOUNDRY PVT LTD
244	U51909WB1965PLC26621	DIPTI SALES & AGENCIES LTD
245	U19201WB1982PTC34672	DISCO SHOE PVT LTD
246	U74140WB1997PTC83607	DIVINE ADVISORS PRIVATE LIMITED
247	U67120WB1994PTC65228	DLM STOCK BROKERS PVT. LTD.
248	U51109WB1995PTC74412	DOMINENT BARTER PVT.LTD.
249	U67120WB1997PTC86179	DONALD INVESTMENT & FINANCE PRIVATE LIMITED
250	U51219WB1995PTC067310	DOTCH SUPPLY PVT.LTD.

251	U67120WB1984PLC37260	DOWNING STREET, PROPERTIES LTD
252	U24332WB1953PTC21254	DRUG RESEARCH INSTITUTE PVT LTD
253	U45202WB1990PTC48489	DUGSONS MARKETING PVT. LTD.
254	U20299WB1974PLC29548	DUNNAGE WOOD & SCRAP DEALERS ASSOCIATION .
255	U28991WB1968PTC27386	DURGAPUR ASSOCIATED STEEL CRETE INDUSTRIES PVT LTD
256	U64204WB1995PTC72385	DURGAPUR DARASHAN PVT LTD
257	U51909WB1998PTC86397	DYLAN IMPEX PRIVATE LIMITED
258	U63040WB1999PTC90744	DYNAFLITE SERVICES PRIVATE LIMITED
259	U64120WB1994PTC63535	EARLY BIRD SERVICES PVT. LTD.
260	U15339WB1990PTC48411	EAST INDIA FEED PRODUCTS PVT. LTD.
261	U27203WB1966PTC26777	EASTERN ALUMIN FABRICATORS PVT LTD
262	U70101WB1997PTC85302	EASTERN CHANNEL HOUSING PRIVATE LIMITED
263	U74210WB1984PTC37121	EASTERN CIV-EL-MEC ENTERPRISES PVT LTD
264	U01116WB1982PTC34955	EASTERN LAC PVT LTD
265	U65999WB1975PTC30205	EASTERN VELVET CENTRE PVT LTD
266	U29299WB1983PTC36749	ECONOMECH (INDIA) PVT LTD
267	U74210WB1998PTC86275	EDDYCON TURNKEY SERVICES PRIVATE LIMITED
268	U51109WB1997PTC84099	EDMOND COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
269	U51507WB1981PTC33963	EECO APPLIANCE PVT LTD
270	U99999WB1964PTC026072	ELACH ENGINEERING PVT LTD
271	U74999WB1998PTC87049	ELECTRO ELECONS PRIVATE LIMITED
272	L65910WB1983PLC36914	ELITE (INDIA) LTD

273	U45201WB1997PTC84809	ELITE TEA SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
274	U74300WB1998PTC87183	EMERALDS ADVERTISEMENTS PRIVATE LIMITED
275	U00000WB1965PTC26356	EMDEC SHARMA PVT LTD
276	U27202WB1979PTC32370	EMICO (MD) PVT LTD
277	U70109WB1999PTC88931	EMLINK DEVELOPER PRIVATE LIMITED
278	U51226WB1997PTC84469	ENA GREENS PRIVATE LIMITED
279	U74210WB1966PTC26941	ENCONS & DESIGNS PVT LTD
280	U28932WB1982PTC34986	ENERGY AND ENVIRONMENT CONSULTANTS PVT LTD
281	U74140WB1965PTC26713	ENKEZI(TRADERS) PVT LTD
282	U32303WB1970PTC27752	EPEE GRAMO PVT LTD
283	U99999WB1982PTC034602	ESSENTIAL REMEDIES PVT LTD
284	U24232WB1990PTC48871	ETHNARCH PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
285	U45209WB1998PTC86920	EUREKA NIRMAN & DEVELOPER PRIVATE LIMITED
286	U65921WB1992PLC56555	EVEREST INVESTMENT AND LEASING LTD.
287	U60221WB1975PTC30299	EVEREST TRANSPORT PVT LTD
288	U51909WB1995PTC73926	EVERSHAP TRACON PVT.LTD.
289	U65992WB1976PTC30489	EVERYDAY COMMERCIAL & CHIT CREDIT & INVESTMENT CO PVT LTD
290	U99999WB1953PTC021136	EXCEL RASAYAN PVT.LTD.
291	U64120WB1990PTC48720	EXPRESS DELIVERY SERVICE PVT LTD
292	U64120WB1997PTC83944	EXPRESS MAIL PRIVATE LIMITED
293	U51909WB1973PTC28729	EXPRESS SERVICES (INDIA) PVT LTD
294	U64120WB1998PTC86439	FAIRBORN COURIER SERVICE PRIVATE LIMITED

295	U91110WB1992PTC56407	FAIRDEAL DISTILLARY & CHEMICALS COMPANY PVT. LTD.
296	U70200WB1992PLC54602	FAIRNESS HOUSING FINANCE & INVESTMENT (INIDA) LTD.
297	U21015WB1954PTC21625	FANCY PAPER STORE PVT LTD
298	U51909WB1988PTC45011	FARM AID (INDIA) PVT LTD
299	U51109WB1994PTC65450	FERANI TRACON PVT.LTD.
300	U85195WB1983PTC36843	FERROINSPECT (INDIA) PVT LTD
301	U29197WB1990PTC48767	FICSH & CO. PVT. LTD.
302	U31402WB1971PLC28167	FIDAL ACCUMULATORS & BATTERIES LTD
303	U21022WB1995PTC75406	FLAMINGO PACKAGING PVT.LTD.
304	U51109WB1995PTC68966	FLOWCADLE DISTRIBUTORS PVT. LTD.
305	U99999WB1900ULT002843	FRESH FRUIT DRINKS PVT.LTD.
306	U74300WB1997PTC84037	FULCRUM COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
307	U28999WB1965PTC26327	FULIA CONCRETE SPUN PIPES CO PVT LTD
308	U70109WB1994PTC63049	FULPI PROPERTIES PVT. LTD.
309	U45202WB1969PTC27476	G F M ENGINEERS PVT LTD
310	U24294WB1994PTC63137	G.C.B. DEVELOPMENT TINSEL CITY PVT.LTD.
311	U14107WB1995PTC74102	G.D.MINERALS PVT.LTD.
312	U24115WB1997PTC85481	G.P. CHEMICALS PRIVATE LIMITED
313	U63090WB1992PTC54963	G.P. SERVICES PVT. LTD.
314	U51219WB1997PTC84998	GALAXY EXIM PRIVATE LIMITED
315	U70101WB1999PTC90341	GALAXY LAND PROMOTION & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
316	U57109WB1977PTC30949	GALPS SHIPPING CO PVT LTD

317	U51909WB1995PTC73338	GAM TRADEFIN PVT.LTD.
318	U51216WB1980PTC32670	GANAPATI OVERSEAS LTD.
319	U21021WB1992PTC56880	GARHBETA AGROTECH PVT. LTD.
320	U51109WB1997PTC84475	GARIMA TIE-UP PRIVATE LIMITED
321	U99999WB1919PLC001478	GARUDA INVESTMENT CO LTD
322	U27109WB1983PLC37006	GARUDA SPECIAL CASTINGS LTD
323	U51909WB1969PTC27475	GATBEENS EXPORTS PVT LTD
324	U51109WB1998PTC86720	GBLA AGENCY PVT LTD
325	U45201WB1998PTC87207	GEE PEE TOWERS PRIVATE LIMITED
326	U31300WB1965PLC26349	GENERAL CABLES LTD
327	U51909WB1982PLC34637	GENUINE TRADERS & DEALERS LTD
328	U17119WB1973PTC28803	GETALLY TOOLS PVT LTD
329	U70101WB1999PTC90211	GIRIA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
330	U70101WB1999PTC90210	GIRIA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
331	U65999WB1994PLC66639	GKW HOLDINGS LTD.
332	U27109WB1966PTC26721	GLADBACH ENGINEERING PVT LTD
333	U92120WB1981PTC33973	GLAMOUR PICTURES PVT LTD
334	U26101WB1964PTC26124	GLASS CENTRE PVT LTD
335	U23209WB1972PLC28347	GLOBE OIL CO LTD
336	U05002WB1984PLC37100	GMK FISHING LTD
337	U65999WB1993PTC57379	GODLIGHT FINANCE & INVESTMENT COMPANY PVT.LTD.
338	U51109WB1994PTC65783	GOKUL BARTER PVT.LTD.
339	U63090WB1972PTC28552	GOLDEN ROADWAYS PVT LTD

340	U01711WB1990PTC48730	GOMMATESHWARA TEXTILES PVT LTD
341	U51909WB1994PTC065452	GOMTI TRACON PVT.LTD.
342	U51109WB1993PTC61075	GOODVALUE TREXIM PVT. LTD.
343	U51909WB1970PTC27723	GOVINDA STORES PVT LTD
344	U65993WB1992PLC56636	GRAMIN JEEBAN INVESTMENT CO LTD.
345	U26955WB1992PLC56785	GRAPCO CONTINENTAL LTD.
346	U65921WB1990PTC48987	GRAPCO SECURITIES & FINANCE LTD.
347	U99999WB1942PLC010940	GREAT INDIA STEAM NAVIGATION CO LTD
348	U99999WB1974PTC029721	GUJRAL BROS & CO PVT LTD
349	U27106WB1994PTC65221	GUPTA FERROUS & NON-FERROUS PVT.LTD.
350	U99999WB1992PTC054603	GURIA INTERNATIONAL PVT. LTD.
351	U31300WB1997PTC84600	GV MARKETING PRIVATE LIMITED
352	U99999WB1970PTC027768	H.H.PROPERTIES PVT LTD
353	U51504WB1992PTC54729	HADLEY HYDRAULICS PVT. LTD.
354	U74210WB1980PTC32782	HALDIA FRIENDS ELECTRONICS PVT LTD
355	U51909WB1995PTC68982	HAMAYUN GOODS & SERVICES PVT. LTD.
356	U51909WB2000PTC92205	HANDICRAFTS AND GIFTS HOUSE PRIVATE LIMITED
357	U51909WB1995PTC73560	HANURANG DEALERS PVT.LTD.
358	U01211WB1994PTC63163	HAPANIA FARM PRODUCTS PVT.LTD.
359	U01211WB1968PTC27317	HAPPY LAND FARM PVT LTD
360	U65993WB1975PTC30211	HARAPARBATI CHIT & SAVINGS CO PVT LTD
361	U99999WB1974PTC029668	HARIPADA HOUSING CO PVT LTD

362	U22124WB1953PTC21342	HARRIS FORMS & REGISTERS PVT LTD
363	U24119WB1974PTC29439	HARVIK CHEMICALS PVT LTD
364	U15143WB1980PTC32515	HEC CHEMICALS PVT LTD
365	U45209WB1967PTC27056	HEM CONSTRUCTION PVT LTD
366	U772200B1997PTC86105	HI MICRO INFOTECH PRIVATE LIMITED
367	U01132WB1998PTC86536	HILLTOP PREMIUM TEA PRIVATE LIMITED
368	U32109WB1993PTC60029	HILTECH AUDIO PVT. LTD.
369	U65993WB1992PLC54622	HIMADRI PRABHA FINANCE & INVESTMENT INDIA LTD.
370	U51109WB1995PTC74179	HIMALAYA VINCOM PVT.LTD.
371	U51909WB1954PTC21559	HINDUSTHAN COKE & COAL TRADING CRPN PVT LTD
372	U51909WB1973PTC28881	HIRJI AGENCIES & SALES PVT LTD
373	U27310WB1981PTC33938	HISCO FORGE PVT LTD
374	U72200WB1998PTC86497	HNC INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
375	U35999WB1981PTC33945	HOOGHLY AUTO MANUFACTURING CO PVT LTD
376	U80222WB1997PTC84418	HOPE EDUCATION INSTITUTE PRIVATE LIMITED
377	U51909WB1981PLC33800	HOPE FIBRES LTD
378	U67120WB1997PTC85057	HORIZON CONSULTANTS & MARKETING PRIVATE LIMITED
379	U65923WB1997PTC84771	HORNBILL FINANCING & LEASING CO. PRIVATE LIMITED
380	U74140WB1973PTC28650	HOTEL CATERING & TOURISM CONSULTANTS PVT LTD
381	U70101WB1993PTC60032	HOWRAH ENCLAVE PVT. LTD.
382	U70109WB1997PTC84982	HOWRAH HOUSING PRIVATE LIMITED
383	U70109WB1998PTC86570	HOWRAH PROPERTIES PRIVATE LIMITED
384	U67190WB1992PLC56811	IFB VENTURE CAPITAL FINANCE LTD.

385	U30402WB1976PTC30402	IMCO ASBESTOS & REFRACTORIES PVT LTD
386	U23201WB1990PTC48288	IMPERIAL FISCAL SERVICES PVT LTD
387	U27109WB1994PTC63166	IMPERIAL REFRACTORIES PVT.LTD.
388	U99999WB1953PTC021330	INDIA SNUFF & MERCANTILE CO PVT LTD
389	U27106WB1972PTC28627	INDIAN SPARES & COMPONENTS PVT LTD
390	L99999WB1964PLC026019	INDO FRENCH FORGES LTD
391	U29130WB1974PTC29279	INDRA-DIP ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTD
392	U65993WB1990PTC48371	INDU CREDIT PVT. LTD.
393	U45201WB1998PTC86701	INFRACON PRIVATE LIMITED
394	U14108WB1998PTC86462	INLAND DOCKING & DREDGING CO. PRIVATE LIMITED
395	U33112WB1977PTC30911	INRAYS SALES PVT LTD
396	U65993WB1992PLC56973	INSTANT WELFARE ECONOMY & FINANCEO LTD.
397	U80301WB1980PLC32985	INSTITUTE OF MANAGEMENT & BUSINESS EDUCATION LTD.
398	U29120WB1997PTC85304	INSUMATE ELECTRIC PRIVATE LIMITED.
399	U65993WB1982PLC34570	INTELLECTUAL SAVINGS AND INVESTMENT (INDIA) LTD
400	U51397WB2000PTC91951	INTERVET MEDICINE PRIVATE LIMITED
401	U74920WB1954PTC21703	INVESTIGATION & PREVENTION OF CRIMES (INDIA) PVT LTD
402	U27109WB1980PTC32781	IONIC PRODUCTS PVT LTD
403	U26972WB1972PTC28619	IRENA REFRACTORIES PVT LTD
404	U15412WB1982PTC34603	IRIS (INDIA) PVT LTD
405	U28939WB1954PTC21839	IRON & STEEL PROCESSING INDIA PVT LTD
406	U15312WB1941PLC10725	ISHWARPUR RICE MILLS LTD

407	U71120WB1968PTC27243	ISLAND SHIPPING CO PVT LTD
408	U01132WB1982PTC34680	ITC TEAS PVT LTD
409	U29130WB1972PTC28451	IZMAT MACHINE TOOLS PVT LTD
410	U45201WB1981PLC34263	J B CONSTRUCTIONS LTD
411	U74120WB1980PTC32614	J B CONSULTANTS & ENGINEERS PVT LTD
412	U28991WB1998PTC87790	J G BUSINESS LINK PRIVATE LIMITED
413	U27310WB1998PTC86972	J M D ROLLS PRIVATE LIMITED
414	U92132WB1999PTC90201	J TELEVISION MULTIMEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED
415	U19129WB1994PTC63190	J.S.DESAI PVT.LTD.
416	U63090WB1995PTC74389	J.S.SHIPPING AND FREIGHT FORWARDING PVT.LTD.
417	U51109WB1995PTC68968	JAGPREM DEALCOMM PVT. LTD.
418	U27109WB1997PTC85270	JAI AMBA ROLLING MILL PRIVATE LIMITED
419	U14102WB1990PTC048932	JAIHIND GRANITES PVT. LTD.
420	U15491WB1998PTC87620	JANAKALYAN PLANTATIONS COMPANY PRIVATE LIMITED
421	U22219WB1965PLC26619	JANAKALYAN PUBLICATIONS LTD
422	U70109WB1923PTC4770	JANBAZAR MANNA ESTATE PVT LTD
423	U65929WB1993PLC57959	JANHIT INDIA SAVINGS AND INVESTMENT LTD.
424	U70101WB1973PTC28973	JASODA PVT LTD
425	U24231WB1989PTC47094	JAY CHEMICO PVT LTD.
426	U30002WB1973PTC29111	JEET PHOTOGRAPHIC INDUSTRIES PVT LTD
427	U92112WB1970PTC27641	JHARNA PICTURES PVT LTD
428	U70109WB1993PTC57409	JHAWAR CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
429	U51109WB1994PTC65598	JHOTA FALETRADE PVT.LTD.

430	U51222WB1997PTC85996	JIA UL HAQUE CHOUDHURY DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
431	U51909WB1994PTC63585	JIARJEE ROADWAYS PVT.LTD.
432	U27109WB1993PTC60356	JINDAL TUBES PVT. LTD.
433	U99999WB1901PLC000554	JKBM LTD.
434	U99999WB1901PLC000165	JONKTOLLEE TEA AND INDUSTRIES LTD.
435	U21023WB1982PTC34577	JOY MAKALI PAPER BOARD MILLS PVT LTD
436	U15312WB1998PTC87893	JUBORAJ RICE MILL PRIVATE LIMITED
437	U22110WB1967PTC27139	JUNO PRINTING WORKS PVT LTD
438	U67120WB1971PTC28091	JYOTI BROTHERS CELARING PVT LTD
439	U24134WB1973PTC28798	JYOTIRMOY COATINGS & SYNTHETICS PVT LTD
440	U67120WB1982PTC34942	K M FINANCE & INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
441	U17111WB1998PTC87046	K R GARMENTS PRIVATE LIMITED
442	U22122WB1995PTC74269	K.A. GRAPHICS PVT.LTD.
443	U99999WB1964PTC026056	K.B.INSTRUMENT CO PVT LTD
444	U51311WB1993PTC60413	K.J. EXPORTS PVT. LTD.
445	U99999WB1999PTC090716	K.S.MEDICOS PRIVATE LIMITED
446	U51109WB1995PTC73524	KAILASHPATI RICE MILL PVT.LTD.
447	U51109WB1998PTC88126	KALIKA COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
448	U27105WB1965PTC26388	KALIKA ENGINEERING CO PVT LTD
449	U31909WB1965PTC26693	KALYANI ELECTRO MECHANICAL INDUSTRIES PVT LTD.
450	U99999WB1973PTC028708	KALYANI ENAMEL WORKS PVT LTD
451	U15491WB1980PTC32548	KAMAKHYA WAREHOUSING & INDUSTRIES PVT LTD

452	U24117WB1995PTC74472	KAMALA BRAZINGS PVT. LTD.
453	U51109WB1994PTC64623	KAMALIKA SYNTEX PVT.LTD.
454	U29150WB1973PTC29023	KANAK FORGINGS & STAMPPINGS PVT LTD
455	U17219WB1981PTC34048	KANIAHYALAL BAIJNATH PVT LTD
456	U15203WB1992PLC56909	KANIKA AGRO PRODUCTS LTD.
457	U24233WB1994PTC61876	KANOI HERBALS PVT. LTD.
458	U24295WB1998PTC87552	KARAN JUDGE TREXIM PRIVATE LIMITED
459	U99999WB1906PLC001591	KARANPURA DEVELOPMENT CO. LTD.
460	U51109WB1995PTC68835	KARUKARYA RETAILER PVT. LTD.
461	U51909WB1995PTC67657	KASHYAM TRACON PVT. LTD.
462	U70109WB1995PTC74484	KASTURI NIRMAN PVT. LTD.
463	U24291WB1954PTC21749	KATIHAR MATCH WORKS (1954) PVT LTD
464	U20299WB1973PTC28670	KAYTEE CONSTRUCTIONS PVT LTD
465	U51420WB1973PTC29084	KEJRIWAL STEELS PVT LTD
466	U13209WB1972PTC28597	KEM DYNE MACHINERIES PVT LTD
467	L99999WB1984PLC037987	KENEX COMMERCIAL LTD.
468	U67120WB1994PTC63914	KHAITAN COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
469	U65993WB1994PTC65740	KHAITAN FISCAL SERVICES PVT.LTD.
470	U99999WB1964PTC026073	KHAMIG ENGINEERS PVT LTD
471	U10101WB1921PLC4369	KHAS KAJORA COAL CO LTD
472	U51433WB1980PTC32585	KHEMKA LUB CO PVT LTD
473	U51109WB1995PTC74885	KIPPY GOODS & SUPPLY PVT.LTD.
474	U17125WB1995PTC74868	KIRPAL SINGH & CO.(JUTE) PVT.LTD.
475	U70101WB1997PTC85292	KISHORE BHARATI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED

476	U15311WB1997PTC84258	KMD FOOD MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
477	U85110WB1995PTC74717	KOEL CURE PVT.LTD.
478	U15312WB1994PTC62425	KOHINOOR RICE MILLS PVT. LTD.
479	U51109WB1995PTC68730	KOTHARI COMMOTRADE PVT. LTD.
480	U35201WB1990PTC48417	KOTHARI EQUIPMENT PVT. LTD.
481	U15134WB1992PTC54914	KRISHNA FOOD PRODUCTS COMPANY PVT. TLD.
482	U99999WB1994PTC64411	KRONE DISTRIBUTORS PVT. LTD.
483	U51909WB1966PTC26751	KUMARKHALA COLLERY CO PVT LTD
484	U45402WB1977PTC30907	KUMCO RESINS & CHEMICALS PVT LTD
485	U26921WB1951PTC20179	KUNDU NANDY & CO PVT LTD
486	U70101WB1993PTC61159	KURLA PROPERTIES & FINANCE PVT. LTD.
487	U45201WB1997PTC84844	L R DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
488	U51909WB1992PTC56416	LA OPALA SHINKWANG PVT. LTD.
489	U51109WB1995PTC74115	LAKEWEST DISTRIBUTORS PVT.LTD.
490	U51109WB1994PTC63293	LAREDO COMMOTRADE PVT.LTD.
491	U31909WB1964PTC26190	LEATHEROLD & PRESSPAHNS MANUFACTURING CO PVT LTD
492	U31909WB1995PTC72611	LEKTRON CONTROL & ELECTRONICS PVT LTD
493	U51109WB1995PTC73777	LEONARD VANIJYA PVT.LTD.
494	U99999WB1974PTC029677	LIBANI FILMS PVT LTD
495	U74999WB1982PTC34612	LIBRA MARINE CONSULTANTS PVT LTD
496	U25201WB1984PLC37203	LIBRA PLASTICS LTD.
497	U15102WB1982PTC34533	LIFE SAVERS PVT LTD

498	L99999WB1964PLC026011	LOHARU TRADERS (INDIA) LTD.
499	U51398WB1993PTC57902	LOKENATH TIRTHA FIANNCE & GENERAL TRADING COMPANY PVT.LTD.
500	U24239WB1998PTC86629	LOUISE HEALTH PRODUCTS PRIVATE LIMITED
501	U99999WB1970PTC027840	LUCKNOW HOTEL & MEAT SUPPLIERS PVT LTD
502	U15499WB1995PTC074551	LUCKY-TASTE PRROCESSED FOOD PVT. LTD.
503	U99999WB1970PTC027666	LUNA PACKAGING CO PVT LTD
504	U65993WB1992PTC54621	LYONS STOCK HOLDINGS & FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
505	U29130WB1974PTC29273	M L FASTENERS PVT LTD
506	U74140WB1997PTC84833	M R MANAGEMENT & CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
507	U74140WB1981PTC33433	M T W NICCO PVT LTD
508	U63022WB1990PTC48977	MAA SARBA MANGALA HIMGHAR PVT. LTD.
509	U19129WB1993PTC57918	MAC LEATHER ARTS PVT.LTD.
510	U15312WB2000PTC92014	MADANIA RICE MILL PRIVATE LIMITED
511	U99999WB1964PTC026289	MADHABI PICTURES PVT LTD
512	U27101WB1973PTC28672	MADHAV ENGINEERING WORKS PVT LTD
513	U51109WB1994PTC65747	MADHUVAN MARKETING PVT.LTD.
515	U51229WB1997PTC85991	MAHAKALI TRADING PRIVATE LIMITED
516	U51109WB1995PTC74156	MAHASWETA VANIJYA PVT.LTD.
517	U48511WB1990PTC48511	MAHESHWARI FERRO SILICON PVT LTD
518	U15142WB1973PTC29140	MAHINDER RUBBER & CHEMICALS PVT LTD
519	U51909WB1998PTC86610	MAHIPAL AUDIO & ADVERTISING PRIVATE LIMITED
520	U51109WB1997PTC84656	MALTI BEARINGS PRIVATE LIMITED

521	U65993WB1992PLC56866	MAMTAJ FINANCE & INVESTMENT LTD.
522	U51496WB1995PLC67976	MANCHEM (INDIA) LTD.
523	U51109WB1995PTC74135	MANGAL KRIPA SALES PVT.LTD.
524	U51109WB1992PTC54778	MANGALAM TRADE LINKS PVT. LTD.
525	U92120WB1990PTC48451	MANGALDEEP PICTURES PVT. LTD.
526	U67120WB1981PTC33501	MANISHA COMMERCIAL SERVICES PVT LTD
527	U45209WB1997PTC83911	MANIYRAX CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
528	U92342WB1967PTC27192	MANJIR SMRITI ENGINEERING ENTERPRISE PVT LTD
529	U01712WB1976PTC30494	MANJIT WOOLEN & HOSIERY MILLS CO PVT LTD
530	U65993WB1992PLC54574	MANMAUJI FINANCE & HIRE PURCHASE INDIA LTD.
531	U24122WB1954PTC21606	MANURE SUPPLYING AGENCY PVT LTD
532	U51109WB1995PTC68667	MANUSH SALES PVT.LTD.
533	U52343WB1997PTC84460	MARG FIBREGLASS PRIVATE LIMITED
534	U05002WB1973PTC28930	MARINE & FARM PRODUCTS (INDIA) PVT LTD
535	U70101WB1990PTC48723	MARUTI DEVELOPERS PVT LTD
536	U99999WB1982PTC34727	MARYADA MERCANTILES LTD.
537	U74210WB1997PTC84765	MASS TECHNICAL SERVICE PRIVATE LIMITED
538	U99999WB1992PTC054981	MAURYA COMMODITIES PVT. LTD.
539	U67120WB1997PTC84869	MAXWORTH TRADERS PRIVATE LIMITED
540	U21022WB1998PTC88131	MAYA PACKAGING PRIVATE LIMITED
541	U51909WB1998PTC86325	MAYFAIR TRADECOM PRIVATE LIMITED
542	U74999WB1994PTC66342	MAYSA EXPORTS & ENGINEERING SERVICES PVT.LTD.
543	U22219WB1997PTC86096	MEDIA GRAPHICS PRIVATE LIMITED

544	U85110WB1995PTC73492	MEDICENTRE NURSING HOME PVT.LTD.
545	U52322WB1993PTC61085	MEENAKSHI IMPEX PVT. LTD.
546	U36991WB1997PTC86174	MEHROTRA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
547	U72900WB1989PTC47786	MEKASONIC COMPUTER SYSTEM PVT. LTD.
548	U85320WB1993PTC60040	MERCANTILE BUILDING (TPC) TENANTS ASSOCIATION PVT. LTD.
549	U99999WB1964PTC02674	MERCURY PRINTING PVT LTD
550	U51909WB1993PTC60064	MERMAID FISHFEEDS PVT. LTD.
551	U74140WB1990PTC48905	MICRO ADVISORY SERVICES PVT. LTD.
552	U25199WB1968PTC27428	MICRO-CELLULAR RUBBER MFG PVT LTD
553	U23203WB1994PTC65289	MIDNAPORE OIL & GAS TRADING COMPANY PVT.LTD.
554	U52599WB1989PTC47683	MIDSUN MANAGEMENT PROMOTION AND CONSULTANCY PVT. LTD.
555	U85110WB1999PTC90852	MILLENNIUM DIAGNOSTIC & RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
556	U99999WB1994PTC65876	MINE-TECH AGENCIES PVT.LTD.
557	U51109WB1997PTC85744	MISSION IMPEX PRIVATE LIMITED
558	U45201WB1968PTC27367	MITRA CONSTRUCTION PVT LTD
559	U29211WB1973PTC28759	MITTAL ALLOYS & STEELS PVT LTD
560	U99999WB1974PTC029630	MODEL CHIT FUNDS PVT LTD
561	U27101WB1973PTC28711	MODERN PIPE PVT LTD
562	U70101WB1973PLC28743	MOHINI MANSION LTD
563	U28994WB1979PTC32121	MONILALL ATTA IRON FOUNDRY PVT. LTD
564	U27106WB1966PTC26940	MONOMETAL INDUSTRIES PVT.LTD
565	U99999WB1992PTC054982	MRIDULA COMMODITIES PVT. LTD.

566	U55101WB1982PTC34985	MRIGAYA HOTELS PVT LTD
567	U92392WB1968PTC27350	MUKHERJEE BROTHERS (EXPORT HOUSE) PVT LTD
568	U45201WB1998PTC86468	MULTIMECH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
569	U05004WB1994PTC65422	MULTIWYN AQUA FARMS PVT.LTD.
570	U65999WB1990PTC48493	N N HOLDINGS PVT LTD
571	U24233WB1997PTC86167	N.K.GHOSE INDIAN HARBAL RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
572	U65993WB1990PTC48421	N.V. CREDIT PVT. LTD.
573	U70101WB1982PTC34545	NAKUL HOLDINGS PVT LTD
574	U31909WB1977PTC30987	NALANDA SHIPPING PVT LTD
575	U51909WB1981PLC33868	NAPLES COMMERCIALS LTD.
576	U65999WB1993PLC60006	NAPOL FINANCE LTD.
577	U51109WB1995PTC73932	NATARAJ MARKETING SERVICES PVT.LTD.
578	U31300WB1999PTC90159	NATURE PRODUCT AQUA PRIVATE LIMITED
579	U15572WB1982PTC34703	NAVBHARAT LIQOURS PVT LTD
580	U65992WB1971PTC27992	NAVIN BENEFIT FUND PVT LTD
581	U51109WB1995PTC73298	NAVJYOTI COMMERCE PVT.LTD.
582	L99999WB1964PTC026007	NAYAR EARTH MOVING CO PVT LTD
583	U22122WB1994PTC61648	NEED BASED PUBLICATIONS PVT. LTD.
584	U19129WB1999PTC90516	NEEJA LEATHER PRIVATE LIMITED
585	U26931WB1994PLC61501	NEO SHELCON LTD.
586	U51505WB1999PTC90101	NEONET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
587	U72900WB1997PTC84442	NETCOM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

588	U31300WB1997PTC84779	NEW ELECTRIC WORKS PRIVATE LIMITED
589	U31102WB1972PTC28555	NEW INDUSTRIAL SPARE PARTS MFG. CO PVT LTD
590	L99999WB1918PLC002965	NEW JUNAGARA COAL CO LTD
591	U65999WB1994PTC64704	NIDHI INTRA PVT.LTD.
592	U85110WB1982PTC34748	NIGHTINGLE NURSING HOME & RESEARCH CENTRE PVT LTD
593	U17115WB1998PTC87151	NIKHAAR PRINTS PRIVATE LIMITED
594	U51109WB1997PTC84647	NIKITA TRACOM PRIVATE LIMITED
595	U74210WB1937PLC8987	NIRANJAN & CO LTD
596	U22124WB1954PTC21497	NIREEKSHA PUBLISHERS PVT LTD
597	U55101WB1997PTC85343	NIRMAN RESORTS & MOTEL PRIVATE LIMITED
598	U51909WB1954PTC21626	NIRMATA SANGHA PVT LTD
599	U31909WB1998PTC86554	NISHA VYAPAAR PRIVATE LIMITED
600	U15543WB1996PTC80541	NIVA MARKETING & DISTRIBUTION PVT.LTD.
601	U67120WB1995PTC74988	NKP VANIJYA PVT.LTD.
602	U31300WB1965PTC26634	NON-FERROUS WIRE & CABLE INDUSTRIES PVT LTD
603	U25206WB1998PTC88143	NORTH BENGAL POLYPLAST PRIVATE LIMITED
604	U45201WB1997PTC84342	NOSPE PROJECT PRIVATE LIMITED
605	U15127WB1997PTC85266	NRK SEA FOOD UNIT PRIVATE LIMITED
606	U63040WB1992PTC56415	NTIC (TRAVELS AND TOURS) PVT. LTD.
607	U70101WB1973PTC28948	NUNDY PROPERTIES PVT LTD
608	U51109WB1995PTC68615	OBAN COMMERCIAL PVT.LTD.
609	U99999WB1964PTC026055	OCEANIC ENGINEERING WORKS PVT LTD
610	U27109WB1998PTC86719	ONKER ENTREPRENEURES PRIVATE LIMITED

511	U26101WB1995PTC74378	OPAL GLASS PVT. LTD.
612	U65592WB1969PTC27603	OPTIMIC BENEFIT FUND PVT LTD
613	U51109WB1997PTC83797	ORCHID DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
614	U29199WB1998PTC87802	ORISSA AGENCY INDIA PRIVATE LIMITED
615	U31501WB1984PLC37266	OSLER PRODUCTS LIMITED.
616	U74210WB1998PTC86385	P D CONSTRUCTION N CONSULTANT PRIVATE LIMITED
617	U99999WB1980PTC032750	P N ENGINEERING CO PVT LTD
618	U99999WB1964PTC026059	P.K. APPLIANCES PVT LTD
619	U55101WB1993PTC60217	PALM VILLAGE & RESORTS PVT. LTD.
620	U99999WB1994PTC65590	PALTON DEALCOMM PVT.LTD.
621	U18101WB1998PTC86334	PAMBROS EXPORTS PRIVATE LIMITED
622	U74210WB1990PTC048299	PAMED ENGINEERS PVT LTD
623	U63022WB1997PTC84665	PANCHARUL COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
624	U15412WB1998PTC88218	PAPPU FOOD PROCESSING PRIVATE LIMITED
625	U65999WB1992PLC56970	PAR FINANCE & INVESTMENT LTD.
626	U67120WB1993PTC60163	PARAGON CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
627	U55102WB1994PTC65394	PARAGON HOTEL PVT.LTD.
628	U70101WB1997PTC84863	PARAMHANS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
629	U63090WB1994PTC64069	PARASHAR TRANSPORT AGENCY PVT. LTD.
630	U51491WB1990PTC48710	PARASRAM PURIA BROTHERS PVT LTD
631	U22219WB2000PTC91681	PARIBARTAN PRINTERS PRIVATE LIMITED
632	U85110WB1965PTC26667	PARK LAND NURSING HOME & RESEARCH LABORATORIES PVT LTD

633	U74140WB1998PTC86670	PASHUPATI MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
634	U24222WB1967PTC26998	PATEL & PARKASH PAINT INDUSTRIES PVT LTD
635	U27106WB1966PTC26864	PATO METALS PVT LTD
636	U52201WB1998PTC88353	PATODI DEALCOM PRIVATE LIMITED
637	U23209WB1979PTC32148	PAUL BITUMENOW INDUSTRIAL PRODUCTS PVT LTD
638	U01122WB1993PTC60447	PCI BIOTECH PVT. LTD.
639	U51109WB1995PTC67970	PCMAN TRADE & SERVICES PVT.LTD.
640	U51909WB1997PTC84537	PECON TRADERS PRIVATE LIMITED
641	L99999WB1992PLC056800	PENGUINE SAVINGS & INVESTMENT COMPANY LTD.
642	U51109WB1984PLC37251	PENNSYLVANIA HOLDINGS LTD
643	U51909WB1999PTC90482	PEPPY FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
644	U15142WB1993PLC60445	PERFECT OIL & AGRO LTD.
645	U51109WB1995PTC68736	PHEASENT COMMERCE PVT.LTD.
646	U70200WB1992PTC54731	PIDI DEVELOPER & CONSULTANCY PVT. LTD.
647	U31909WB1981PTC33726	PIDRIKS ENGINEERS PVT LTD
648	U26626WB1965PTC26626	PIONEER MEDICAL AGENCIES PVT LTD
649	U26102WB1982PTC34683	PIONEER PULTRUSION GLASS FIBRE PVT LTD
650	U17299WB1974PTC29513	PIRAAN (CALCUTTA)PVT LTD
651	U65993WB1982PLC34460	PIRAMO INVESTORS LTD
652	U18101WB1999PTC90232	PIUSH AGENCIES PRIVATE LIMITED
653	U30008WB1995PTC74862	PLATINUM INFOTECH PVT.LTD.
654	U67120WB1984PLC37198	PLOUGHBACK INVESTMENTS LTD

655	U51909WB1997PTC84592	PLOWTEC COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
656	U99999WB1965PLC026351	PODDAR ESTATES LTD
657	U31200WB1995PLC68691	POLLUNIL CONVERTERS LTD.
658	U29221WB1965PLC26376	POLLYGRAPH LTD
659	U24119WB1997PTC84507	POLYCAT CHEMICALS PRIVATE LIMITED
660	U99999WB1964PTC026097	POLY-FIBRE REINFORCEMENTS PVT LTD
661	U65921WB1994PTC64797	POOJA PROFIN PVT.LTD.
662	U65993WB1982PLC34700	POPULAR BANK OF INDIA LTD
663	U51109WB1995PTC68849	POYSHA MERCANTILE PVT. LTD.
664	U45209WB1994PTC61762	PRABHARI PROPERTIES PVT. LTD.
665	U00000WB1972PTC28429	PRACHI ELECTRICALS PVT LTD
666	U61120WB1993PTC60326	PRAJ CREDIT PVT. LTD.
667	U51909WB1995PTC67910	PRAPTI COMPUTATA PVT.LTD.
668	U67120WB1976PTC30492	PRASAD FINANCE ENTERPRISES (INDIA) PVT LTD
669	U70101WB1990PTC48760	PRERANA ALLIED PROPERTIES PVT. LTD.
670	U65910WB1988PLC44909	PRIME LEASING LTD
671	U70101WB1995PTC73853	PRINCEVILLE ESTATES PVT.LTD.
672	U29266WB1994PTC65866	PRIYADARSHINI RIMS ENGINEERING PVT.LTD.
673	U74210WB1954PTC21779	PROCESS ENGINEERS PVT LTD
674	U27105WB1967PTC27150	PROCESS FINISHERS PVT LTD
675	U18101WB1965PTC26668	PROGRESSIVE HOSIERY FACTORY PVT LTD
676	U33125WB1971PTC28125	PROGRESSIVE INSTRUMENTS PVT LTD

677	U23209WB1994PTC61786	PROID TRADING PVT. LTD.
678	U74300WB1982PLC34901	PROTISHRUTI FINANCE & INVESTMENTS LTD.
679	U01229WB1990PTC48503	PROVITA WHITE FARMING PVT LTD
680	L51909WB1984PLC37103	PRUDENTIAL INVESTMENT LTD.
681	U51109WB1997PTC84497	PULLOCK MERCANTILES PRIVATE LIMITED
682	U74140WB1994PTC61440	PURAN FLATS PVT. LTD.
683	U27107WB1966PTC26803	PURBANCHAL METAL CO PVT LTD
684	U10102WB1954PTC21714	PURE KATRAS COLLIERY CO PVT LTD
685	U05004WB1976PTC30732	PURI SEAFOOD PVT LTD
686	U23101WB1997PTC86182	PURULIA HYDRO CARBONS PRIVATE LIMITED
687	U63040WB1997PTC86210	PURVANCHAL TOURS & TRADING CO. PRIVATE LIMITED
688	U51219WB1993PTC61247	PUSHPAK AGRO PRODUCTS PVT. LTD.
589	U28131WB1969PTC27429	QUALITY ENGINEERS PVT LTD
690	U27310WB1964PTC26106	QUALITY MALLEABLE CASTING PVT LTD
691	U67120WB1997PTC86002	R D PROMOTERS PRIVATE LIMITED
692	U70109WB1992PTC56301	R.B. FINANCE AND INVESTMENT PVT. LTD.
693	U25191WB1954PTC21995	R.B.S. RUBBER MILLS PVT LTD
694	U63090WB1997PTC83081	R.D. EXPLOSIVES PRIVATE LIMITED
695	U65993WB1990PTC48381	R.I. FINANCE PVT. LTD.
696	U99999WB2000PTC091968	R.O.B. EXPORTERS PRIVATE LIMITED
697	U64120WB1995PTC68950	RAAJWINGS & HOLIDAYS PVT. LTD.
698	U51109WB1995PTC68651	RABIRUN VYAPAAR PVT.LTD.
699	U65993WB1994PLC61477	RACEMODEL FINANCE & INVESTMENT COMPANY LTD.

700	U67110WB1996PTC78415	RADCLIFFE HOLDINGS PVT LTD
701	U25201WB1999PTC88925	RADHASWAMI PACKAGING PRIVATE LIMITED
702	U65192WB1992PLC54655	RADIANT FINCON FINVEST (INDIA) COMPANY LTD.
703	U65993WB1990PTC48742	RADIANT SAVINGS & HIRE PURCHASE (INDIA) PVT LTD
704	U19129WB1999PTC90697	RAHUL & DARREN LEATHER RITE (INDIA) PRIVATE LIMITED
705	U33119WB1997PTC84657	RAINBOW MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
706	U23201WB1989PTC47762	RAINGUARD BITUMEN FELT PVT. LTD.
707	U65922WB1992PLC56639	RAISON HOUSING AND FINANCE CO LTD.
708	U29212B1972PTC28447	RAJ RAJESHWARI DYE CHEM PVT LTD
709	U27109WB1998PTC86552	RAJA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
710	U27203WB1997PTC85259	RAJASHREE METAL CASTINGS PRIVATE LIMITED
711	U70109WB1974PTC29434	RAJESH INVESTMENT PVT LTD
712	U21019WB1973PTC28845	RAJGARHIA PAPER MILLS PVT LTD
713	U65992WB1971PTC28164	RAJIA'S BENEFIT SCHEME PVT LTD
714	U29120WB1976PTC30808	RALBIN INDIA PVT LTD
715	U74140WB1954PTC21562	RAM KUMAR AGARWAL BROS. (AGENTS) PVT LTD
716	U55101WB1990PTC48270	RAMESH CHANDRA HOTELS PVT LTD
717	U99999WB1964PTC026003	RAMESH TEXTILE DEALERS PVT LTD
718	U51109WB1982PTC34747	RAMKANAI KRISHNA KANTA PAUL PVT LTD
719	U51226WB1979PTC32106	RANDERIAN PLANTATIONS PVT LTD
720	U45201WB1980PTC32594	RANDEV PVT LTD
721	U74940WB1972PTC28393	RANGLOK PICTURES PVT LTD
722	U26911WB1976PTC30387	RANJAN MICA INDUSTRIES PVT LTD

723	U27101WB1998PTC86888	RAPID CASTOPLATE PRIVATE LIMITED
724	U65929WB1983PTC36786	RASENDU RESOURCES PVT LTD
725	U28991WB1995PTC67978	RATNAM BOLTS PVT.LTD.
726	U24117WB1964PTC26167	RAVI CHEMICALS PVT LTD
727	U01111WB1998PTC87667	RAYAN AGRO PRIVATE LIMITED
728	U65910WB1993PLC60554	RCG LEASING & CREDIT LTD.
729	U24222WB1974PTC29792	RENU CHEMICALS LTD
730	U45207WB1980PLC32630	RENUKOOT POWER COMPANY LTD.
731	L99999WB1914PLC02579	RENWICK & CO. LTD
732	U33125WB1959PTC24175	RESEARCH & CONTROL EQUIPMENTS PVT LTD
733	U55101WB1997PTC85314	RESPITE RESORTS PRIVATE LIMITED
734	U72200WB1998PTC88168	RESURGENT COMMUNICATION SERVICES PRIVATE LIMITED
735	U23109WB1969PTC27566	RHEA MINING INDUSTRIES PVT LTD
736	U51909WB1997PTC83618	RICON TRADERS PRIVATE LIMITED
737	U24246WB1967PTC27125	RIGA PERFUMERY WORKS PVT LTD
738	U65992WB1975PTC30316	RIJITA FINANCE & CHIT SCHEMES PVT LTD
739	U27109WB1998PTC87783	RISHABH SETHI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
740	U63090WB1997PTC84366	RJS ROADLINES PRIVATE LIMITED
741	U29212WB1968PTC27296	ROAD MACHINES (INDIA) PVT LTD
742	U52324WB1993PTC60535	ROMA LEATHER PRINT PVT. LTD.
743	U51109WB1994PTC64370	ROTORAJ VINCOM PVT. LTD.
744	U29269WB1965PTC26627	ROY BOBBIN WORKS PVT LTD
745	U35111WB1998PTC87014	ROY CHOWDHURY & CO. (MARINE SERVICES) PRIVATE LIMITED

746	U70109WB1994PTC065199	RST DEVELOPERS PVT. LTD.
747	U26921WB1965PLC26645	RUDRA SOORKEY MILLS PVT LTD
748	U65999WB1992PLC56916	RUPALI SAVINGS & FINVEST COMPANY LTD.
749	U22219WB1952PTC20201	RUPAMUDRA PVT LTD
750	U65992WB1974PTC29164	RUPNARAYAN SAVINGS & INVESTMENT CO. PVT LTD
751	U25211WB1968PTC27314	S B RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
752	U31200WB1989PTC47641	S J ELECTRICAL ENGINEERS P. LTD.
753	U51507WB1998PTC86650	S MEDICO PRIVATE LIMITED
754	U27310WB1973PTC29090	S N MAJUMDER & BROS (INDIA) PVT LTD
755	U45209WB1994PTC61727	S.A. HOUSING DEVELOPMENT PVT. LTD.
756	U51109WB1997PTC85417	S.D.MERCANTILES PRIVATE LIMITED
757	U28991WB1976PTC30396	S.K. ROLLING SHUTTERS PVT LTD
758	U23109WB1968PTC27346	S.N.MOOKHERJEE (COAL SALES) & CO PVT LTD
759	U27106WB1995PTC73329	S.R.S.ELECTROHEAT PVT.LTD.
760	U55101WB1995PTC74401	SABA RESORT PVT.LTD.
761	U55101WB1998PTC88093	SABCON CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
762	U51433WB1999PTC90853	SABITA BEARING PRIVATE LIMITED
763	U99999WB1964PTC026075	SADHUKHAN IRON WORKS PVT LTD
764	L99999WB1980PLC32538	SADIRAM GANGAPRASAD INVESTMENT LTD.
765	U99999WB1974PTC029567	SAFAR ENGINEERS PVT LTD
766	U27101WB1982PTC34778	SAFETY INSPECTIONS (INDIA) PVT LTD
767	U45201WB1982PLC34976	SAGAR PROJECTS LTD
768	U99999WB1996PTC077491	SAGAR TEXTILES INDIA PVT LTD

769	U22202WB1911PLC2059	SAHITYA PRACHAR SAMITI LTD
770	U24232WB1941PTC10828	SAILEN BOSE & CO PVT LTD
771	U15135WB1997PTC85607	SAINSBURY FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
772	U15312WB1992PTC54591	SAKET FOOD PRODUCTS PVT. LTD.
773	U51109WB1997PTC84411	SAKURA MERCHANDISE PRIVATE LIMITED
774	U27109WB1998PTC86409	SALACT " O " STEEL PRIVATE LIMITED
775	U29214WB1965PTC26345	SALKIA ENGG WORKS PVT LTD
776	U26922WB1998PTC86577	SAMANTA COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
777	U74140WB1993PTC60116	SAMIKSHA CONSULTANCY PVT. LTD.
778	U45209WB1990PTC48975	SANATAN CONSTRUCTION PVT. LTD.
779	U24232WB1979PTC32399	SANCTUM PHARMA PVT LTD
780	U51109WB1998PTC86368	SANDIN EXPORTS & IMPORT PRIVATE LIMITED
781	U65999WB1993PLC60016	SANHITA COMMERCIAL FINANCE LTD.
782	U51109WB1995PTC74137	SANHITA COMMODITIES PVT.LTD.
783	U51109WB1995PTC74103	SANHITA COMMOSALES PVT.LTD.
784	U18104WB1976PTC30439	SANJAY APPARELS PVT LTD
785	U99999WB1970PTC027743	SANJAY PETROCHEMICAL WORKS PVT LTD
786	U65192WB1992PLC54668	SANKALAN FIANNCE & INVESTMENT (INDIA) LTD.
787	U65993WB1983PLC36938	SANKALPA FINANCE & INVESTMENT LTD
788	U19119WB1994PTC63457	SANKAR FOOTWEAR PVT.LTD.
789	U51109WB1995PTC67711	SANKESH COMMODITIES PVT. LTD.
790	U51109WB1997PTC84452	SANKET MERCHANTS PRIVATE LIMITED
791	U51109WB1997PTC84440	SANSU CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED

792	U24239WB1972PLC28323	SANWA PHARMACEUTICALS LIMITED.
793	U29212WB1964PTC26197	SANYAL ELECTRICAL & MECHANICAL ENGG. PVT LTD
794	U51909WB1994PTC64949	SANYAM COMMODITIES PVT. LTD.
795	U51109WB1995PTC68916	SAPIENCE VYAPAAR PVT.LTD.
796	U99999WB1970PTC27782	SAPTAHA PUBLICATIONS PVT LTD
797	U01132WB1917PLC2842	SARALATA DEBIS ESTATE LTD.
798	U99999WB1964PTC026092	SARANGI MAHAPATRA TRANSPORT CO. PVT. LTD.
799	U17111WB1972PTC28223	SAROGI STEEL & ALLOY INDUSTRIES PVT LTD
800	U24123WB1998PTC86346	SATADRU PAINTS & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
801	U99999WB1974PTC029623	SAUDAGAR CHITC FUND PVT LTD.
802	U65993WB1982PLC34964	SAVARE TRADE ENTERPRISES LTD
803	U28113WB1982PTC34744	SAXONY ENGINEERING PVT LTD
804	U25111WB1997PTC84495	SCAD RUBBER PRIVATE LIMITED
805	U74210WB1994PTC63080	SCHEMATIC CONSULTANTS PVT. LTD.
806	U31102WB1970PTC27748	SCHRITT ENGINEERS(INDIA) PVT LTD
807	U51109WB1990PTC48210	SCM TRADERS PVT LTD
808	U5005 WB1995PTC68705	SEA-LINK FOOD PROJECTS PVT.LTD.
809	U36939WB1993PTC60439	SEAM SPORTS WEAR PVT. LTD.
810	U99999WB1917PLC002787	SEARSOLE COAL CO LTD
811	U25209WB1995PTC68642	SEAWAVE POLYMERS PVT.LTD.
812	U31501WB1984PLC37273	SEIRA ELECTRONICS LTD
813	U74999WB1919PTC3375	SEN MAJUMDAR CO
814	U22219WB1992PTC54962	SERA PRAKASHAK PVT. LTD.
815	U15412WB1997PTC84358	SEVENIA FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED

816	U99999WB1964PLC026010	SEWANI FINANCIERS LTD
817	U67120WB1995PTC74669	SHAH NIDHI NIVESH PVT.LTD.
818	U19112WB1964PTC26147	SHAHFUR & REPTILE SKINS EXPORTING CO PVT LTD.
819	U65910WB1972PTC28370	SHANKAR SAVING & FINANCE CO. PVT. LTD.
820	U67120WB1971PTC27947	SHANTI INVESTMENT PVT LTD.
821	U36911WB1998PTC87578	SHARMA LAXMINARAYAN SILVER ARTS PRIVATE LIMITED
822	U65910WB1994PLC61322	SHINERISE VINIYOG & HOUSING FINANCE LTD.
823	U28812WB1987PTC43071	SHIVA ERECTORS PVT LTD
824	U17125WB1972PLC28608	SHREE BIHAR JUTE TWINE MILL LTD.
825	U51909WB1998PTC86458	SHREE COMMODITIES PRIVATE LIMITED
826	U65923WB1997PTC84446	SHREE RAMDEOJI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
827	U52322WB1993PTC60143	SHREE SELLERS PVT. LTD.
828	U01132WB1997PTC86176	SHREE SHYAM PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
829	U24221WB1997PTC85265	SHREE SITARAM BANIJYA PRIVATE LIMITED
830	U67120WB1972PTC28470	SHREE TIRUPATI FIBRE PVT LTD
831	U35112WB1998PTC87676	SHREE UMIA FOODS PRIVATE LIMITED
832	U27105WB1971PTC27904	SHRI STEELS PVT LTD
833	U65999WB1994PTC65314	SHRUTI SECURITIES PVT.LTD.
834	U36911WB1997PTC84812	SHUBHAM JEWELLERS PRIVATE LIMITED
835	U24241WB1997PTC85134	SHUKHAM BIO-TAN PRIVATE LIMITED
836	U51909WB1995PTC72297	SHVETAMBER MARKETING PVT.LTD.
837	U27109WB1966PTC26835	SIDISA ENGINEERING PVT.LTD.

838	U24119WB1977PTC30946	SIGMA RHO OFFICE MACHINES PVT LTD
839	U99999WB1914PLC002444	SIGNA (JHERRIA) ELECTRIC SUPPLY CO. LTD.
840	U63040WB1999PTC90254	SILENT VALLEY (WILDERNESS) TOURS PVT LTD
841	U22219WB1997PTC82296	SILVERLINE PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
842	U74999WB1992PTC54997	SIMARNA EXPORTS PVT. LTD.
843	U51109WB1993PTC61053	SIMPLEX TREXIM PVT. LTD.
844	U51909WB1965PTC26385	SINGH & CHAWRA (SALES) PVT LTD
845	U74140WB1985PTC39500	SINGHAL VYAAPAR PVT LTD
846	U01132WB1998PTC86718	SINHA BROTHERS & CO PRIVATE LIMITED
847	U51909WB1994PTC65076	SION TRADING PVT. LTD.
848	U74999WB1984PLC37156	SIPANI INDUSTRIES LTD
849	U65910WB1992PLC56843	SIRCO INDIA SAVINGS & GENERAL FINANCE CO. PVT. LTD.
850	U52324WB1992PTC56421	SIRSIL MARKETIERS PVT LTD.
851	U72200WB1998PTC88561	SISS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
852	U55101WB1997PTC84441	SKIFF HOTELS & ADVERTISING PRIVATE LIMITED
853	U99999WB1999PTC090738	SKOKIE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
854	U51909WB1995PTC74769	SMART TRACON PVT. LTD.
855	U74300WB1993PTC57956	SMEDVIK COMMUNICATIONS PVT. LTD.
856	U51909WB1995PTC74112	SNEHA VINCOM PVT. LTD.
857	L99999WB1964PLC026063	SOFREMINE (INDIA) LTD.
858	U55101WB1980PTC32578	SOIGNE COSMOS MARINE PVT LTD
859	U65910WB1993PLC61064	SONAR GAON FISCAL LTD.
860	U65999WB1992PLC57013	SONJOG FINANCE AND INVESTMENT LTD.
861	U85195WB1975PTC30254	SOURAB OSTEOLOGICAL PVT LTD

862	U51223WB1965PTC26716	SOUTH CALCUTTA CONSTRUCTION PVT LTD
863	U70101WB1995PTC74038	SOUTHERN ENCLAVE PVT.LTD.
864	U01132WB1993PTC57950	SPA EXPORTS PVT. LTD.
865	U24299WB1997PTC85473	SPANIN CHEM PRIVATE LIMITED
866	U52392WB1993PTC60137	SPECSCAN INSTRUMENTS PVT. LTD.
867	U24119WB1982PTC34551	SPECTRUM LEATHER PIGMENTS AND CHEMICALS PVT LTD
368	U85110WB1998PTC87726	SPECTRUM MICROSURGERY CENTRE PRIVATE LIMITED
869	U51909WB1980PTC32579	SPEEDY EXPORTS PVT LTD
870	U24222WB1981PTC33914	SPEETRUM COLOURS (CALCUTTA)PVT LTD
871	U51109WB1997PTC84496	SPLAINDER COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
872	U51909WB1995PTC68864	SPRINGTOUCH SALES PVT.LTD.
873	U29291WB1974PTC29717	SPRITZ AUTOMATION (INDIA) PVT LTD
874	U99999WB1992PLC054644	SQUARED SOFTWARE LTD.
875	U51109WB1968PTC27380	SREE BALAJI TRADING CO PVT LTD
876	U74140WB1994PTC63168	SREE FLAT OWNERS ASSOCIATION PVT.LTD.
877	U99999WB1981PTC33878	SREEJA (INDIA) PVT LTD
878	U26941WB1965PTC26602	SREEPUR TRADERS PVT LTD
879	U99999WB1972PTC028246	SRI AMRIT TRADERS & MINERALS PVT LTD
880	U28201WB1966PTC26767	SRI CHAITANYA TEXTILE PROCESSING PVT LTD
881	U70101WB1997PTC84838	SRI GANAPATI MARKETING & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
882	U01222WB1997PTC84697	SSB POULTRY & FARMING PRIVATE LIMITED
883	U63090WB1990PTC48275	STAMFORD SHIP MANAGEMENT PVT LTD

884	U51226WB1977PTC30955	STANDARD HEALTH PVT LTD
885	U70101WB1997PTC85309	STAR & STAR APARTMENTS PRIVATE LIMITED
886	U65929WB1995PLC74348	STAR MUTUAL BENEFIT COMPANY LTD.
887	U67120WB1992PTC54847	STERLING PORTFOLIO MANAGEMENT PVT. LTD.
888	U99999WB1975PLC030217	STERLITE CABLES LTD.
889	U70101WB1982PTC34962	STURDY BUILDERS PVT LTD
890	U67120WB1997PTC84700	SUBASHYNA FINANCIAL PRIVATE LIMITED
891	U74140WB1982PTC34678	SUBHAS ROY & CO (FOREX BROKERS) PVT. LTD.
892	U23203WB1994PTC63467	SUDDHA GAS PVT. LTD.
893	U74140WB1998PTC86556	SUGOCAL SALES & SERVICES PRIVATE LIMITED
894	U51109WB2000PTC91140	SUKHJIT MARKETING PRIVATE LIMITED
895	U51909WB1992PTC56423	SUKHMAY CONSULTANCY & DISTRIBUTORS PVT LTD.
896	U51909WB1994PTC65363	SUKIRON VINCOM PVT.LTD.
897	U24119WB1975PTC30208	SULAGNA LABORATORIES PVT LTD
898	U65992WB1975PTC30238	SULEKHA CHIT FINANCIERS PVT.LTD
899	U34300WB1999PTC90831	SUN BEAM AUTO PRIVATE LIMITED
900	U51311WB1998PTC87249	SUNIL SONS FASHION PRIVATE LIMITED
901	U70101WB1997PTC85312	SUNNY REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
902	U45203WB1990PTC48283	SUNRISE (STEEL) STRIPS PVT.LTD.
903	U15549WB1997PTC83854	SUPER ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
904	U11102WB2000PTC91863	SUPERIOR BLAST & EXPLOSIVES PRIVATE LIMITED
905	U63090WB1976PTC30491	SURANA TRANSPORT CO PVT LTD

906	U24211WB1979PTC32378	SURECURE PVT LTD
907	U67120WB1990PTC48248	SURESH KUMAR SOMANI SHARE BROKERS PVT LTD
908	U01122WB1993PLC57975	SUROLIA AGRO-PLANTATION GROWTH & MARKETING (I) LTD.
909	U65993WB1976PTC30470	SURUCHI INVESTMENT CO PVT LTD
910	U51109WB1982PTC34949	SURYA BALLPEN INDUSTRIES PVT LTD
911	U99999WB1976PTC030810	SUSMIT SANGITA INTERMAGNETICS PVT LTD
912	U50300WB1990PTC48898	SUVA-PRIYA SALES EMPORIUM SAVINGS & INVESTMENT COMPANY PVT. LTD
913	U70109WB1964PTC26175	SWADESHI LAND DEVELOPMENT CO PVT LTD
914	U72900WB1993PTC60319	SWAGATAM COMPUTERS PVT. LTD.
915	U99999WB1974PTC029738	SWAIKA OIL MILLS PVT LTD
916	U99999WB1974PTC029738	SWAIKA SONS PVT LTD
917	U65993WB1975PTC30372	SWAPAN CHIT & FINANCE CO PVT LTD
918	U70109WB1997PTC85579	SWARAN TOWERS PRIVATE LIMITED
919	U51109WB1993PTC61072	SWARANDHARA COMMOTRADE PVT. LTD.
920	U74140WB1993PTC60088	SWARNIM CONSULTANCY SERVICES PVT LTD.
921	U15312WB1997PTC86124	SWARUPNAGAR RAHAMANIA RICE MILL PRIVATE LIMITED
922	U74140WB1998PTC86531	SWASAM NETSOFT PRIVATE LIMITED
923	U15412WB1990PTC48423	SWASTIK CONFECTIONERS PVT. LTD.
924	U64203WB1998PTC87132	SYBERDROM INTERNET PRIVATE LIMITED
925	U65191WB1982PTC34944	SYDEX ENGINEERS PVT LTD
926	U17219WB1980PTC32649	SYNTHETIC EXPORTS PVT LTD
927	U72200WB1997PTC85994	SYSTEMS ENERGIZERS PRIVATE LIMITED
928	U70101WB1990PTC48217	T P MARKET PROPERTIES PVT LTD

929	U45201WB1998PTC87833	TAG CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
930	U51109WB1995PTC68889	TAKMIN DEALCOM PVT.LTD.
931	U10101WB1921PLC4372	TALCHER COAL FIELD LTD
932	U99999WB1998PTC086966	TARA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
933	U51223WB1995PTC72008	TARM AQUA CULTURE PVT.LTD.
934	U24297WB1964PTC26176	TEKNOKEM MANUFACTURERS PVT LTD
935	U67120WB1992PTC54573	TELLER CREDIT & FINANCE PVT. LTD.
936	U51109WB1995PTC67882	TELMUS VYAPAAR PVT.LTD.
937	U51109WB1993PTC057949	TELSTAR COMMERCE PVT. LTD.
938	U24139WB1979PTC32239	TIGON PLASTIC INDUSTRIES PVT LTD
939	U28113WB1973PTC28814	TIKMANY PACKAGING CO PVT LTD
940	U20211WB1964PTC26177	TIMBERCRAFTS PVT LTD
941	U01132WB1918PLC3017	TIPPERAH TEA CORPN LTD
942	U24246WB1990PTC48869	TIRUPATI COSMETICS PVT. LTD.
943	U51109WB1997PTC84428	TIRUPATI VINTRADE PRIVATE LIMITED
944	U65922WB1992PLC56915	TISTA ECONOMIC & FINANCE LTD.
945	U52393WB1995PTC74924	TNT FASHIONS PVT.LTD.
946	U27109WB1964PTC26134	TOOL STEEL DISTRIBUTORS PVT LTD
947	U63090WB1981PTC33725	TOP CARRIERS & MANUFACTURERS PVT LTD
948	U51109WB1995PTC74884	TORINA TRACON PVT.LTD.
949	U99999WB1970PTC27839	TRACO SHOE PVT LTD
950	U31909WB1965PTC26656	TRACON ENGINEERS PVT LTD
951	U70101WB1997PTC85306	TREATISE APARTMENTS PRIVATE LIMITED

952	L67120WB1982PLC34467	TRISHNA INVESTMENTS AND TRADING CO LTD
953	U51109WB1997PTC84457	TRISHUL DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
954	U99999WB1965PTC026664	TROPIX PUBLICATIONS PVT LTD
955	U45209WB1964PLC26195	TULLOCH MINERALS LTD
956	U67120WB1997PTC84548	TULSHYAN SECURITIES PRIVATE LIMITED
957	U63022WB1997PTC84489	TUSHAR COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
958	U51909WB1997PTC84521	U K CARGO LINKERS PRIVATE LIMITED
959	U55101WB1990PTC48452	UBIQUE HOTEL CUM RESTAURANT PVT. LTD.
960	U65910WB1973PTC28740	UDAYA INVESTMENTS PVT LTD
961	U99999WB1997PTC084436	UDYAN MARKETING PRIVATE LIMITED
962	U65993WB1971PLC28157	UMANG INVESTMENTS LTD
963	U52201WB1998PTC87429	UNIFLEX MARKETING PRIVATE LIMITED
964	U24232WB1954PTC21812	UNIQUE CHEMICAL LABORATORY PVT LTD
965	U22121WB1970PTC27639	UNIQUE PUBLISHERS PVT LTD
966	U17232WB1980PTC32653	UNITED PACKERS PVT.LTD.
967	U99999WB1953PTC021245	UNITED TEA TRADING CO PVT LTD
968	U19202WB1970PTC27685	UNIVERSAL SHOE EXPORTERS PVT LTD
969	U67120WB1992PLC56945	UNNAYANI FINANCE & INVESTMENT LTD.
970	U17299WB1966PTC26717	URBASEE (GARMENTS) PVT LTD
971	U24229WB1998PTC86932	UTKARM PAINTS PRIVATE LIMITED
972	U22211WB1972PLC28307	UTTARAYAN PATRIKA LTD
973	U51909WB1990PTC48295	V R MERCANTILE PVT LTD

974	U51109WB1995PTC68866	VAISHAKI TIE-UP PVT.LTD.
975	U67120WB1999PTC90785	VAISHNO STOCK BROKING PRIVATE LIMITED
976	U74140WB1994PTC61858	VALLEY VIEW COMMERCIAL COMPANY PVT.LTD.
977	U01111WB1997PTC85264	VANEESSA FARMLANDS PRIVATE LIMITED
978	U15531B1966PTC26826	VARIETIES FOOD PRODUCTION FARM PVT LTD
979	U01111WB1995PTC74344	VASHISTHA RICE MILL PVT.LTD.
980	U51909WB1994PTC065149	VASISTH COMMERCIAL PVT. LTD.
981	U85200WB1934PLC8127	VAX-INSTITUTE LABORATORY LTD
982	U65922WB1992PTC54582	VCK EXPORTERS FINANCE PVT LTD
983	U70103WB1995PTC72010	VCK LAND & PROPERTIES PVT.LTD.
984	U51909WB1982PTC34959	VICTORY LEDERWAREN PVT LTD
985	U21015WB1979PTC32216	VIDYASAGAR PAPER INDUSTRIES PVT LTD
986	U51109WB1997PTC85408	VISHAL LAKSHMI CONSUMERS MARKETING PRIVATE LIMITED
987	U51109WB1995PTC74851	VITOL SALES PVT.LTD.
988	U99999WB1964PTC026064	VOHRA TEXTILE FINISHING MILLS PVT LTD
989	L99999WB1964PLC026015	WALKER & GREEG (COONOOR) LTD.
990	U22121WB1990PTC48260	WAVE PUBLICATIONS PVT LTD
991	U99999WB1999PTC90514	WEBCOM COMPUTERS & INFORMATION PRIVATE LIMITED
992	U30003WB1976PTC30818	WEBEL BUSINESS MACHINES PVT LTD
993	U01132WB1993PLC61123	WELCARE MONEY PLANT SAVINGS & FINVEST COMPANY LTD.
994	U65993WB1982PLC34649	WELFARE ECONOMY LIMITED
995	U51109WB1995PTC74807	WELLWISHER TRACON PVT.LTD.
996	U73100WB1973PTC28801	WEST BENGAL MEDICAL RESEARCH INSTITUTE PVT LTD

997	U99999WB1971PTC027989	WEST CHANDORE COLLIERY CO PVT LTD
998	U15419WB1997PTC85260	WEST FIELD DAIRY PRIVATE LIMITED
999	U18101WB1966PTC26856	WOOLCO STORES (INDIA) PVT LTD
1,000	U99999WB1964PTC026012	WRITERS FORUM PVT LTD
1,001	U63090WB1997PTC85572	YATAYAT CARGO SERVICES PRIVATE LIMITED
1,002	U51909WB1996PTC78916	ZESSORA TRADELINKS PVT LTD
1,003	U99999WB1994PTC64373	ZODIMAC NIRYAT PVT. LTD.

D. BANDYOPADHYAY
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Hyderabad, the 31st December 2007

No.RAP/SES-2005/560(3)/STA-II/ December, 2007 -- Notice is hereby given that the following companies have applied to this office for striking off their names under SES-2005 (Simplified Exit Scheme) dated 28-01-2005 of Government of India, Ministry of Corporate Affairs. Notice is hereby given that after the expiry of 90 days from the date hereof the following names of the companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off as a defunct company from the Register of this Office and they will be dissolved.

<i>SNo.</i>	<i>Coy.No.</i>	<i>Name of Company</i>
1.	01-7936	NANAK GARMENTS PRIVATE LIMITED
2.	01-15174	SULAKSHANA FINANCE & LEASING LIMITED
3.	01-16671	DILSHAD EXPORTS PRIVATE LIMITED
4.	01-17713	LATA SANJAY INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
5.	01-19500	DPL PHARMACEUTICALS LIMITED
6.	01-21429	DSR FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
7.	01-25930	DIVYA NAGARJUNA TOWNSHIP PROMOTERS PRIVATE LIMITED
8.	01-26355	D.N.RAO LEASING & FINANCING LIMITED
9.	01-28424	LEELA RAM BENEFIT FUND LIMITED
10.	01-29767	SILVERNEST ARCADE PRIVATE LIMITED
11.	01-29840	GROWEL PROFESSIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
12.	01-34885	SOFTIMA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
13.	01-19723	SAPTASIKHARA TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
14.	01-30178	SUPPA SURYA EXIM PRIVATE LIMITED
15.	01-37891	HAWK MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
16.	01-28544	LEO FOAMS PRIVATE LIMITED
17.	01-14871	HARIYA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
18.	01-11769	HARIDAS FINANCE AN LEASING LIMITED.
19.	01-1568	HOTEL UPLANDS PRIVATE LIMITED
20.	01-05757	RAMYA MINERALS PRIVATE LIMITED
21.	01-31528	SHRIYA AGRIBUSINESS PRIVATE LIMITED
22.	01-38133	ACURA STEEL FORMS PRIVATE LIMITED

Any person interested having objection to the proposed striking off of the above mentioned companies may lodge his/their objections in writing within 90 days from the date of this notice with sufficient documentary proof to the undersigned. Failing which the names of the above companies will be struck off as aforesaid without any further notice.

HENRY RICHARD
Registrar of Companies
Andhra Pradesh

**

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Hyderabad, the 31st December 2007

No.RAP/SES-2005/560(5)/STA-II/ December, 2007 – Notice is hereby given that pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved from the date of this publication in Gazette Notification:.

<i>SNo.</i>	<i>Coy.No.</i>	<i>Name of Company</i>
1.	01-36423	ZEAGAN DRUGS PRIVATE LIMITED
2.	01-34457	NALANDA SUNVALLEY IMPEX PRIVATE LIMITED
3.	01-14146	ROOPAM EXPORTS PRIVATE LIMITED
4.	01-15935	SAAKSHI MINERALS & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
5.	01-30928	C.D.SYBERTECH PRIVATE LIMITED
6.	01-36670	SS TRADE & TAX CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
7.	01-16169	NAGAMANI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
8.	01-35718	ACTIVE POWER GENERATION PRIVATE LIMITED
9.	01-42279	ATHENAS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
10.	01-28223	SRIPATHI CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
11.	01-1470	BATCHU SUBBA ROW GENERAL TRADING CO PRIVATE LIMITED
12.	01-2836	POSEIDON CHEMICALS LIMITED
13.	01-21662	DJM FOODS PRIVATE LIMITED
14.	01-17500	KLN POWER LIMITED
15.	01-17760	STAR WINDTEK PRIVATE LIMITED
16.	01-28350	COASTAL COIRS (INDIA) PRIVATE LIMITED
17.	01-28101	WILSHIRE SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
18.	01-10471	AMULYA ESTATES PRIVATE LIMITED
19.	01-12429	ESSEN GRANITES PRIVATE LIMITED
20.	01-33391	PALM SPRINGS AGROTECH PRIVATE LIMITED
21.	01-9773	SRILAXMI POWER CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
22.	01-21648	SRILAKSHMI KRISHNA FINANCE LIMITED
23.	01-12586	DECAN PIPES AND TUBES PRIVATE LIMITED
24.	01-35173	QUICK SHARES PRIVATE LIMITED
25.	01-37997	R.R. TOWNSHIP PRIVATE LIMITED
26.	01-21718	RAVEENA PONDICHEM INDIA LIMITED
27.	01-10885	JAYA FANS AND APPLIANCES PRIVATE LIMITED
27.	01-9833	SOUTHERN INTEGRATED PROJECTS LIMITED
29.	01-9832	NAGARJUNA COMMERCIAL PROJECTS LIMITED
30.	01-11268	ARUNA PLASTICS PRIVATE LIMITED
31.	01-4017	UNI-TECH SALES PRIVATE LIMITED
32.	01-3622	SUCTION PLAST PRIVATE LIMITED

33	01-34697	INGRESS INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
34	01-31741	YELSAT SECURITIS PRIVATE LIMITED
35	01-5776	AGASTSYA ENGINEERS PRIVATE LIMITED
36	01-32853	VYSHNAVI COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
37	01-12600	NATRAJ GLASS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
38	01-29737	SRI HARSHA TRADING PRIVATE LIMITED
39	01-32400	T.R. IMPEX PRIVATE LIMITED
40	01-19138	EMSAN CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
41	01-2676	VEE-KAY REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
42	01-16944	RUKSAN AQUA PRIVATE LIMITED
43	01-32173	T S R I COMMERCE PRIVATE LIMITED
44	01-11266	PREEMPT STRATEGIC MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
45	01-4413	VIJAY BEARINGS AND ALLIED INDUSTRIES LIMITED
46	01-29213	PENNAR ALLUMINIUM CONDUCTORS LIMITED
47	01-32799	ALPINE COMPUTER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
48	01-40022	VIDYA E-DATA SERVICES PRIVATE LIMITED
49	01-32834	SHYAM SUNDER POWER PRIVATE LIMITED
50	01-30556	PEARL DIARY PRIVATE LIMITED
51	01-12428	FLYING HAWK SUSPENSIONS PRIVATE LIMITED
52	01-44025	SHIVAM TIMBER PRIVATE LIMITED
53	01-16677	B.S. LUXE AQUATECH PRIVATE LIMITED
54	01-28287	NIHR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
55	01-4239	RENUKA TEXTILE PROCESSORS LIMITED

HENRY RICHARD
Registrar of Companies
Andhra Pradesh

**

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Hyderabad, the 18 January 2008

No.RAP/SES-2005/560(5)/STA-II/ January 2008 — Notice is hereby given that pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

<i>S.No.</i>	<i>Coy.No.</i>	<i>Name of Company</i>
1.	01-19025	DHARIWAL MARKETING INDIA LIMITED
2.	01-15473	NAGAVALI PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
3.	01-18028	PITTIE LUBRICANTS PRIVATE LIMITED
4.	01-10701	MARUTHI FERRO ALLOYS LIMITED
5.	01-17113	R.K. POLYSACKS PRIVATE LIMITED
6.	01-16353	SAI LAKSHMI ESTATES PRIVATE LIMITED
7.	01-10074	INDUPURU VENKATA RAO AGENCIES PRIVATE LIMITED
8.	01-32470	TANGADA METALS PRIVTE LIMITED
9.	01-32233	SUWA SUPPLIMENTS PRIVATE LIMITED
10.	01-19601	SRAVYA TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
11.	01-15677	KAPIL CHEMICALS PRIVATE LIMITED
12.	01-20062	SWATHI FIBRES LIMITED
13.	01-22113	RIVERINE BIOTECH LIMITED
14.	01-22552	ACCESS MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
15.	01-20049	ASHWINI FIBRES LIMITED
16.	01-28352	TRAKANTHI CHITS PRIVATE LIMITED
17.	01-28496	TRYST ENGINEERING & FABRICATORS PRIVATE LIMITED
18.	01-23332	BATCO CARRIERS LIMITED
19.	01-4137	JAYA POLY ALLOYS PRIVATE LIMITED
20.	01-7639	KOLIN DEO STORES PRIVATE LIMITED
21.	01-41825	WINSHINE MULTITRADE PRIVATE LIMITED
22.	01-40133	RELIABLE MONOLITHICKS PRIVATE LIMITED
23.	01-6305	KARANTH MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED
24.	01-30796	M M K POWER PRIVATE LIMITED
25.	01-4819	TELENEWS PRIVATE LIMITED
26.	01-4690	PUSHPA PAPER BOARDS PRIVATE LIMITED
27.	01-4232	LJK MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
28.	01-4692	HARIDAS PLASTICS PRIVATE LIMITED
29.	01-38747	VALIVETI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
30.	01-33711	RANK MEDICA PRIVATE LIMITED
31.	01-12091	AD EXPRESSIONS MARKETING PRIVATE LIMITED
32.	01-1017	SRI GIRIRAJ ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
33.	01-17518	TRANSMINDS INFOTECH LIMITED
34.	01-17596	SMART FINANCIAL & INVETMENTS SERVICES PRIVATE LIMITED

35.	01-14396	PRANEET EXIM PRIVATE LIMITED
36.	01-10021	DAS PROGRESSIVE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
37.	01-34309	INSYS INTEGRATED SYSTEMS PRIVATE LIMITED
38.	01-30385	AVON BIO-TECH PRIVATE LIMITED
39.	01-31285	TRANS SEEDS PRIVATE LIMITED
40.	01-39326	SREEMATHA TELECOM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
41.	01-15425	JOY STAR INSULATIONS PRIVATE LIMITED
42.	01-22047	GOODEARTH LABS PRIVATE LIMITED
43.	01-33742	TELUGU TALKIES.COM PRIVATE LIMITED
44.	01-30325	SHIGOL EXPORTS PRIVATE LIMITED
45.	01-31967	SAMAIKYA INFOTECH PRIVATE LIMITED
46.	01-34936	e.BIOTECH LIMITED
47.	01-35050	NET STAT SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
48.	01-32202	COSINE ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
49.	01-28370	SRI SRINIVASA THEATRES PRIVATE LIMITED
50.	01-30568	DR. J.V.RAO PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
51.	01-10006	SRI LAKSHMI GANAPATHI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
52.	01-23844	SAI SEKHAR TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
53.	01-23953	PARIMALA AGENCIES PRIVATE LIMITED
54.	01-23952	KAMAREDDY MARKETING PRIVATE LIMITED
55.	01-28870	OSC AGRIGERM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
56.	01-15553	INDCOM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
57.	01-15213	WEIS TECHNICS PRIVATE LIMITED
58.	01-38125	MAHAYOGI LAKSHMAMMA POWER PRIVATE LIMITED
59.	01-15449	KAPILA FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
60.	01-20743	ICON SECURITIES LIMITED
61.	01-21553	CC NET INDIA PRIVATE LIMITED
62.	01-32949	KCK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
63.	01-16489	PREMIER MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
64.	01-32498	SRJ MEDISOFT PRIVATE LIMITED
65.	01-35331	HANUMAN GINNING PRIVATE LIMITED
66.	01-20405	SUPER SUPPLY AGENCIES PRIVATE LIMITED
67.	01-26611	SIBYL SUN TECHNOLOGIES LIMITED
68.	01-36350	UTTAM ANIMEDIA LIMITED
69.	01-8214	KM ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
70.	01-27686	DECCAN RECREATIONS LIMITED
71.	01-37935	DATAFORMIX IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
72.	01-21097	SILVER OAK ARCADE PRIVATE LIMITED
73.	01-20859	SRINIVASA FIBER ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
74.	01-35230	TAXILA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
75.	01-20516	INDIA PRIMESTOCK SCHOOL OF MANAGEMENT LIMITED
76.	01-35831	SINDHU POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
77.	01-35095	AUTOFIN IMPORT & EXPORT PRIVATE LIMITED
78.	01-10602	ASIAN MINERAL INDUSTRIES LIMITED
79.	01-13944	N.C.S. LABORATORIES PRIVATE LIMITED

80	01-11015	N.C.S. MOLASSES PRIVATE LIMITED
81.	01-38714	UNIVERSAL SUGAR ECHANGE LIMITED
82.	01-16156	SIMHAGIRI ESTATES PRIVATE LIMITED
83	01-15911	SRI LAKSHMI PARAMATHMA FINANCE AND DINVESTMENT PRIVATE LIMITED
84	01-6917	NOOR ENGINEERING CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
85	01-36087	DATAFORMIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
86	01-36739	VSM GENTING ISLANDS & ENTRTAINMENT LIMITED
87	01-38223	TRADITIONAL PHARMA LIMITED
88	01-38114	MALMAN MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
89	01-20702	SRI SETHA SAI LAKSHMI SRINIVASA FINANCE PRIVATE LIMITED
90	01-20111	TELANGANA OIL TECH PRIVATE LIMITED
91	01-31136	ANNAMAYYA RESORTS PRIVATE LIMITED
92	01-29971	SRIVIDYA TELESOFTE SERVICES PRIVATE LIMITED
93	01-29797	VIJAY INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED
94	01-38229	ANDHRA JYOTI ENTETAINMENT AND MEDIA PRIVATE LIMITED
95	01-35104	ANDHRA JYOTHI DOT COM PRIVATE LIMITED
96	01-22690	VIJAY BALAJI EXIM PRIVATE LIMITED
97	01-23330	SPRINGLAND EDUCATIONAL ACADEMY LIMITED
98	01-8779	SRI VASAVI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
99	01-41304	ARCEES ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
100	01-15204	BERKSHIRE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED

HENRY RICHARD
Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Krossline Exports Private Limited

Ernakulam-682 021, the 1st February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/Sec 560/2008/00150—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Krossline Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SREEKUMAR K.
Assistant Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies
Bangalore-560 034, the 25th January 2008

NO.ROCB/560(3)/TA/JK/CVS/2007

Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Companies Act, 1956 that on expiry of THREE MONTHS from the date hereof, the names of the following 280 companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register maintained by this office and the said companies will be dissolved.

Sl. No.	Com. Reg. NO.	Name of the Company's
1	8472	SPARTEX SYSTEMS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
2	8479	S S DIREDDING AND RECLAMATION PRIVATE LIMITED
3	8480	AVVAS NIRMAN PRIVATE LIMITED
4	8497	PRAVINYA MEDICAL CENTRE PRIVATE LIMITED
5	8500	CENTURY LAMPS AND LIGHTING PRIVATE LIMITED
6	8502	TRIMICROBIT ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
7	8505	EVEREST AGENCIES PRIVATE LIMITED
8	8508	PEGASUS METAL PRIVATE LIMITED
9	8517	NITYA SURGICAL NURSING HOME PRIVATE LIMITED
10	8532	CAPRI POLYMIX PRIVATE LIMITED
11	8547	HIGHLAND GRANITES AND MONUMENTS PRIVATE LIMITED
12	8561	AAVISHKAR SERVICES PRIVATE LIMITED
13	8574	HALLEY TYRE CORDS PRIVATE LIMITED
14	8576	SANDUR ELECTRONICS AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
15	8582	PLASTOMETAL COMPONENTS PRIVATE LIMITED
16	8585	INTELECT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
17	8589	KARNATAKA ARMOUR TAPES PRIVATE LIMITED
18	8590	ROHINI LEATHER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
19	8581	P M S GRINITES PRIVATE LIMITED
20	8594	PANBROS ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
21	8595	NON-RESIDENT INDIANS HOUSING ASSOCIATION (KARANTAKA) PVT LIMITED
22	8596	PANCHAGANGA ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
23	8602	KPEE CASINGS PRIVATE LIMITED
24	8604	NATESAN'S GRANITES PRIVATE LIMITED
25	8605	RATHNAMAS MULTI SOFTS PRIVATE LIMITED
26	8623	AERONET TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
27	8626	SAAHIL BUILDERS PRIVATE LIMITED
28	8627	NILO AGENCIES PRIVATE LIMITED
29	8633	WAGLE FOODS PRIVATE LIMITED
30	8634	WAGLE METAL CAPS PRIVATE LIMITED
31	8635	BIDANUR DISTILLERS LIMITED
32	8641	SUKANDA SEA FOODS PRIVATE LIMITED
33	8642	VENU STONE AND CEMENT PRODUCTS PRIVATE LIMITED
34	8647	PANCHAPPA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
35	8654	SHANTHANBHARATH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
36	8857	BLUE STEEL COMPUTER AND SOFTWARE PRIVATE LIMITED
37	8663	KARNATAKA DEHYDRATES LIMITED
38	8664	STALLION BOREWELLS PRIVATE LIMITED
39	8600	CHATVIK STAMPINGS PRIVATE LIMITED
40	8706	SRITHIK TECH PRIVATE LIMITED
41	8672	J V M EXPORTS PRIVATE LIMITED
42	8676	WENTZ LEWIS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
43	8677	PATODIA WATCHES AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
44	8680	R S PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
45	9682	SUMANGALA AGROFEEDS PRIVATE LIMITED
46	8688	KNIT WIT PRIVATE LIMITED

47	8692	FLORA SILKS PRIVATE LIMITED
48	8694	KHUBCHANDANI PLASTICS PRIVATE LIMITED
49	8707	MICKAY FOODS PRIVATE LIMITED
50	8718	HALADY CLAYS PRIVATE LIMITED
51	8728	KEELERY PAINTS PRIVATE LIMITED
52	8737	ASSOCIATED HYDRAULIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
53	8738	FERROM ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
54	8744	NORTH SOUTH MANAGEMENT AND COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
55	8747	SRI AND SRI FABRICATORS PRIVATE LIMITED
56	8751	PAI COFFEE EXPORTS PRIVATE LIMITED
57	8761	K J LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
58	8764	SIDDESWAR CHEMICALS PRIVATE LIMITED
59	8766	DELTA DATA MANAGEMENT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
60	8679	RUCHIRA DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
61	8768	NANDI VENEERS PRIVATE LIMITED
62	8772	CROWN BUILDERS PRIVATE LIMITED
63	8773	MICRO STAR COMPUTER CENTRE AND BUSINESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
64	8776	COLTON TILES PRIVATE LIMITED
65	8778	RIGHT BRICKS PRIVATE LIMITED
66	8779	KODAGU DISTILLERIES PRIVATE LIMITED
67	8783	LAASYA TRAVELS PRIVATE LIMITED
68	8786	KARNATAKA HOSPITALS PRIVATE LIMITED
69	8789	SANKARA SUKUMARA MOTOR PRIVATE LIMITED
70	8792	UNITED DIGITAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
71	8793	BHAGYALAKSHMI HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
72	8794	BOOTS LEATHERS PRIVATE LIMITED
73	8796	GEMVIN LAMPS AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
74	8803	SURMED LABORATORIES PRIVATE LIMITED
75	8807	INDRATHAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
76	8814	STKES FRUITE AND VEGETABLES EXPORTS PRIVATE LIMITED
77	8821	STARLING SACHELS PRIVATE LIMITED
78	8833	SHEFA SHAGA KHANDSARI PRIVATE LIMITED
79	8839	AL-AMEEN ELECTRO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
80	8785	YAJAMAN BUILDERS PRIVATE LIMITED
81	8844	GIGANTEX SALES PRIVATE LIMITED
82	8854	SPARR COMPRESSORS PRIVATE LIMITED
83	8857	CLASS TOOL FABRICATORS PRIVATE LIMITED
84	8864	GAYATHRI SALES SYNDICATE PRIVATE LIMITED
85	8866	BHANU LOHA SHILPA PRIVATE LIMITED
86	8868	AVIVET BIOLOGICALS PRIVATE LIMITED
87	8870	CHITRA PRAKASHANA PRIVATE LIMITED
88	8871	ESKAY AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
89	8876	MONOFIX POLYKIMERS LIMITED
90	8877	MINI FOODS PRIVATE LIMITED
91	8880	SIVSONS DISTILLERIES PRIVATE LIMITED
92	8883	RAJU AND RAJU POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
93	8884	CHADURANGA PETROLIUMS PRIVATE LIMITED
94	8886	MEHMA OFFICE EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
95	8888	AVA EXPORTS PRIVATE LIMITED
96	8901	SCANORAMA CHEMICALS PRIVATE LIMITED

97	8910	SHREE MAHALSA CONTRAINERS PRIVATE LIMITED
98	8911	VEEKAY PLASTICS PRIVATE LIMITED
99	8919	SHAR FLOWTECH PRIVATE LIMITED
100	8928	HIGHWAY TUBES PRIVATE LIMITED
101	8934	MRIWAL TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
102	8937	SANGAM MOTORS PRIVATE LIMITED
103	8939	EMAYES PRECISION COMPONENTS PRIVATE LIMITED
104	8941	PROFICIENT TRAVEL COMPANY PRIVATE LIMITED
105	8943	HEGDE SPIZIAL PAPERS PRIVATE LIMITED
106	8944	TAURUS PHARMA PRIVATE LIMITED
107	8945	PEP CLOUSERS PRIVATE LIMITED
108	8947	FRAMELLABS PRIVATE LIMITED
109	8952	TANGENT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
110	8953	VINEELA DRUGS PRIVATE LIMITED
111	8954	GOVINDRAJ PROPERTY BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
112	8963	SHELL PETRO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
113	8966	SHIVARAM TILES PRIVATE LIMITED
114	8977	DUGAR PLASICS PRIVATE LIMITED
115	8983	ASK PROCESSORS AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
116	8985	SHAKTI CONSULTANTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
117	8987	AMMU DYECHEM PRIVATE LIMITED
118	8989	RAVI LAMPS PRIVATE LIMITED
119	8992	NATHAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
120	8993	ZENITH RUBBER GOODS MANUFACTURES PRIVATE LIMITED
121	8996	SURYAVANSHI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
122	9008	BON TEST FIXTURES PRIVATE LIMITED
123	9020	QUTUBMINAR TEA PRIVATE LIMITED
124	9022	SURYAMUKHI HOUSEHOLD STORES PRIVATE LIMITED
125	9023	VEDA NEWS PRIVATE LIMITED
126	9030	MALNAD FASTNERS PRIVATE LIMITED
127	9035	MASSAK MARKETING PRIVATE LIMITED
128	9040	KATHA PRAKASHANA PRIVATE LIMITED
129	9047	KAMALA DIAMONDS PRIVATE LIMITED
130	9056	MASCOT MARKETING PRIVATE LIMITED
131	9057	AGRO LIVESTOCK PUBLISHING COMPANY PRIVATE LIMITED
132	9059	NEW DEAL MARKETING AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
133	9063	ANNE LEASING LIMITED
134	9066	PRAGATHI FERROALLOYS PRIVATE LIMITED
135	9071	HI-TECH INSULATIONS PRIVATE LIMITED
136	9078	LOHIT OIL EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED
137	9079	QUARTECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
138	9082	VARNIT HOUSES PRIVATE LIMITED
139	9085	COMSTA FORMS PRIVATE LIMITED
140	9086	DELUX FINER RUBBERS COMPANY PRIVATE LIMITED
141	9090	R AND N APARTMENTS PRIVATE LIMITED
142	9093	BHAGYALAKSHMI SUGARS PRIVATE LIMITED
143	9097	LINDEN PROCESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
144	9098	SALAGRAMA CHEMICALS PRIVATE LIMITED

145	9100	CYPRE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
146	9101	MAHESH INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
147	9107	VIKSUN GLASS BOTTLE MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
148	9108	BHIMSEN DRUGS PRIVATE LIMITED
149	9111	LAND MARK BUILDERS PRIVATE LIMITED
150	9115	TENSIL GLASS WORKS PRIVATE LIMITED
151	9133	ROTSAN DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
152	9139	SCAMB POLY LIMITED
153	9142	RCS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
154	9158	ASHU ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
155	9161	FORTUNE SPORTWEAR LIMITED
156	9164	NALANDA PHARMACEUTICALS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
157	9689	VAJRATA EXPORTS PRIVATE LIMITED
158	9176	ABINAV PROMOTERS (BANGALORE) PRIVATE LIMITED
159	9197	RAMYA RESIDENCES PRIVATE LIMITED
160	9198	SUGAMA SOLVENT OILS PRIVATE LIMITED
161	9202	CHANAKYHA COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
162	9217	S S PLASTICS PRIVATE LIMITED
163	9220	AKSHAR FOODS PRIVATE LIMITED
164	9173	SHIVASHAKTI INDUSTRIAL POWER COMPANY PRIVATE LIMITED
165	9221	N U GUILDERS PRIVATE LIMITED
166	9222	PERFECTO PROD AIDS PRIVATE LIMITED
167	9228	SUPERSTAR CHEMICALS PRIVATE LIMITED
168	9237	OASIS DESSERTS AND RELISHES PRIVATE LIMITED
169	9241	SHANKAR KUPPULUNGS TECHNIK PRIVATE LIMITED
170	9247	RURAL INTEGRATD TELECOM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
171	9239	SILICON COMPUTERS PRIVATE LIMITED
172	9246	NEOTECH BRICKS PRIVATE LIMITED
173	9248	SWATHI VIDEO LIMITED
174	9253	RAGHU HOUSING DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
175	9255	EXCIMER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
176	9256	MANJULA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
177	9259	CHINNAPPA EXPORTS PRIVATE LIMITED
178	9260	DYNAM PACKAGING ENGINEERS PRIVATE LIMITED
179	9261	JK ELMASSTOOLS PRIVATE LIMITED
180	9268	BHASKAR SELECTIVE SERVICES PRIVATE LIMITED
181	9271	NAVRANG MINERALS AND STONE COMPANY LIMITED
182	9277	SIXER FOODS PRIVATE LIMITED
183	9278	CAPRI SALES PRIVATE LIMITED
184	9280	KARAVALI SOFT DRINKS PRIVATE LIMITED
185	9282	SANKHLA PHARMACEUTICALS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
186	9285	GREAT AGRI-CON EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
187	9287	SCHUHMANN SHOE COMPANY PRIVATE LIMITED
188	9294	BELAGODU AND MENON PACKS PRIVATE LIMITED
189	9295	COLONIAL PRECAST PRODUCTS PRIVATE LIMITED
190	9298	BANGALORE POWER GENERATION COMPANY LIMITED
191	9300	TROPICAL TREATS PRIVATE LIMITED
192	9304	HI TECH HYDRO HALON SYSTEMS PRIVATE LIMITED
193	9312	HEBBR SURGICAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED

194	9303	HOBBS ADVERTISING PRIVATE LIMITED
195	9314	MANDLIA COLOUR LABS PRIVATE LIMITED
196	9315	WILDERNESS TOURS AND RESORS PRIVATE LIMITED
197	9316	TANYO ENGINEERS PRIVATE LIMITED
198	9320	A V S BUILDERS PRIVATE LIMITED
199	9321	GREENFIELD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
200	9322	MEENAKSHI HOUSES AND FLATS PRIVATE LIMITED
201	9324	SARA EXIM KPRIVATE LIMITED
202	9333	JALA JOTHI MARITIME SERVICES PRIVATE LIMITED
203	9335	T T ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
204	9346	J P OXALATES PRIVATE LIMITED
205	9347	MARVEL APPLIANCES PRIVATE LIMITED
206	9359	TRIVENI CATTLE FEEDS PRIVATE LIMITED
207	9353	ALEX FLAKES PRIVATE LIMITED
208	9360	SUPREME ELECTRONICS AIDS PRIVATE LIMITED
209	9381	BURHAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
210	9362	FLUXWELD ELECTRODES PRIVATE LIMITED
211	9382	PRESTOP PEST ERADICATORS PRIVATE LIMITED
212	9384	MAHARANI ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
213	9389	SCATCH CHEMICALS PRIVATE LIMITED
214	9397	TUSHAR ALUMINIUM PRIVATE LIMITED
215	9406	MODERN SOURA SHAKTI PRIVATE LIMITED
216	9411	KADAMBA BUILDERS PRIVATE LIMITED
217	9412	NAVAMARG MARKETING PRIVATE LIMITED
218	9416	M K CYLINDERS PRIVATE LIMITED
219	9428	SRI RAGHAVENDRA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
220	9417	ALPHA WIRE SALES PRIVATE LIMITED
221	9430	MALHAR MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
222	9431	MALHAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
223	9433	SERA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
224	9450	DYNALITE PACK PRIVATE LIMITED
225	9451	MANASA INTERQUEST PRIVATE LIMITED
226	9458	SANA TOURISM AND HOUSING DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
227	9460	ANDIRONS MARKETING AND ADVERTISING NETWORK PRIVATE LIMITED
228	9466	ESWARI CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
229	9474	SRI AMARESHWARA CHEMICAL PRIVATE LIMITED
230	9481	ACCORD MARKETING PRIVATE LIMITED
231	9485	CITY GALVANIZERS PRIVATE LIMITED
232	9489	MALLIGE MANSIONS OWNERS COMPANY PRIVATE LIMITED
233	9496	MAMTA CHAMICALS PRIVATE LIMITED
234	9501	SHRI BIOMEDICAL LABS PRIVATE LIMITED
235	9503	DECCAN MINING COMPANY PRIVATE LIMITED
236	9504	MALAPREBHA FEEDS PRIVATE LIMITED
237	9497	MAK CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
238	9506	SRI RAM DISTILLERIES PRIVATE LIMITED
239	9509	ZENITH BLOCKS PRIVATE LIMITED
240	9517	ALKOLITE ELECTERS PRIVATE LIMITED
241	9518	BETA MINERALS PRIVATE LIMITED
242	9525	BENIKSHO CONSTRUCTION EQUIPMENT PRIVATE LIMITED

243	9526	BYTE-RYTE COMPUSERVE PRIVATE LIMITED
244	9531	PRAM SOFTWARE SCIENCES PRIVATE LIMITED
245	9532	SASA FARFAX PRIVATE LIMITED
246	9533	GYAN COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
247	9539	URVIMARKETING PRIVATE LIMITED
248	9542	DAYSTAR COMPUTER CENTRE PRIVATE LIMITED
249	9551	FAMA ARECA-NUT MARKETING MEDIA PRIVATE LIMITED
250	9554	JARINS EXIM PRIVATE LIMITED
251	9556	MONOFIX PACKAGING PRIVATE LIMITED
252	9558	SMARK QUARTZ PRIVATE LIMITED
253	9565	RADHA RAMALINGAM LEATHER BOARD PRIVATE LIMITED
254	9573	SRI SATYASAI AGRO OIL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
255	9571	SASTRY INFADS PRIVATE LIMITED
256	9575	BANGALORE POWER CONTROLS PRIVATE LIMITED
257	9576	KALIMATA WATCH STRAPS PRIVATE LIMITED
258	9586	JENUKAL CONSTITUTION COMPANY PRIVATE LIMITED
259	9588	ROSHINI LEATHERS PRIVATE LIMITED
260	9594	LAKSHMI PACKWELL PRIVATE LIMITED
261	9591	MARUTHI GOLD STAR TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
262	9599	SAJJA SILKS PRIVATE LIMITED
263	9602	KAGOSHIMA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
264	9604	STYLE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
265	9620	DEVATHA HOTELS PRIVATE LIMITED
266	9625	PRAJNA RUBBER FOOTWEAR PRIVATE LIMITED
267	9627	TRIUNION IMPEX PRIVATE LIMITED
268	9642	AJANTA CHAMBER BRICKS PRIVATE LIMITED
269	9643	BELGAUM MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED
270	9649	TOY PLAN PRIVATE LIMITED
271	9653	S S MACRO-LINKS PRIVATE LIMITED
272	9654	MONOFIX AGRO PRODUCTS LIMITED
273	9655	RMP BUILDERS PRIVATE LIMITED
274	9662	SHUKRA BREWELLS PRIVATE LIMITED
275	9664	MAGNAFLEX ENGINEERING PRIVATE LIMITED
276	9668	B M GENE-TEC PRIVATE LIMITED
277	9678	AMYLON CHEMICALS PRIVATE LIMITED
278	9681	PEACE HOMERS PRIVATE LIMITED
279	9686	MEGA TROMECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
280	9688	PRATHIMATEX SPECIALISTS PRIVATE LIMITED

C V SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies
Bangalore-560 034, the 29th January 2008

No. ROCB/AROC (CVS)/560(5)/Suo-Moto/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved.

Sl. No.	Com. Reg. NO.	Name of the Company's
1	6816	MODERN WOOD EXPORTERS PRIVATE LIMITED
2	6844	SHAN- KIN ELECTONICS PRIVATE LIMITED
3	6890	N A C MARKETING PRIVATE LIMITED
4	6891	CHARLES RIVER ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
5	6888	SHRI MILAN CEMENTS PRIVATE LIMITED
6	6885	THE FOREST CONSTRUCTORS AND TIMBERS MERCANTS ASSOICATION LTD
7	6886	SRI SIDDHAGANGA GINNING AND OIL PRIVATE LIMITED
8	6867	VAMANA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
9	6862	GLOBAL BUILDERS PRIVATE LIMITED
10	6887	MADHAVI DRUGS PRIVATE LIMITED
11	6851	AMALTASHA PHARMACEUTICALS AND FINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
12	6849	BACKER AND BACKERS PRIVATE LIMITED
13	6815	FABKNITS PRIVATE LIMITED
14	6820	MARUTHI GLASS INDUSTRY PRIVATE LIMITED
15	6834	KAS STEEL PRIVATE LIMITED
16	6844	SHAN-KIN ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
17	6940	D G ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
18	6926	VANALOY INFOTECH PRIVATE LIMITED
19	6922	IMPLAST PRIVATE LIMITED
20	6906	INDAL MARKETING PRIVATE LIMITED
21	6972	SIGA CHROMOCHEM PRIVATE LIMITED
22	6963	SRI NEONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
23	6952	ESKAY MACHINERY MANUFACTURES PRIVATE LIMITED
24	6898	PRI-SRING SHELL CAST PRIVATE LIMITED
25	6998	MACADAM BRICS AND ATILES PRODUCTS PRIVATE LIMITED
26	6982	ALINO REMEDIES PRIVATE LIMITED
27	6981	KADAMBARI WIRE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
28	6979	UNITED VITRITE PRIVATE LIMITED
29	7004	MARIE CURIE PHARMA PRIVATE LIMITED
30	7005	WINCHEM PHARMA PRIVATE LIMITED
31	7006	BELGAUM HOUSING COMPANY PRIVATE LIMITED
32	7009	VINAYAKA DAIRY FARM PIVATE LIMITED
33	7028	VQUSUFF SAFETY GLASS WORKS PRIVATE LIMITED
34	7038	ESSPEE POLYMERS PRIVATE LIMITED
35	7087	KAY VEE PLASTICS PRIVATE LIMITED
36	7088	SWATHI PLASTICS PRIVATE LIMITED
37	7094	ASMIR NACHINERIES AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
38	7082	AKA PLASTICS PRIVATE LIMITED
39	7079	MODERN OLEORESINS PRIVATE LIMITED
40	7077	QUICK PACE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
41	7073	MARUTI CLAY PRODUCTS PRIVATE LIMITED

42	7069	PATIL PLSTICS PRIVATE LIMITED
43	7120	KARNATAKA POLYSTER LIMITED
44	7115	IND PLOY PACK AND GRANITES PRIVATE LIMITED
45	7113	BANGALORE MACHINES PRIVATE LIMITED
46	7106	AD-DAYYAN ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
47	7046	BANGALORE ROTOMAC PRIVATE LIMITED
48	7129	NANDINI FOODS PRIVATE LIMITED
49	7158	KARNATAKA BRICK AND TILES PRIVATE LIMITED
50	7153	KAVITHA GRANITE PRIVATE LIMITED
51	7144	KONTEX ENGINEERS PRIVATE LIMITED
52	7141	BIRONIC PRIVATE LIMITED
53	7142	REFLEX HOLDIANG COMPANY PRIVATE LIMITED
54	7172	RANGWALL PAINTS PRIVATE LIMITED
55	7227	VERTEX HEAVY ENGINEERING PRIVATE LIMITED
56	7220	SRIPAVAN LABORATORIES PRIVATE LIMITED
57	7207	SIRUGEEPPA CEMENTS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
58	7208	VANILILAS MINING COMPANY LIMITED
59	7190	SANTOSH AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
60	7182	SURYODAYA PUBLISHERS AND PRINTERS PRIVATE LIMITED
61	7245	AIRFLOW CONTROL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
62	7238	IDA SECURITY PRIVATE LIMITED
63	7236	SRI RAJARAJESHWARI DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
64	7233	HOTEL COURMENT PRIVATE LIMITED
65	7235	KARNATAKA METCON PRIVATE LIMITED
66	7298	DAS ELIABLE SEEDS PRIVATE LIMITED
67	7295	CEEYAL BEVRAGIES PRIVATE LIMITED
68	7290	SREE VISHVAMUBRA EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
69	7286	KAAYAINATH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
70	7277	CHANDRA MOULEAWARA HOTELS PRIVATE LIMITED
71	7278	KAMADHENU AND KALPAVRUKSHA STEEL TRADERS PRIVATE LIMITED
72	7253	GANESH MINERALS PRIVATE LIMITED
73	7346	PARAG MACHINERY PRIVATE LIMITED
74	7351	SHRI VANI GINNING AND PROCESSING PRIVATE LIMITED
75	7353	KINGSTONS PEAL RYTHEIEM COMMUNICATION PIVATE LIMITED
76	7331	BANGALORE CARGO MOVERS PRIVATE LIMITED
77	7324	SRI ABIRAMI POLYSACKS PRIVATE LIMITED
78	7325	NIDIA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
79	7318	BLUE BOT ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
80	7314	K P FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
81	7324	SOFINE TRAVELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
82	7398	DELTA AMIT FLAVOURS (INDIA) PRIVATE LIMITED
83	7394	VASU GRANIIES PIVATE LIMITED
84	7397	SANS FIBRES PRIVATE LIMITED
85	7369	PRALO CAPMARS PRIVATE LIMITED

86	7368	SREE SARVAMANGALA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
87	7377	BRIND-AVAN FEEDS PRIVATE LIMITED
88	7413	MARUTI MINERALS AND SILICATES PRIVATE LIMITED
89	7254	MENTA HI-SACKS PRIVATE LIMITED

C V SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore-560 034, the 30th January 2008

No. ROCB/AROC (CVS)/560(5)/Suo-Moto/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved.

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	28865	Sunre Software Solutions Pvt. Ltd.,
2.	7428	Shirlal Leasing And Hire Purchase Co., Pvt. Ltd.,
3.	7422	Chinivaar Engineering Enterprises Pvt. Ltd.,
4.	7417	Shimoga Sugars Pvt. Ltd.,
5.	7414	Marvel Computers Pvt. Ltd
6.	7731	Channagiri Cotton Ginning and Pressing Mills Pvt. Ltd.,
7.	7439	Sairo Coconut Products (India) Limited
8.	7443	Mulgund Fastners Pvt. Ltd.,
9.	7464	Ashwareethi Leasing Ltd
10.	7727	Naveen Wood Decors Pvt. Ltd.,
11.	7430	Pra-Das Management Services Pvt. Ltd
12.	7498	Cideo Films Limited
13.	7483	Bilal Trading Co., Pvt. Ltd.,
14.	7481	Dattathreya Hill Plants Pvt. Ltd.,
15.	7476	Asshaya Electrical Services Pvt. Ltd.,
16.	7474	Sri Mookambika Silk Kendra Pvt. Ltd.,
17.	7473	Chaitanya Housing and Land Developers Pvt. Ltd.,
18.	7469	Sanketa Plastics Pvt., Ltd.,
19.	7468	Vipra Publications Limited
20.	7503	Smartech Systems Pvt. Ltd.,
21.	7513	Quadra Filing Systems Pvt. Ltd.,
22.	7514	Rajasimha Housing Co., Pvt. Ltd.,
23.	7769	Khoba Chemicals and Synthetics Pvt. Ltd.,
24.	7524	Hostess Dehydrators Food Processors Pvt. Ltd.,
25.	7517	Bhargava Bharadwaj Plastics Pvt. Ltd.,
26.	7527	Tetra Marketing Pvt. Ltd.,

27.	7530	Kamath Ice Factory Pvt. Ltd.,
28.	7534	Boston Industrial Services Limited
29.	7539	Mahalakshmi Granites Pvt. Ltd.,
30.	7515	V N K Engineering Products Pvt. Ltd.,
31.	7502	Vishakha Electricals Pvt. Ltd.,
32.	7571	Nu-Melwares Pvt. Ltd.,
33.	7576	Cliffs Consultants Pvt. Ltd.,
34.	7582	Trinity Business Systems Pvt. Ltd.,
35.	7590	Brooks Hotels Pvt. Ltd.,
36.	7593	Sati Distributor Pvt. Ltd.,
37.	7594	Mulgund Yarn Processors Pvt. Ltd.,
38.	7597	Menon Farms (India) Limited
39.	7599	Premedics Pvt. Ltd.,
40.	7604	KWR Alloycast Pvt. Ltd.,
41.	7607	Shree Controls and Switchgases Pvt. Ltd.,
42.	7609	Guru Raghavendra Packaging Pvt., Ltd.,
43.	7540	Sura Marketing Pvt. Ltd.,
44.	7541	Winsome Electricals Pvt. Ltd.,
45.	7544	Textile (India) Pvt. Ltd.,
46.	7551	Bhaskar Fabrications Pvt. Ltd.,
47.	7552	Bhaskar Elastomers Pvt. Ltd.,
48.	7554	Trimex Packaging Pvt. Ltd.,
49.	7557	STV Engineering Pvt. Ltd.,
50.	7567	Kentec Consultants Pvt. Ltd.,
51.	7569	Namkeen Foods Pvt. Ltd.,
52.	7553	Bhaskar Stampings Pvt. Ltd.,
53.	7555	Deepa Seeds Pvt. Ltd.,
54.	7610	R N Sales Pvt. Ltd.,
55.	7616	Varshi Engineering Pvt. Ltd.
56.	7622	Manipal Cashew Company Pvt., Ltd.,
57.	7623	Bhavani Barium Products (India) Pvt. Ltd.,
58.	7627	Pampa Printing Works Pvt. Ltd.,
59.	7529	Three Enn Electronics Pvt. Ltd.,
60.	7631	Bomkar Engineering Pvt. Ltd.,
61.	7635	Smart Food Products Pvt., Ltd.,
62.	7653	Mikado Leasing Pvt. Ltd.,
63.	7654	Deccan Plywoods Pvt. Ltd.,
64.	7659	Mangalore Springs Limited
65.	7667	Tropical Imex Pvt., Ltd.,
66.	7673	Mayura Granites Pvt. Ltd.,
67.	7678	Techno Innovations Pvt. Ltd.,
68.	7679	Shivam Refineries Pvt. Ltd.,
69.	7684	Still Rubber Products Ltd.,
70.	7687	Quasales Pvt. Ltd.,
71.	34369	Zircon Infratech Solutions Pvt. Ltd.,

72.	7688	Virasri Machine Builders Pvt. Ltd.,
73.	7694	J F K Shoes Pvt. Ltd.,
74.	7693	Rizvan Electronics Pvt. Ltd.,
75.	7718	Hamtool Drill Systems Pvt. Ltd.,
76.	7720	Climax Air Conditioners Pvt. Ltd.,
77.	7722	Nayn Woolen Textiles Pvt. Ltd.,
78.	7725	Comet Plastics Pvt. Ltd.,
79.	7728	Vinayaka Auto Services Pvt. Ltd.,
80.	7732	Matsu Instruments Pvt. Ltd.,
81.	7733	Trident Pharmaceuticals and Diagnostics Ltd.,
82.	7741	Depti Fast Foods Pvt. Ltd.,
83.	7745	Bumper Shoe Co., Pvt. Ltd.,
84.	7748	Sathya Deburring Equipments Pvt. Ltd.,
85.	7753	S S Printers and Publishers Pvt. Ltd.,
86.	7764	Blist O Pack Pvt. Ltd.,
87.	7767	Man-Jog Services Limited
88.	7768	Thodar Chemicals Pvt. Ltd.,

C V SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 31st January 2008

No. KA/560(3) 2007-

NOTICE is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of THREE MONTHS from the date hereof the name of the following companies mentioned herein below. Unless cause is shown to the contrary, be struck off from the Register and company will be dissolved.

Sl. No.	Company Number	Name of the Company
1	24785	HARDALOY HEAT ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2	24657	SHRISHAIL NANDI FINANCE PRIVATE LIMITED
3	26702	PANCHA RATHNA SOFTEK PRIVATE LIMITED
4	24684	SICRAFTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
5	24666	KARAN CONSULTING PRIVATE LIMITED
6	24662	ABHINETRI ILLAM PRIVATE LIMITED
7	25751	PREMIER HATCHERIES PRIVATE LIMITED
8	24606	SILENT ENGINEERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
9	24619	SINKLARE APPAREL PRIVATE LIMITED
10	25740	BITSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
11	26692	POWERAGE INFOS TECH PRIVATE LIMITED
12	25779	LAWN MOWERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
13	24840	PERFECT ALLOY COMPONENTS EXPORTS PRIVATE LIMITED
14	26043	QUADRA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
15	24960	IQ INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
16	24946	NAROTHAM SECURITIES PRIVATE LIMITED
17	25063	WESTOWN (INDIA) PRIVATE LIMITED
18	25339	ALLOVEDIC NATAURALS PRIVATE LIMITED
19	25121	S.M.RAM SOFT TECH PRIVATE LIMITED
20	25606	WIND FARM HIRE PURCHASE AND LEASING PRIVATE LIMITED
21	25141	FOUNTAINHEAD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
22	25165	INFOPRISM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
23	25304	S.V. FASHIONS PRIVATE LIMITED
24	25333	.RAMAIAH SONS CONVENTION CENTRE PRIVATE LIMITED

C V SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

60-46692/07

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore-560 034, the 31st January 2008

No. ROCB/AROC (CVS)/560(5)/Suo-Moto/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved.

Sl. No.	Com. Reg. NO.	Name of the Company's
1	7770	MIPS COMPUTERS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2	7772	CAR LINKS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
3	7777	KANOBIND PRIVATE LIMITED
4	7779	ROLWOR PRODUCTS AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
5	7783	JAN ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
6	7787	GAJANANA TEXTILE PRIVATE LIMITED
7	7790	LEENA ENGINEERING PRODUCTS PRIVATE LIMITED
8	7791	EGALITE FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
9	7793	THIRUMALA PLASTIC STABILISERS PRIVATE LIMITED
10	7798	MAK ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
11	7802	VENUS RADIATORS PRIVATE LIMITED
12	7803	SHREE VARALAKSHMI TILES PRIVATE LIMITED
13	7806	ODYSEY COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
14	7778	PREMIER APPARELS PRIVATE LIMITED
15	7907	PHILRAE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
16	7808	DACS TELEOLOGICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
17	7813	VIJAYA PIGMENTS PRIVATE LIMITED
18	7820	SHIBHA ELECTRIC COMPANY PRIVATE LIMITED
19	7821	EGALITE CULTURED MARBLES PRIVATE LIMITED
20	7822	PROTECH SYNTHETICS AND POLYMERS PRIVATE LIMITED
21	7824	J S CORDS PRIVATE LIMITED
22	7831	WEST LAND AND DRESSING PRIVATE LIMITED
23	7840	BROWN FOODS PRIVATE LIMITED
24	7842	MAGNUM HOTELS PRIVATE LIMITED
25	7843	JAYANTHI BUILDERS PRIVATE LIMITED
26	7845	BENTOCAB CHEMICALS PRIVATE LIMITED
27	7819	SHASH EXPORTERS PRIVATE LIMITED
28	7837	SNASH EXPORTERS PRIVATE LIMITED
29	7850	PACKWELL CARTONS PRIVATE LIMITED
30	7928	K T GREEN AGGREGATES PRIVATE LIMITED
31	7920	FRATAP POLYPACKS PRIVATE LIMITED
32	7925	SPAN INFORMATION PRIVATE LIMITED
33	7929	D D MEDICAL DEVICES PRIVATE LIMITED
34	7939	CHITINIS PRECISIONS PRIVATE LIMITED
35	7940	JIC TRADERS PRIVATE LIMITED
36	7942	KYA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
37	7945	SALAJI DEEPWELL PUMPS PRIVATE LIMITED
38	7950	SONA GRANITES PRIVATE LIMITED

39	7960	INTRA DIFFUSION ADVERTISING PRIVATE LIMITED
40	7961	JMT LIGHTS PRIVATE LIMITED
41	7963	CITY PAINTS PRIVATE LIMITED
42	7964	G V SALES PRIVATE LIMITED
43	7956	GURURUPA ESTATES PRIVATE LIMITED
44	7967	INSU LAMINATES PRIVATE LIMITED
45	7974	TECHNOPATTEERNS AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
46	7982	SUPERB APPLIANCE PRIVATE LIMITED
47	7983	MASCOT INDUSTRIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
48	7987	SINGIRI PULVERISERS PRIVATE LIMITED
49	7973	OLYMPIA GASS APPLIANCES COMPANY PRIVATE LIMITED
50	7853	ACE PACK CONTAINERS PRIVATE LIMITED
51	7859	KARUNA FARMS PRIVATE LIMITED
52	7867	FARIR FIELD COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
53	7874	PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
54	7873	CHANDRA BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
55	7875	SOLVOCHEM PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
56	7895	EMKAY ELECTRODES PRIVATE LIMITED
57	7896	GULBARGA WIRE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
58	7912	NANDA WIRES PRIVATE LIMITED
59	7913	DSA FIBRE REINFORCED COMPOSITES PRIVATE LIMITED
60	7702	H M K PROPERTIES PRIVATE LIMITED
61	7715	CONSOLIDATED CEMENTS COMPANY PRIVATE LIMITED
62	7998	BHAWANI POLYMER PRIVATE LIMITED
63	8006	NORAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
64	8018	SOWAMYA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
65	8027	WELGARD PACS PRIVATE LIMITED
66	8028	VITAMS FOODS PRIVATE LIMITED
67	8030	MANDAKINI CHITRA PRIVATE LIMITED
68	8032	SAVIK VIJAI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
69	8033	GOOYA TISSUES PRIVATE LIMITED
70	8037	MICRO ENGERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
71	8042	RAJ RAJESWARI HOUSING LIMITED
72	8050	SUYOG DEVELOPMENT AND LEASING PRIVATE LIMITED
73	8052	PRIME MOVERS PROJECTS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
74	8053	TRIBOL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
75	8057	MICROTEL COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
76	8060	SHERRY FISHERIES PRIVATE LIMITED
77	8019	KARNATAKA COIR COMPLEX PRIVATE LIMITED
78	7999	SRI GURUKRUPA MINERALS PRIVATE LIMITED
79	8067	SURYASHARATHI PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
80	8045	SURGIMENTS PRIVATE LIMITED
81	8070	SHASTA COMPUTRONICS PRIVATE LIMITED
82	8071	AVROHN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

83	8073	PULKESHI HOTELS PRIVATE LIMITED
84	8076	ARJAY EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
85	8078	RAMGONS ENGINEERING PRIVATE LIMITED
86	8080	MAYUS STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
87	8068	VINITHA ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
88	8083	FUSION ADVERTISING AND MARKETING PRIVATE LIMITED
89	8084	MARUTHI LAMPS PRIVATE LIMITED
90	8085	PYTHAGORAS INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
91	8086	RAJYA TILES AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
92	8091	ARAVINDA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
93	8104	SEALRIGHT PACKS PRIVATE LIMITED
94	8105	OLIVA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
95	8107	PHOENIX CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
96	8111	KAUSHALESH MIRAYAT PRIVATE LIMITED
97	8112	MYSORE BRINDAVAN STEEL PRIVATE LIMITED
98	8094	MANAGEMENTWELL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
99	8064	MINAR CEMENTS LIMITED

C V SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 31st January 2008

NO. SUO-MOTO/560(5)/KM/2007-08

Notice is hereby given pursuant to Sub-section(5) OF Section 560 of the companies Act, 1956, that the names of following companies have this day been struck off from the Registrar of Companies and the said companies shall stand dissolved on the publication of this notice in the Official Gazette.

<u>SLNO.</u>	<u>CO.NO.</u>	<u>NAME OF THE COMPANY</u>
01	20044	MARKET VISION INDIA PRIVATE LIMITED
02)	20072	D.D.PROJECTS PRIVATE LIMITED
03)	20082	ENSEMBLE PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
04	20113	SRI PIPES (INDIA) PRIVATE LIMITED
05)	20117	JRS HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
06)	20121	SURYADEV PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
07)	20145	PARADIGM SOFTWARE PRIVATE LIMITED
08)	20148	MIDAS LEATHERS PRIVATE LIMITED
09)	20150	VARUN PLYWOOD PRIVATE LIMITED
10)	20151	RESHMA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
11)	20163	AVRO ESTATES AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
12)	20229	FORTUNE REALTORS PRIVATE LIMITED
13)	20242	SREE SATHYA SAIRAM HOTELS PRIVATE LIMITED
14)	20246	LEXTON DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
15)	20252	EAGLE HUNTER DETECTIVE (BANGALORE) PRIVATE LIMITED
16)	20253	SPADE DEVELOPERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
17)	20288	GIRILOKA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

C V SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 31st January 2008

NO. SUO-MOTO/560 (5) /KM/2007-08

Notice is hereby given pursuant to Sub-section(5) OF Section 560 of the companies Act, 1956, that the names of following companies have this day been struck off from the Registrar of Companies and the said companies shall stand dissolved on the publication of this notice in the Official Gazette.

<u>SLNO.</u>	<u>CO.NO.</u>	<u>NAME OF THE COMPANY</u>
01)	22027	AMLAS VACATION CLUB (INDIA) PRIVATE LIMITED
02)	22064	GERAB OIL FIELD SUPPLIES PRIVATE LIMITED
03)	22083	EMERALD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
04)	22085	IMPERIAL HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
05)	22106	INTUITIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
06)	22109	FLOW LINE AUTOMATION PRIVATE LIMITED
07)	23711	R.H.AGROTECH PRIVATE LIMITED
08)	22155	CHEMIND EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
09)	22174	MYSORE VASTHUSHILPA BUILDERS PRIVATE LIMITED
10)	22175	RISHI VALLEY FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
11)	22197	OJASI SOFTWARES PRIVATE LIMITED
12)	22208	STERLING AGRO FARMS AND ESTATES PRIVATE LIMITED
13)	22221	ANNAPOORNESWARI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
14)	22228	DYNAMIC ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
15)	22236	TAWAKKAL CRUSHING COMPANY PRIVATE LIMITED
16)	22238	V.G.L. ENGINEERING AND CO. PRIVATE LIMITED
17)	22254	BASAVESHWAR POLYTHENE BAGS PRIVATE LIMITED
18)	22257	MANJUNATH POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
19)	22265	BENNET EXPORTS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
20)	22282	DAFFODIL AGRITECH PRIVATE LIMITED
21)	22283	BUDS AGRITECH PRIVATE LIMITED
22)	22284	FLORIS MEADOWS AND FARMS PRIVATE LIMITED
23)	22318	BANGALORE INFOTECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
24)	22361	KANISHKA COFFEE COMPANY PRIVATE LIMITED

25)	22412	OLIMPIA LUXURY RESORTS VENTURE PRIVATE LIMITED
26)	22418	KANAL MARKETING PRIVATE LIMITED
27)	22431	MEADOWS INFOTECH PRIVATE LIMITED
28)	22433	PADMAVATHI PARADISE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
29)	22456	SAI KIRAN PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
30)	22470	BRONCO ANDCRUISE TRAV-AIDES PRIVATE LIMITED
31)	22481	ARYA RESORT AND FARM PRIVATE LIMITED
32)	22483	SUDHA SILK PRIVATE LIMITED
33)	22524	S.S.MACHINERIES MARKETING PRIVATE LIMITED
34)	22556	ROZ-EN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
35)	22589	NISARGA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
36)	22633	S.V WATER PARKS AND COTTAGES PRIVATE LIMITED
37)	22641	ROOFSCAPE PLASTICS PRIVATE LIMITED
38)	22669	VENT AXIA CONSUMER APPLIANCES PRIVATE LIMITED
39)	22681	NITYA HARDWARE MANUFACTURING AND SOFTWARE PRIVATE
40)	22690	FUNIN ADVENTURE TOURS PRIVATE LIMITED
41)	22694	HILTI MICRO INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
42)	22699	SURYA PRABHA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
43)	22703	ECOTEL SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
44)	22753	TELMACO ELECTRIC PRIVATE LIMITED
45)	22766	SUN SOLVEX PRIVATE LIMITED
46)	22785	FINECAST ALLOYS PRIVATE LIMITED
47)	22805	MANAGES SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
48)	22812	SRIGURU RAGHAVENDRA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
49)	22816	SURYA ADVTECH INDIA PRIVATE LIMITED
50)	22833	CAUVERY PARCEL SERVICES PRIVATE LIMITED
51)	22839	SUNOVA AGRO PRIVATE LIMITED
52)	22851	ANUSHA COMPUTERS AND SOFTWARE DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED

53)	22867	PLUS SYSTEM AND INFINITE INFORMATION PRIVATE LIMITED
54)	22880	BALAJI GRANITES PRIVATE LIMITED
55)	22890	VIS MEDICATRIX NATURAE FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
56)	22893	SYSOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
57)	22899	SRI VEERESWARA GINNING AND PRESSING FACTORY PRIVATE LIMITED
58)	22901	SURVESH ROADWAYS PRIVATE LIMITED
59)	2922	INFORTEC SOFTWARE PRIVATE LIMITED
60)	22933	UGOWE EXPORTS PRIVATE LIMITED
61)	22967	SRINI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
62)	22992	OM SAI FLOROTECH (I) PRIVATE LIMITED
63)	23047	VISHWADEEP MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
64)	23050	HAYAMUKHA PLANTS AND EXTRACTS PRIVATE LIMITED
65)	23053	FOUR DIMENSION TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
66)	23064	ACE EXPOSITIONS PRIVATE LIMITED
67)	23066	ROOPASHREE FLOROTECH PRIVATE LIMITED
68)	23068	FOCUS BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
69)	23077	INDEX STOCKS AND SHARES PRIVATE LIMITED
70)	23094	PORTSBRIDGE EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
71)	23107	SUPERNOVA SERVICES PRIVATE LIMITED
72)	23108	GEC POWER COMPANY OF KUDREMUKH INDIA PRIVATE LIMITED
73)	23132	APARAJITHA ENTELPPOWER PRIVATE LIMITED
74)	23150	KOREN MOLEN ENGINEERING PRIVATE LIMITED
75)	23157	SEETHARAM EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED
76)	23173	EMMAR COMMUNICATIONS AND ELECTRONIC SERVICES PRIVATE LIMITED
77)	23185	S.B.R. RICE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
78)	23199	MENON TAKEOVER COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
79)	23216	RKH RIGHT CARE PRIVATE LIMITED
80)	23220	CYBERSTAR PROJECTS PRIVATE LIMITED

81)	23227	SANKRANTI AGRO SEEDS PRIVATE LIMITED
82)	23247	SANKALP COMFORTS AND HOMES INDIA PRIVATE LIMITED
83)	23265	SARVARE KAUNAIN TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
84)	23293	SINIUS INTERIORS PRIVATE LIMITED
85)	23356	GREEN MEADOWS HOME RESORTS PRIVATE LIMITED
86)	23357	PRAGATHI CORRUGATED BOXES PRIVATE LIMITED
87)	23379	CHIA HOTELS PRIVATE LIMITED
88)	23404	HAWK AIR PRIVATE LIMITED
89)	23406	SAPTHAGIRI HOLIDAYS RESORTS PRIVATE LIMITED
90)	23420	PONNI EXPRESS LINES PRIVATE LIMITED
91)	23424	GREENGLORY IMPCEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
92)	23427	S R S METALS PRIVATE LIMITED
93)	23433	GRAFX SPECTRUM PRIVATE LIMITED
94)	23446	FRONTLINE COMMUNICATIONS AND CONSTRUCTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
95)	23448	ZAP MULTIMEDIA PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
96)	23451	RANSSASEAN IMPEX PRIVATE LIMITED
97)	23453	S. ANKIREDDY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
98)	23465	PROMATIC ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
99)	23492	ORBIT RING TRAVELLERS PRIVATE LIMITED
100)	23534	ARUNA JYOTHI IMPEX PRIVATE LIMITED
101)	23538	VIBA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
102)	23542	KOHLER LAKSHMI POWER SERVICES PRIVATE LIMITED
103)	23585	PRAMEELA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
104)	23635	LEISURELY VACATIONS PRIVATE LIMITED
105)	23640	PADMA PET BOTTLES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
106)	23648	TCF COMMERCIAL AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
107)	23657	VIJAYALAKSHMI RECOVERY AGENTS PRIVATE LIMITED
108)	23670	CELOX BATTERIES PRIVATE LIMITED

109)	23684	VISHAL HOSPITAL PRIVATE LIMITED
110)	23685	DEVATHA PACKAGING PRIVATE LIMITED
111)	23686	ACHAR PAINTS INDIA PRIVATE LIMITED
112)	23692	KONKAN KOSTAL LINES PRIVATE LIMITED
113)	23696	WINSOM CONSTECH PRIVATE LIMITED

C V SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 31st January 2008.

NOTIFICATION NO. SUO-MOTO/560(5)/KM/2007-08

Notice is hereby given pursuant to Sub-section(5) OF Section 560 of the companies Act, 1956, that the names of following companies have this day been struck off from the Registrar of Companies and the said companies shall stand dissolved on the publication of this notice in the Official Gazette.

<u>SLNO.</u>	<u>CO.NO.</u>	<u>NAME OF THE COMPANY</u>
1)	23714	BEARYSON EXPORTS PRIVATE LIMITED
2)	23742	C P H BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3)	23746	COFFEE KODAGU EXPORTS PRIVATE LIMITED
4)	23750	UNIPRO POWER COMPANY PRIVATE LIMITED
5)	23751	PRO-TECHNOLOGY ENERGY COMPANY (BANGALORE) PVT LTD
6)	23756	ANU RECOVERY AGENTS PRIVATE LIMITED
7)	23758	IVORY SOLVENT EXTRACTIONS AND OIL REFINERIES (P) LTD.
8)	23779	FORTUNE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
9)	23786	ROSHNI MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
10)	23794	VYASA BEACH RESORTS PRIVATE LIMITED
11)	23798	HARIHARA MOTORS PRIVATE LIMITED
12)	23818	AJWA CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
13)	23819	COFFEE PARADISE PRIVATE LIMITED
14)	23843	UNITED BRIQUETTES PRIVATE LIMITED
15)	23856	SUNRISE COACHES PRIVATE LIMITED
16)	23877	MYSON TRADING AND MARKETING PRIVATE LIMITED
17)	23891	GRADEN CITY PIZZA RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
18)	23917	SABCO ENGINEERS (BANGALORE) PRIVATE LIMITED
19)	23928	SREE PAADA RESORTS PRIVATE LIMITED
20)	23949	BYAHATTI FARMS PRIVATE LIMITED
21)	23979	PROSOFT COMPUTERS PRIVATE LIMITED
22)	23980	SHARIKA CYBERSPACE PRIVATE LIMITED
23)	24027	INDRAPRASTHA PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED

24)	24029	CHIRONINFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
25)	24041	GEO ROCK MINING PRIVATE LIMITED
26)	24042	ADVANTA SYSTEMS (BANGALORE) PRIVATE LIMITED
27)	24050	XANADU HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
28)	24056	HOLY RESORTS PRIVATE LIMITED
29)	24064	S.R.C. TRANSPORT PRIVATE LIMITED
30)	24075	SAMRUN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
31)	24085	CUSTOMERS IMAGE MARKETING LINK PRIVATE LIMITED
32)	24087	PARTHI SAI KIRAN OIL INDIA PRIVATE LIMITED
33)	24090	KNOX SOFTWARE PRIVATE LIMITED
34)	24108	RAJIV STONE EXPORTS PRIVATE LIMITED
35)	24124	SANATHA FASHIONS PRIVATE LIMITED
36)	24127	SHRI KALPATHARU HOME CONS PRIVATE LIMITED
37)	24146	KISHKINDA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
38)	24165	V-TECH LASER AND PUNCHING PRIVATE LIMITED
39)	24175	ELIXIR HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
40)	24201	ADONI SPINNING AND WEAVING CO PRIVATE LIMITED
41)	24214	HASSAN WOOD AND PLYWOOD PRIVATE LIMITED
42)	24218	SADAF INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
43)	24222	SINGAPUR AGRO TECH PRIVATE LIMITED
44)	24226	SAHANA AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
45)	24230	SREE HANUMAN RECOVERY AGENTS PRIVATE LIMITED
46)	24232	BELGAUM AGRO PLANTATION PRIVATE LIMITED
47)	24292	OXFORD EXPORTS PRIVATE LIMITED
48)	24315	L.N.N.G.J. POULTRY FARM PRIVATE LIMITED
49)	24328	CONCORDE INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
50)	24337	SERVODYNE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
51)	24344	MICHEAL AG-MECH PRIVATE LIMITED

52)	24358	EMPIRE EXIM PRIVATE LIMITED
53)	24373	SURAKSHA SERVICES (GOKAK) PRIVATE LIMITED
54)	24375	DB SOFT (INDIA) PRIVATE LIMITED
55)	24381	ADCON IMPEX PRIVATE LIMITED
56)	24418	SAVVY TOTAL MOBILE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
57)	24434	DRAVYA PRODUCT PRIVATE LIMITED
58)	24436	MANASA GRANITES PRIVATE LIMITED
59)	24459	BEISM EXPORTS PRIVATE LIMITED
60)	24472	AAIN ESTATES AND RESORTS PRIVATE LIMITED
61)	24486	INFOMA TECH PRIVATE LIMITED
62)	24507	SUGARCANE PLANTERS CLUB AND RESORTS PRIVATE LTD
63)	24509	ALTRA CONDUCTORS PRIVATE LIMITED
64)	24511	KALPAVRIKSHA DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
65)	24512	CASTOR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
66)	24534	GROUPGEAR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
67)	24540	OM SRI CHAMUNDESHWARI POULTRY FARM PRIVATE LIMITED
68)	24550	UMA AROMATICS PRIVATE LIMITED
69)	24552	NAGARJUNA BUILDTECH PRIVATE LIMITED
70)	24568	THAKUR RE-ROLLING AND STEEL INDUSTRIES PRIVATE LTD
71)	24587	SHANKARSON URJA PRIVATE LIMITED
72)	24599	SHASHU FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
73)	24602	SANS AND PETES INFOTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
74)	24607	CAPSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
75)	24608	REPRO COLOUR SCAN PRIVATE LIMITED
76)	24627	SAHANAS IMPEX PRIVATE LIMITED
77)	24639	QUALITY SOFTEL PRIVATE LIMITED
78)	24648	J.S.R. RECOVERY AGENTS PRIVATE LIMITED
79)	24660	RADHIKA SOMANA COFFEE ESTATES PRIVATE LIMITED

80)	24663	OORJITHA EXIM PRIVATE LIMITED
81)	24664	DONTY MARKETING PRIVATE LIMITED
82)	24694	MARK PERIPHERALS PRIVATE LIMITED
83)	24703	GEO CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
84)	24708	CLUB ICE PRIVATE LIMITED
85)	24711	US UNIGAS PRIVATE LIMITED
86)	24714	SURMI TOURS AND TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
87)	24752	GIRIKANYA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
88)	24762	DIVINE MEDICINES (INDIA) PRIVATE LIMITED
89)	24768	YELLOWLINE DIESELS PRIVATE LIMITED
90)	24804	INFOPRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
91)	24808	SHRESTA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
92)	24819	AAN INTERIORS AND FURNISHERS PRIVATE LIMITED
93)	24824	VRKSH WEB DESIGNS PRIVATE LIMITED
94)	24830	TRADEMAKERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
95)	24834	ADIN CONCEPTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
96)	24844	COPROX INTERNATIONAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
97)	24877	PARVATHI KRUPA SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED. (NBFC)
98)	24881	OMNICO CONCEPTS PRIVATE LIMITED
99)	24887	INTERACTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
100)	24913	ABACUS TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
101)	24919	BEST TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
102)	24923	PRUDINTEL PROJECTS PRIVATE LIMITED
103)	24929	SRI BHAGYALAKSHMI MARKETING PRIVATE LIMITED
104)	24936	EAST WEST WINES PRIVATE LIMITED
105)	24957	HIGHLIGHT ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
106)	24958	SURATEC ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
107)	24965	KAMAL INSECT CONTROL SYSTEMS PRIVATE LIMITED

108)	24985	WESTERN GHAT AYURVEDIC PHARMA LABS PRIVATE LIMITED
109)	24990	SIERRATRONIC (INDIA) PRIVATE LIMITED
110)	25019	BLACK FOREST HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
111)	23752	UNIQUE ENERGY COMPANY PRIVATE LIMITED

C V SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Bangalore, the 4th February 2008

No. ROCB/AROC (CVS)/560(5)/Suo-Moto/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved.

1	5003	SUNRISE APARTMENTS PRIVATE LIMITED
2	5025	EMMAARJAY PROPERTY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3	5027	P AND J COMMUTATION DEVICES PRIVATE LIMITED
4	5028	K.M. ALLOY AND STEELS PRIVATE LIMITED
5	5031	SYNDICATE ENGINEERING INDUSTRIES PVT LIMITED
6	5036	REMACON RESOURCE MANAGEMENT CONSULTANTS PVT. LTD.,
7	5037	DAAGA TECTILE PROCESSORS PRIVATE LIMITED
8	5040	M.S. FASTERS PRIVATE LIMITED
9	5042	FREEZE FAST PRIVATE LIMITED
10	5064	K N D FOUNDRIES PRIVATE LIMITED
11	5071	SONA ABRASIVES PRIVATE LIMITED
12	5087	ASHOKA FRUITS PRIVATE LIMITED
13	5092	H.M. TILES PRIVATE LIMITED
14	5097	INSAT ELECTRONICS INDUSTRIES LIMITED
15	5104	BANDEKAR ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
16	5105	MADHAVI BUILDERS PRIVATE LIMITED
17	5126	SKANDA GRANITE PRIVATE LIMITED
18	5135	AL-YYAM TRAVELS AND ALLIED AGENCIES PRIVATE LIMITED
19	5145	NITYA SARVAMANGALA TRADING AND ALLIED AGENCIES PRIVATE LIMITED
20	5159	CHOPRA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
21	5160	ROYAL EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
22	5169	SPECIALITY TEA SERVICES PRIVATE LIMITED
23	5171	CATERAIDS (INDIA) PRIVATE LIMITED
24	5184	ELECTRO POWER INSULATORS PRIVATE LIMITED
25	5217	AL-AMIN TRADERS PRIVATE LIMITED
26	5123	ROHINI STRACH AND ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
27	5223	SUN-VALLEY CEMENTS PRIVATE LIMITED
28	5224	BONSTON LEASING (INDIA) LIMITED
29	5225	AJAY AND AMIT MARKETING PRIVATE LIMITED
30	5226	RASTAPUR ANAND HOTELS PRIVATE LIMITED
31	5227	SOMAPPA GINNING AND OIL MILLS PRIVATE LIMITED
32	5236	PRASAD CASHEW PRODUCTS PRIVATE LIMITED
33	5250	20 TH CENTURY PRINTS PRIVATE LIMITED
34	5256	M. KANNU CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
35	5318	BANGALORE OFFSET PRINTERS PRIVATE LIMITED
36	5314	YUMMY O CONECTIONERIES AND ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
37	5303	MAHAVEERA GRANITE PRIVATE LIMITED
38	5295	GAYATHRI TEXTILES SILK MILLS PRIVATE LIMITED

39	5294	SURI ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
40	5275	REGAL MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED
41	5261	BELBRO CEMENTS PRIVATE LIMITED
42	5275	VANDANA TRAVELS PRIVATE LIMITED
43	5264	RASTRIYA TRANSPORT (INDIA) PRIVATE LIMITED
44	5395	KETAK CARRIERS PRIVATE LIMITED
45	5277	ASSOCIATED ARCHITECH AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
46	5272	PUSALKAR ENGINEERS PRIVATE LIMITED
47	5362	GUBBI VEERANNA BRICKS AND TILES COMPANY PRIVATE LIMITED
48	5259	S.V.S. FOOD INDUSTRY PRIVATE LIMITED
49	5254	KASHYAP BATTERIES PRIVATE LIMITED
50	5352	INDO-JAP CERAMICS PRIVATE LIMITED
51	5348	RAJITA BANDHU BOX WELLS PRIVATE LIMITED
52	5343	SWARNA PRECISION PRODUCTS PRIVATE LIMITED
53	5330	PERFECT DRIVES PRIVATE LIMITED
54	5451	PROREX (INDIA) PRIVATE LIMITED
55	5469	MICAM PRIVATE LIMITED
56	5470	GIGI ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
57	5411	TWENTY FIRST CENTURY NOAH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
58	5416	VITTAL FRUITS CANNING PRIVATE LIMITED
59	5426	ANUGRAHA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
60	5434	ANNAPOORNA MARKETING AND TRADING AGENCIES PRIVATE LIMITED
61	5439	AAPEKSHA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
62	5480	POWER LINE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
63	5483	ADLIB PRIVATE LIMITED
64	5476	MAA ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
65	5475	KANNADA CEMENTS COMPANY PRIVATE LIMITED
66	5493	RAJDHANI CABLES AND CONCRETE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
67	5516	VCMS PRIVATE LIMITED
68	5510	D.G.N. PRESSINGS PRIVATE LIMITED
69	5502	BANDM P5IVATE LIMITED
70	5597	KAVITA DIALS PRIVATE LIMITED
71	5600	COMPU TEK SOFTWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
72	5547	POINEER EXTRACTIONS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
73	5557	MULBAGAL CEMENTS PRIVATE LIMITED
74	5545	MEDICAL DIAGNASTIC RESEARCH LABORATORIES PRIVATE LIMITED
75	5534	SISASI HOTESLS PRIVATE LIMITED
76	5533	HARYANA PUNJAB ROADWAYS PRIVATE LIMITED
77	5521	NEW DELUX DOUBLERS PRIVATE LIMITED
78	5651	DINET (INDIA) PRIVATE LIMITED
79	5661	JAI BHAVANI SILK MILLS PRIVATE LIMITED
80	5648	MATHUR KHANDASARI SUGARS PRIVATE LIMITED
81	5645	SILVER BULLET MOTOR CYCLE SPORTS SHOW COMPANY PRIVATE LIMITED
82	5628	JADAM ENTERPRISE PRIVATE LIMITED

83	5624	ADARSHA TOOLS PRIVATE LIMITED
84	5625	DEV.PERFUMES PRIVATE LIMITED
85	5619	DEO PAX PRIVATE LIMITED
86	5601	KARANA GAS CYLINDERS AND ALLIED INDUSTRY PRIVATE LIMITED
87	5609	RENU TOOLS PRIVATE LIMITED
88	5757	CHITRA MINERALS PRIVATE LIMITED
89	5755	RAJVANSHI CONSTRUCTIONS AND AGENCIES PRIVATE LIMITED
90	5723	ROOMMAN INSULATIONS PRIVATE LIMITED
91	5685	UNHODAYA MACHINE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
92	5676	SAMIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
93	5665	ENJAY STEELS PRIVATE LIMITED
94	5709	ADARSH AUTO WORKSHOP PRIVATE LIMITED
95	5714	MULTI PRINT PROCESS INDUSTRY PRIVATE LIMITED
96	5720	NEEGSON PRIVATE LIMITED
97	8424	SOUTHERN STAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
98	5583	KEMTRODE PRIVATE LIMITED
99	5449	DEEMASU SILKS PRIVATE LIMITED
100	5544	BRIGHT ENGINEERING COMPONENTS PRIVATE LIMITED
101	5758	CHITRA CEMENTS PRIVATE LIMITED
102	5770	BYTE (INDIA) PRIVATE LIMITED
103	5778	KAMADHENU TRADERS PRIVATE LIMITED
104	5779	NATH AND NATH ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
105	5785	CITIZEN REFINERIES PRIVATE LIMITED
106	5788	SAHYADRI CEMENTS PRIVATE LIMITED
107	5718	POLYEPOXIDE SYSTEMS AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
108	5761	KARNATAKA AUTO COMPONENTS PRIVATE LIMITED
109	5867	MAHALAKSHMI MOTORS PRIVATE LIMITED
110	5870	MANDHYA MINERALS PRIVATE LIMITED
111	5863	BELGAUM COMPUTOR SERVICES PRIVATE LIMITED
112	5864	TRAVEL KARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
113	5862	ASSOCIATED WELDMETS PRIVATE LIMITED
114	5854	GOVINDAPPA WOOLLEN INDUSTRY PRIVATE LIMITED
115	5796	RAMAKRISHNA DAAL MILLS PRIVATE LIMITED
116	5815	CITRA JEWELLERS PRIVATE LIMITED
117	5915	POURNAMEE ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
118	5917	MUDRA GRAPHICS PRIVATE LIMITED
119	5920	FARBENDRUCK PRIVATE LIMITED
120	5921	AKSHAYA MUDRAN PRIVATE LIMITED
121	5834	VENKATESWARA PIPES MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
122	5835	WELDARC PRIVATE LIMITED
123	5838	AUROLITE PRIVATE LIMITED
124	5827	ROOPA METALS PRIVATE LIMITED
125	5923	DEEP PRESSURE VESSELS (KARNATAKA) PRIVATE LIMITED
126	5839	INTEGRATED CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED

127	5856	SRINDHI SILK PRIVATE LIMITED
128	5868	SUTALIYA STEELS PRIVATE LIMITED
129	5855	RATHNA CANNED FOODS PRIVATE LIMITED
130	5930	PHOENIX CASTINGS LIMITED
131	5913	MONA PRIVATE LIMITED
132	5907	WALLIA NEESHIMOTO PRIVATE LIMITED
133	5926	GRUHALAKSHMI HOUSING COMPANY PRIVATE LIMITED
134	5904	SRI PULAKESHI CEMENTS PRIVATE LIMITED
135	5890	METROPOLE HOUSING DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
136	5899	SRI BANASHANKARI LEASING COMPANY LIMITED
137	5975	PAXAL LEASING LIMITED
138	5965	HEXAPEST CONTROL PRIVATE LIMITED
139	6000	MANJU MINERAL WORKS PRIVATE LIMITED
140	6004	BANDARY FOOTWEAR PRIVATE LIMITED
141	5995	SHRI DHUVANESHWARI HOTELS PRIVATE LIMITED
142	5992	RAJAN PIPES PRIVATE LIMITED
143	5937	PANORAMA ADVERTISING AND MARKETING PRIVATE LIMITED
144	5945	RAICHUR ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
145	5949	VENTURE SERVICES PRIVATE LIMITED
146	5968	CIRCULAR SACKS (KARANTAKA) PRIVATE LIMITED
147	6013	PARAS AUTO AGENCIES PRIVATE LIMITED
148	6044	BANU STEEL PRIVATE LIMITED
149	6059	CHEM-O-FLELUR PRIVATE LIMITED
150	6056	MAX POWER ACCUMULATORS PRIVATE LIMITED
151	6075	V-WON FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
152	6088	NARMADA MARKETING AND AGENCIES PRIVATE LIMITED
153	6087	BIDAR PRESSURE VESSELS PRIVATE LIMITED
154	6057	MARBLE INDUSTRY (MANGALORE) PRIVATE LIMITED
155	6085	JORD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
156	6080	CARTIC APPARELS PRIVATE LIMITED
157	6078	ASIA GRAPHICS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
158	6121	WINDSOR CONSTRUCTIONS AND TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
159	6138	ESMES INDUSTRIAL PLASTICS PRIVATE LIMITED
160	6107	K C P F FERRO CONCRETE PRIVATE LIMITED
161	6111	ADLANRDS OILS AND CHEMICALS LIMITED
162	6097	BENAKA PAPERS BOARDS MILLS PRIVATE LIMITED
163	6096	KINGSTONS PEARL PACKAGING PRIVATE LIMITED
164	6154	WESTERN REFINERIES PRIVATE LIMITED
165	6155	INTERNATIONAL SHOCK ABSORBERS LIMITED
166	6142	VINAY ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
167	6029	GREEN LEAVES ORGANICS PRIVATE LIMITED
168	6082	MAN-JOG LEASING AND HIRE PURCHASE COMPANY PRIVATE LIMITED
169	6161	DYNA FOODS PRIVATE LIMITED
170	6164	LIBRA LINKS (INDIA) PRIVATE LIMITED

171	6173	AJIT CYLINDERS PRIVATE LIMITED
172	6185	ARSLAN MASS CAN MACHINES PRIVATE LIMITED
173	6212	G K OIL MILLS AND REFINERIES PRIVATE LIMITED
174	6211	KAMMAR CHEMICALS INDUSTRY PRIVATE LIMITED
175	6192	CHARAGANI LIMITED
176	6215	BUMBER DAIRY FARM PRIVATE LIMITED
177	6219	AG-FO FUELS PRIVATE LIMITED
178	6220	SRI KRISHNA TECHNOCRAFT PRIVATE LIMITED
179	5871	PIJAY EXPORTERS AND REALTORS PRIVATE LIMITED
180	6239	UNIT PLYWOOD INDUSTRY PRIVATE LIMITED
181	6268	DIETS (INDIA) PRIVATE LIMITED
182	6229	BANGALORE CONSULTING GROUP PRIVATE LIMITED
183	6244	CYTOZYME SALES (KARANTAKA) PRIVATE LIMITED
184	6246	GAYATHRI REFINERIES PRIVATE LIMITED
185	6249	SHARAVATI MOTELS PRIVATE LIMITED
186	6251	MARUTHI SI PRIVATE LIMITED
187	6266	BOILERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
188	6274	HOYSALA THERMO FORMERS PRIVATE LIMITED
189	6287	ESSGVEE CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
190	6283	SNOWWHITE DETERGENTS PRIVATE LIMITED
191	6393	KEONICS SHANTI MICRO ELECTRONICS LIMITED
192	6389	MAURYA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
193	6391	PENTAGON SALES PRIVATE LIMITED
194	6325	JUPITER RESOURCE ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
195	6300	NTA PRIVATE LIMITED
196	6298	M J S GRANTIES PRIVATE LIMITED
197	6294	VISWANJANEYA LEASING PRIVATE LIMITED
198	9154	EMPOWER CONTROL SYSTEM PRIVATE LIMITED
199	6361	ALIF FISHERIES AND REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
200	6346	MARUTI ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
201	6437	ASS AGRO FORMS PRIVATE LIMITED
202	6417	ALIF MINING AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
203	6425	SUPRA FABRI TOOLS PRIVATE LIMITED
204	6426	SURESH COLOUR LABS PRIVATE LIMITED
205	6423	VIVEKANAND MINERALS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
206	6422	BANGALORE HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
207	6445	ROSE HILL TEXTILES PRIVATE LIMITED
208	6428	WELTRY REMEDIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
209	6468	BANGALORE TOUGHGLASS PRIVATE LIMITED
210	6509	MYSORE ROCK MILLS PRIVATE LIMITED
211	6479	C.R.ENGINEERING AND CASTINGS PRIVATE LIMITED
212	6494	HOYSALA PRIYA DARSHINI ESTATES PRIVATE LIMITED
213	6498	BOR-BORA CEMENTS PRIVATE LIMITED
214	6525	BJS SOLNEX PRIVATE LIMITED

215	6523	POORVAJA MERCANTILE PRIVATE LIMITED
216	6519	MODERN TRADING PRIVATE LIMITED
217	6442	TRIPTI MARKETING PRIVATE LIMITED
218	6510	PAMPASAR CHEMICALS PRIVATE LIMITED
219	6478	GOLDEN COSMETICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
220	6464	EURO PLASTS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
221	6461	METRO BANGALORE BRICK WORKS PRIVATE LIMITED
222	6414	SREE GNYANAXHI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
223	6552	ASIA PREFABS PRIVATE LIMITED
224	6546	MALLUR-TECHNO MANAGERIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
225	6544	GULBARGA FULLERS EASRTH PRIVATE LIMITED
226	6554	ARMOUR PRIVATE LIMITED
227	6557	AGRO COLDSTORAGE AND MARKETING PRIVATE LIMITED
228	6573	ROAD CARRIERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
229	6571	GREAT WORTH ELECTRIC ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
230	6567	SKARG STEELS PRIVATE LIMITED
231	6605	SUPER GALAXY DRUGS PRIVATE LIMITED
232	6603	ROTISS INDIA PRIVATE LIMITED
233	6620	ERIN PLASTICS PRIVATE LIMITED
234	6563	JHANI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
235	6607	LIB-CHEM PRIVATE LIMITED
236	6606	P C SERVICES PRIVATE LIMITED
237	6619	MOMECHN POLYFABPRIVATE LIMITED
238	6614	MODERN TECHNICALS SHOES PRIVATE LIMITED
239	6581	CONSLIDATED TRANSMISSIONS PRIVATE LIMITED
240	6601	G.P. HOLDINGS PRIVATE LIMITED
241	6721	AARJAY ALUMINIUM PRIVATE LIMITED
242	6650	JAYSHREE TRAVELS PRIVATE LIMITED
243	6626	RUBY CEMENTS INDUSTRY PRIVATE LIMIED
244	6638	SONY BICYCLES PRIVATE LIMITED
245	6645	AL-MEEN TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
246	6649	H SUBANNA AND SONS PRIVATE LIMITED
247	6676	TRICHUR FURNITURE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
248	6655	WORLDPAK AIR COURIER SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED
249	6714	ELEGANT BIOTECH PRIVATE LIMITED
250	6713	PRIME POLY PLAST INDUSTRY PRIVATE LIMITED
251	6733	AKASH AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
252	6727	ALPHA OMEGA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
253	6709	ELLARR EMICO (INIDA) PRIVATE LIMITED
254	6707	TRAUWOOD ENGINEERING (INDIA) PRIVATE LIMITED
255	6702	INTEL COMPUTRONICS PRIVATE LIMITED
256	6693	AURO CAP PRIVATE LIMITED
257	6691	BAKS ENGINEERS PRIVATE LIMITED
258	6808	S.S. COMPWARES PRIVATE LIMITED

259	6752	WELTEX ENGINEERS PRIVATE LIMITED
260	6764	IMPU RECORDINGS PRIVATE LIMITED
261	6755	LITHIC STONE AND MARBLES PRIVATE LIMITED
262	6750	P.L. ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
263	6744	HEMAVASHI PACKAGINGS PRIVATE LIMITED
264	6786	NIRLON-KARNATAKA SYNTHETIC FIBRES AND CHEMICALS LIMITED
265	6738	MICRO IMAGING TECHNOLOGIES LIMITED
266	6806	MYSORE CAPS AND CANS PRIVATE LIMITED
267	6849	BACKER AND BACKERS PRIVATE LIMITED
268	6851	AMAL TASHA PHARMACEUTICALS AND FINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
269	6834	KAS STEEL PRIVATE LIMITED
270	6815	FABKNITS PRIVATE LIMITED
271	6820	MARUTHI GLASS INDUSTRY PRIVATE LIMITED
272	5234	SAFECYL ENGINEERS PRIVATE LIMITED
273	8116	UNNATHI LEASING PRIVATE LIMITED
274	8121	KARNATAKA BIO-AMPS PRIVATE LIMITED
275	8136	PAL STEELS PRIVATE LIMITED
276	8140	SHARADA ELECTRODES PRIVATE LIMITED
277	8146	VIDYARTHI PAPER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
278	8145	MARCOT HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
279	8137	DE-MECH FABRICATORS PRIVATE LIMITED
280	8127	L A C PLATICS PRIVATE LIMITED
281	8142	TAILOR BIRD EXPORTS PRIVATE LIMITED
282	8141	GREEN WINDOW DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
283	11413	DIPSIM TRADERS PRIVATE LIMITED
284	34089	PRAKRUTHI VANILLA GROWERS PRIVATE LIMITED
285	32539	QUANTUM INFONET PRIVATE LIMITED
286	8149	BANGALORE ENCLVAE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
287	8153	MAGNA MARKETING PRIVATE LIMITED
288	8155	SEVAK ENGINEERING CONSULTANCY COMPANY PRIVATE LIMITED
289	8161	G S IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
290	8171	LORDVEN PHARMA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
291	8173	ANGUS TONES PRIVATE LIMITED
292	8174	SOWMYA PRINTERS AND PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
293	8179	ALOKA POLYPROUCTS PRIVATE LIMITED
294	8184	VIJLAYALAKSHMI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
295	8185	BHAKTA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
296	8187	CHOICE PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
297	8188	INDOMAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
298	8192	S V LITHO PRINT PACK PRIVATE LIMITED
299	8198	MIRZA ERECTORS PRIVATE LIMITED
300	8199	RAHAT STEELS PRIVATE LIMITED
301	8200	OMEGA FABRICATORS PRIVATE LIMITED
302	8201	ANSHU ENGINEERS PRIVATE LIMITED

303	8202	HIMANSHU ERECTORS PRIVATE LIMITED
304	8203	KANT CHEMICALS PRIVATE LIMITED
305	8165	ROSHINI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
306	8280	KARMAH FABRICATORS PRIVATE LIMITED
307	8275	SHALIMAR SUSPENSIONS PRIVATE LIMITED
308	8268	LAKHIA FABRICATORS PRIVATE LIMITED
309	8258	MYLAR ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
310	8274	NEOWAY ENGINEERS PRIVATE LIMITED
311	8256	VIKUL DYE-CASTING PRIVATE LIMITED
312	8204	AMAR JYOTHI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
313	8209	ROLWOR AD-MARK PRIVATE LIMITED
314	8218	ROCK-WELL HOUSING LIMITED
315	8219	OSCAR ENGINEERING PRIVATE LIMITED
316	8225	SATBIR MOVIES PRIVATE LIMITED
317	8227	FINETEK ENGINEERS PRIVATE LIMITED
318	8231	SAKURA HOROLOGICS PRIVATE LIMITED
319	8240	APPLIED INFORMATICS PRIVATE LIMITED
320	8243	DEAN AVIATION SERVICES PRIVATE LIMITED
321	8249	SNISH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
322	8250	ZODIAC ORGANICS PRIVATE LIMITED
323	8251	AAKOMA AGENCIES PRIVATE LIMITED
324	8281	LIN SECRETARIAL MANAGERIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
325	8282	NICON FABRICATORS PRIVATE LIMITED
326	8283	ELLIS STEELS PRIVATE LIMITED
327	8284	VIMPEX PHARMA PRIVATE LIMITED
328	8285	AKSHAYA CASHEW PRIVATE LIMITED
329	8289	KADCOM COMPUTER PRIVATE LIMITED
330	8290	RADIAL TUBES PRIVATE LIMITED
331	8295	MANDEV HOTELS AND COMPLEXES PRIVATE LIMITED
332	8296	CRYSTAL COLA AND CREAM PRIVATE LIMITED
333	8298	NAYAN STEELS PRIVATE LIMITED
334	8294	SUKUMACH PACKAGING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
335	8301	LAKSHADEEP TECHNOCRATS PRIVATE LIMITED
336	8302	MAULTIMOD FABRICATIONS PRIVATE LIMITED
337	8307	PRASANTH MINERALS EXPORT PRIVATE LIMITED
338	8312	KANICHAYI CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
339	8315	EMERALD TRAVELS AND TOURS PRIVATE LIMITED
340	8317	APEX COURIES SERVICES PRIVATE LIMITED
341	8320	RAO AND RAO ARCHITECTS ENGINEERS AND CONSTRUCTORS LIMITED
342	8322	MANNA FRUITS PRIVATE LIMITED
343	8323	SHISHIE QUALITY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
344	8326	M N FABRICATORS PRIVATE LIMITED
345	8329	VIKRAM MESWEAR PRIVATE LIMITED
346	8332	MASCOT BAKERIES PRIVATE LIMITED

347	8339	PRAJWAL PHARMA PRIVATE LIMITED
348	8343	BASAVESHWARA ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
349	8350	A A PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
350	8351	ESSEREL ELASTOMERS PRIVATE LIMITED
351	8344	SRI LINGESWARA PIPES PRIVATE LIMITED
352	8353	S K S OXYGEN PRIVATE LIMITED
353	8363	SWAGRUHA HOUSING LIMITED
354	8364	AGGIE SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
355	8369	ACCOST MACHINERY MANUFACTURES PRIVATE LIMITED
356	8370	RAJGIR STEELS PRIVATE LIMITED
357	8371	SUVESH INDUSTRIAL PLANTS PRIVATE LIMITED
358	8373	POINEER POLYFAB MILLS PRIVATE LIMITED
359	8375	SRI YADU MESAICS PRIVATE LIMITED
360	8376	SRI YADU GRANITES PRIVATE LIMITED
361	8386	AKASH PAINTS PRIVATE IMITED
362	8391	MALCHAR SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
363	8393	MALKANI RUBBER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
364	8398	DHARMESH CRANES PRIVATE LIMITED
365	8400	MA TECH FORGINGS PRIVATE LIMITED
366	8403	KALLIANPUR PEST CONTROL AND SERVICE PRIVATE LIMITED
367	8405	RCP TELECOMS PRIVATE LIMITED
368	8408	INTER PHASE CHEMICALS LIMITED
369	8409	MANIBHADRA ARGO PIPES PRIVATE LIMITED
370	8413	PLAMA POLYMERS PRIVATE LIMITED
371	8419	BHAVANI BOARDS PRIVATE LIMITED
372	8434	TRIDENT DISTILLERIES COMPANY PRIVATE LIMITED
373	8435	HIGH RANGE INN LIVING PRIVATE LIMITED
374	8438	NEWTEK BUILDAIDS PRIVATE LIMITED
375	8440	VAISHAK CONSTRUCTIONS AND STRUCTURES PRIVATE LIMITED
376	8412	PUSHPA CEMENTS PRIVATE LIMITED
377	8442	INLAND FOODS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
378	8445	CRARS MARKETING PRIVATE LIMITED
379	8448	SOUTHERN EXPORTERS AND TRADERS PRIVATE LIMITED
380	8451	MALAHAR TRAVEL PRIVATE LIMITED
381	8453	VIPRA MANUFACTURING AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
382	8461	NISHA KIRAN PRIVATE LIMITED
383	8463	VIPDIN PAINTS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED

C V SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 7th February 2008

No. KA/560(3) 2007—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies mentioned herein below, unless cause is shown to the contrary, be struck off from the Register and the Company will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	24474	M/s. Kundodhari Chits Private Limited
2.	24353	M/s. Figleaves Clothing Private Limited
3.	24320	M/s. Sriguru Properties (India) Private Limited
4.	24319	M/s. Frontline Automobiles Private Limited
5.	24280	M/s. Hanupya Chits Private Limited
6.	24239	M/s. Simple Silicon Private Limited
7.	24261	M/s. Mathias License Products (India) Private Limited
8.	24260	M/s. Mathias Marketing and Distribution Private Limited
9.	24258	M/s. Intellie Software Solutions Private Limited
10.	24224	M/s. GPSIJ Farm Limited
11.	24186	M/s. Eagle Island Hi-Tech Distribution Private Limited
12.	24185	M/s. Whizkis India Private Limited
13.	24030	M/s. Sri Sai Vishal Finance (India) Private Limited
14.	24016	M/s. Remac Consultants Private Limited
15.	24387	M/s. Golden Team Developers India Private Limited
16.	24727	M/s. Vigel Batliboi Private Limited
17.	24440	M/s. Ispat Transport Co. Private Limited
18.	28113	M/s. Linkupsys (India) Private Limited
19.	28746	M/s. Royal Office Equipments and Furniture Private Limited
20.	28029	M/s. Jasmine Networks Private Limited
21.	27388	M/s. Power Junction Dot Com Private Limited
22.	27027	M/s. Sislogic Infotech Private Limited
23.	27733	M/s. Epsilon Securities Private Limited
24.	24998	M/s. JSL Trade Connection Private Limited
25.	28514	M/s. Bentel Tech Systems Limited
26.	28645	M/s. Royal Fisheries Private Limited
27.	27007	M/s. e-Denn Networks Limited

66-46642/07

C V SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore-560 034, the 31st January 2008

No. ROCB/MCA-21/TA-MM/560(3)/2008

Notice is hereby given pursuant to sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of **THREE MONTHS** from the date hereof, the name of the above Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Company Number	Name of the Company
01	17826	HI-TECH KNITS AND FASHIONS PRIVATE LIMITED
02	36987	OK MAGAZINES PRIVATE LIMITED
03	19542	NORTH POINT PROPERTIES PRIVATE LIMITED
04	38435	Dr. CARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
05	33440	FOOD FOR THIRST PRIVATE LIMITED
06	35507	GREENFIELD DISTILLERY AND BREWERIES PRIVATE LIMITED
07	12628	INDUFLEX PRODUCTS PRIVATE LIMITED
08	14028	TAPLIN POLYMERS PRIVATE LIMITED

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 31st January 2008

No. ROCB/TA/SPS/560(3)/2007-08

Notice is hereby given pursuant to Sub-Section(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that on the expiry of **THREE MONTHS** from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to contrary, will be struck off from the register of the said companies will be dissolved.

Sl.No. Co.No. Name of the Company.

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 12043 | HILL TILLER EXPORTS PVT LTD |
| 2 | 12046 | SHREE VINAYAKA DYEING AND PRINTING MILLS PVT. LTD. |
| 3 | 12049 | MURUDESHWAR GRANITES LIMITED |
| 4 | 12037 | INNOVATORS AGRO CLINIC PVT. LTD. |

5	12033	PRECISION MEDICAL DEVICES PVT. LTD
6	12032	PRAKASH REALITY SERVICES LIMITED
7	12028	BANGALORE WEIGHING INSTRUMENTS AND SERVICE EQUIPME NTS PVT. LTD.
8	12008	PAPPUR FUEL PRODUCTS PVT. LTD
9	12065	SREE SURYALAKSHMI OIL INDUSTRIES LTD
10	12060	NISARGA CHEMICALS PVT. LTD
12	12075	VISHUCOMP SYSTEMS PVT. LTD
13	12079	A.R. GRANITES PVT. LTD.
14	12080	CHAKRINE SOLVENT OIL EXTRACTIONS PVT. LTD.
15	12093	VEEVASO CONSTRUCTIONS AND INVESTMENTS PVT. LTD
16	12100	GBS COMPUTER CONSULTANTS PVT. LTD
17	12094	VARUN SERICULTURE PVT. LTD
18	12071	SIDDHA AND GURU HOUSING PVT. LTD
19	12069	SRIDHAR AND SAMPATH ENGINEERING PVT. LTD.
20	12068	S AND S COMMUNICATIONS PVT. LTD
21	12208	NEWAGE ENGINEERS PVT. LTD
22	19870	B.B.WOVEN SACKS (INDIA) LTD
23	13015	SGB SOFT PRIVATE LIMITED
24	13007	STANDARD ELASTOMERS PVT. LTD
25	13000	VEEKAY PROMOTERS PVT. LTD
26	13044	MUDUGAL CONSTRUCTIONS AND INVESTMENTS PVT.LTD
27	13042	MITRA ROCKS PVT. LTD
28	12206	VIEW YELLOW PAGES AND MARKETING NETWORK PVT LTD
29	12203	ASHOK MANGANESE MINES PVT. LTD
30	12166	SHAMALA IMPEX PRIVATE LIMITED
31	12148	JACHIN SEA TRANSPORTS PVT. LTD.
32	12152	ARPITA BUILDERS PVT. LTD
33	12160	NEW TECH CABLE SYSTEMS PVT. LTD
34	12138	MOTI MAHAL RESTAURANTS PVT. LTD
35	12134	BHASKAR PRADHAN RAVINDRA POWERTRONICS PVT. LTD
36	12121	SAUHARDH ENGINEERING PVT. LTD
37	12111	PRAJNASHEELA INVESTMENTS AND FINANCE PVT. LTD
38	12264	BLUE BIRD ENGINEERS PVT. LTD
39	12265	INTER GNEISS PVT. LTD.
40	12267	SAHA (INDIA) PVT. LTD.
41	12270	MODULAR BUSINESS ENVIRONMENTAL SYSTEMS PVT. LTD
42	12278	BADRI TRADING COMPANY PVT. LTD
43	12281	FAMILY TIES PVT. LTD
44	12284	PRO-TECH CABLES PVT. LTD
45	12211	SUNIL SERICULTURE PVT. LTD
46	12219	RYAN CITY BUILDERS PVT. LTD
47	12234	SAFAM EXPORTS PVT LTD.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Bangalore, the 31st March 2008

No. ROCB/TA/SPS/560(5)/2007-08

Notice is hereby given pursuant to Sub-Section(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that on the expiry of **THREE MONTHS** from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to contrary, will be struck off from the register of the said companies will be dissolved.

NOTIFICATION NO. ROCB/TA/SPS/560(5)

Sl.No.	Co.No.	Name of the Company.
1	12239	NANDA DEEP TEXTILES PRIVATE LIMITED
2	12288	DIANA SPECIALITY HOSPITAL PRIVATE LIMITED
3	12246	APEX WORLD FINANCIAL AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
4	12189	AAKASH LAMPS PRIVATE LIMITED
5	12188	AZHA LAMPS PRIVATE LIMITED
6	12191	BEEJAY PLASTICS PRIVATE LIMITED
7	12209	CHIRAAG CREATIONS PRIVATE LIMITED
8	12176	SUDARSHAN STONE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
9	12184	RELISH RESTAURANTS AND CATERERS PRIVATE LIMITED
10	12190	BANGALORE MULTI PARI DEVELOPERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
11	12314	MYSORE RESHME SEEDS PRIVATE LIMITED
12	12342	NATASHA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
13	12347	CHEAR FOODS PRIVATE LIMITED
14	12375	MANGAL LOTTERIES PRIVATE LIMITED
15	12405	SHAKTI OXIDES PRIVATE LIMITED
16	12415	HARVEST EXPORTS PRIVATE LIMITED
17	12410	AMBIENCE HOTEL MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
18	12357	AAPHI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
19	12427	HETRIC GRANITES PRIVATE LIMITED
20	12363	JANVARIUS CERAMICS PRIVATE LIMITED
21	12494	POWER LAMPS PRIVATE LIMITED
22	12500	RAINFREE LABS PRIVATE LIMITED
23	12501	SHIVA METROLOGY INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
24	12505	SAICRAFT ENGINEERS PRIVATE LIMITED
25	12506	SPMINX STEEL AND ALLOYS PRIVATE LIMITED
26	12439	HAITAI DESIGN AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
27	12440	EMBEE SHARE SERVICES PRIVATE LIM
28	12454	CHENNIGARAMIAH SILK EXPORTS PRIVATE LIMITED
29	12457	M.R. TILLERS AND FARM EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
30	12467	BANGALORE GENERAL SERVICES PRIVATE LIMITED
31	12517	MOURYA GRANITES PRIVATE LIMITED
32	12529	ZELCORON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
33	12519	SPECTRA HOROLOGICALS PRIVATE LIMITED
34	12526	ARCHANA TELECOM SERVICES LIMITED
35	12533	CITIZEN DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
36	12475	MEDIA LUBRICANTS PRIVATE LIMITED
37	12490	KALYANI DISTRIBUTING COMPANY PRIVATE LIMITED
38	12583	PROSPECT FOODS PRIVATE LIMITED

39	12555	PAVANA DEVELOPERS AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
40	12574	VISION UNITECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
41	12572	VEE FIE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
42	12586	GOPAL GANESH CHITNIS INDUSTRIAL ESTATE PRIVATE LIMITED
43	12546	MAYUR SOFTWARES (INDIA) PRIVATE LIMITED
44	12597	MANSONS AGENCIES PRIVATE LIMITED
45	12598	RAMSONS PHARMATICA PRIVATE LIMITED
46	12666	NASHOFT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
47	12696	WINDSON GRANITES PRIVATE LIMITED
48	12691	THANAM BASIC MARKETING PRIVATE LIMITED
49	12690	SOUND AND SHADOW SYSTEM PRIVATE LIMITED
50	12687	PAL GRANITES PRIVATE LIMITED
51	12678	SURUYU LABELS PRIVATE LIMITED
52	12604	MANASA LAMPS PRIVATE LIMITED
53	12632	AMBA GRANITES PRIVATE LIMITED
54	12677	VISHWAMANAVA HOSPITAL PRIVATE LIMITED
55	12663	SANJAY VIKRAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
56	12658	SWIFT EXPRESS COURIERS PRIVATE LIMITED
57	12618	RAJALAKSHMI ESTATES AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
58	12651	LAL SAI CONSTRUCTIONS AND PROPERTIES PRIVATE LIMITED
59	12622	KESARLA PROJECT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
60	12645	BALAR POLYOLS PRIVATE LIMITED
61	12675	VINDHYA MARKETING PRIVATE LIMITED
62	12731	LINGAIAH AND THIMMAIAH PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
63	12737	COLUMBUS LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
64	12747	PEITRE ORIENTAL PRIVATE LIMITED
65	12756	Agiakhan Exports Pvt Ltd
66	12849	MASS POWER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
67	12858	VIKAS COOLING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
68	12802	FOTO TRAVELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
69	12804	NEPHRON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
70	12814	BELLARY FILAMENTS AND WIRES PRIVATE LIMITED
71	12842	TEXMEC EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
72	12847	BANGALORE PRIME TANNERY PRIVATE LIMITED
73	12848	VIJAY REALTORS PRIVATE LIMITED
74	12786	SHUBADEV CHEMICALS PRIVATE LIMITED
75	12787	COUNTY HOMES PRIVATE LIMITED
76	12776	ANAND MUSICS PRIVATE LIMITED
77	12869	KARNATAKA GEM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
78	12875	BRALCO STRIPS PRIVATE LIMITED
79	12887	SLIP FORM CONSUTRCTIONS PRIVATE LIMITED
80	12892	GOVINDA APTX PRIVATE LIMITED
81	12893	UNIBOND LIQUOR COMPANY PRIVATE LIMITED
82	12895	SEN'S MEDICAL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
83	12910	SURFACANT CHEMICAL PRIVATE LIMITED
84	12918	MALNAD GOLD MINES PRIVATE LIMITED
85	13046	PARAMOUNT POINTS PRIVATE LIMITED
86	13056	GREEN GOLD PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
87	13066	COLOSSAL ROCKS PRIVATE LIMITED
88	13067	NAS ADVERTISING AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
89	13007	STANDARD ELASTOMERS PRIVATE LIMITED
90	13000	VEEKAY PROMOTERS PRIVATE LIMITED
91	12991	CIVISON BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
92	12978	LUXON LAMPS AND LIGHTING PRIVATE LIMITED
93	13036	ASIAN DETECTIVE AGENCY PRIVATE LIMITED
94	13095	HOUSE OF SEASONS (INDIA) PRIVATE LIMITED

62-48652/c2

95	13085	TOWN AND COUNTRY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
96	13129	KARNATAKA SC/ST CONSTRUCTION CO. PRIVATE LIMITED
97	13072	MAHESHWARI WINES PRIVATE LIMITED
98	13127	SHAKTHI RABBIT FARMS PRIVATE LIMITED
99	13120	ROYALSTAR INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
100	13074	KOTLA PRINTERS AND PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
101	13130	ADITYA LAMPS PRIVATE LIMITED
102	13121	EASTWOOD INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
103	13119	LACTOSE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
104	13168	HARI WIRES PRIVATE LIMITED
105	13164	SILVER SHRIMPS PRIVATE LIMITED
106	13157	OCTO CIRCUITS PRIVATE LIMITED
107	13156	AARDEE SOLVENTS PRIVATE LIMITED
108	13147	RAJENDRAN TRADERS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
109	13134	OPEAD INVESTMENT PRIVATE LIMITED
110	13191	SANKIRNA PROPERTY DEVELOPERS AND FINANCIERS PRIVATE LIMITED
111	13192	ADWITHIYA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
112	13189	MADHURYA SOLVENT PRIVATE LIMITED
113	13185	POLYCAST ENGINEERING PRIVATE LIMITED
114	13213	FORTIFORI CONTROL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
115	13199	BINDU ALLOYS PRIVATE LIMITED
116	13194	YESGEE EXPORTS PRIVATE LIMITED
117	13193	SOWMYA NIRMAN ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
118	13275	GOODMARK RUBBERS PRIVATE LIMITED
119	13268	GOODRICH SUGAR AND CHEMICAL COMPANY LIMITED
120	13308	GULBARGA PLASTICS PRIVATE LIMITED
121	13295	P.N.INVESTMENTS (BANGALORE) PRIVATE LIMITED
122	13294	SHREE AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
123	13289	WOODLANDS INDIA PRIVATE LIMITED
124	13335	SRI MAHALAXMY BUS COACH BUILDERSANDFABRICATORS PRIVATE LTD
125	13319	PADMAVATHY LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
126	13313	SAROJ VIDYUT PRIVATE LIMITED
127	13600	VIKASH PLANTATION AND RESERCH LIMITED
128	13605	QXINITRO INDUSTRIAL GASES(INDIA)PRIVATE LIMITED
129	13606	FRESH FORCE MARKETING PRIVATE LIMITED
130	13540	MOUSSE AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
131	13555	CANARA GRANITES PRIVATE LIMITED
132	13560	SUDARSHAN GRANITE EXPORTERS (KARNATAKA) PRIVATE LIMITED.
133	13563	VASUDA BUILDERS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
134	13569	SUJATHA SILKS PRIVATE LIMITED
135	13308	GULBARGA PLASTICS PRIVATE LIMITED
136	13247	NAYAN SHUBHA SUPER REWINDING WORKS PRIVATE LIMITED
137	13494	BANGALORE HI-TECH SILPAD PRIVATE LIMITED
138	13498	VENKATESWARA FABRICATIONS PRIVATE LIMITED
139	13500	BENDONE VIJAY EXPORTS PRIVATE LIMITED
140	13499	BAMDEV NAYAK'S CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
141	13518	MAGNEERA INNOVATIONS LIMITED
142	13536	COPYRITE CREATIVE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
143	15865	KARAVALI AQUA CULTURE PRIVATE LIMITED
144	13610	SEEMON ENGINEERING PRIVATE LIMITED
145	13612	RICHMOND DISTILLERIES PRIVATE LIMITED
146	13619	BIDAR ORGANICS PRIVATE LIMITED
147	13631	SRI KRISHNA DEVARAYA DRUGS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
148	13625	A.A.C MANPOWER CONSULTANTS BANGALORE PRIVATE LIMITED

149	13756	NANDA GOKUL TRADE AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
150	13745	VICON FLUID POWER PRIVATE LIMITED
151	13748	PARAAG CONSOLIDATES PRIVATE LIMITED
152	13746	SHUBH LABH LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
153	13752	BAHAMA EXPORTS PRIVATE LIMITED
154	13738	SAKETH GRANITES LIMITED
155	13727	OPIUM FASHIONS PRIVATE LIMITED
156	13725	SUPREME HOUSING AND INDUSTRIAL LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
157	13731	BANGALORE ANTIPIRACY CELL PRIVATE LIMITED
158	13730	LINK AIR CARGO LIFTS PRIVATE LIMITED
159	13728	SOLUTION AEROSOLS (INDIA) PRIVATE LIMITED
160	13805	BHAVANI COMMERCIAL COMPLEX PRIVATE LIMITED
161	13803	KAMTEK MYSORE PRIVATE LIMITED
162	13795	SHONA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
163	13794	NIMISHA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
164	13788	PINOLEX PLASTICS PRIVATE LIMITED
165	13787	BOWRIKA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
166	13782	ELKAY DREDGING COMPANY LIMITED
167	13778	SAITECH COMPUTERS PRIVATE LIMITED
168	13767	NANDI PAPERS LIMITED


(V.C.DAVEY)

REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA,

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies
Bangalore, the 5th February 2008

No. ROCB/AROC(SK6)/TA-MM/560(5)/SES-2005/2008

Notice is hereby given pursuant to sub-Section(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said companies are dissolved.

Sl. No.	Company Number	Name of the Company
01	32708	T.A.R. TRADING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
02	30440	ISOFTTEL TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
03	24859	ASTRAL DETERGENTS PRIVATE LIMITED
04	35230	SUBODH WIND ENERGY PRIVATE LIMITED
05	29597	MIB SOFT PRIVATE LIMITED
06	26868	VRUKSHA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
07	30240	KOOLOX FASHION GARMENTS PRIVATE LIMITED
08	31109	FOCUS HUMAN RESOURCES CONSULTING PRIVATE LIMITED
09	24734	STARNET COMPUTERS AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
10	26891	OMTECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
11	27152	PRIME INFOSITES PRIVATE LIMITED
12	27681	eAntsoft.com Private Limited
13	24002	VESTA SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
14	26479	FANTASY TOWNSHIP PRIVATE LIMITED
15	31625	CHITRA BLUE DIAMOND DIRECT MARKETING PRIVATE LIMITED
16	32506	JUPITER TAPES AND ADHESIVES PRIVATE LIMITED
17	27422	NANO MEMBRANES PRIVATE LIMITED
18	26369	PROCON PROJECTS PRIVATE LIMITED
19	28302	TEACHANNEL PRIVATE LIMITED
20	24069	SHIVAYOGI FARMS LIMITED
21	25665	ANJANADRI CHITS PRIVATE LIMITED
22	25425	RATHNA ROY INFOGROUP PRIVATE LIMITED
23	29342	SIFFYNET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
24	27963	FUTURISTIC ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
25	30908	VENTURZ WIRELESS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
26	31206	NEXUS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
27	29828	INDIAN EXPERIENCE TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
28	28150	SUSMI CONSULTANCIES PRIVATE LIMITED
29	29191	BASAVAGOURI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
30	25016	MANGALORE PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
31	27441	SRISHTI NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
32	25666	S.N. HOMEFIN (INDIA) LIMITED

33	24606	SILENT ENGINEERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
34	30275	INTEGRATED TEACHING TEAM PRIVATE LIMITED
35	31805	eXact Outsource Private Limited
36	31189	VINAAP SOFTWARE PRIVATE LIMITED
37	25464	VASUPRADHA EXPORTS PRIVATE LIMITED
38	25977	INFOMED HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
39	29894	BHAGAVAN GANESH CHITS PRIVATE LIMITED
40	25488	ALISONS HOLDINGS & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
41	27577	XTELLIGENCE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
42	29033	BAGYANIDHI CHITS PRIVATE LIMITED
43	28068	SHUBHADHAN CHITS PRIVATE LIMITED
44	25406	VIRCON SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
45	32322	J-DAC MARKETING PRIVATE LIMITED
46	25202	STAR COFFEE ESTATES PRIVATE LIMITED
47	25203	NIRMALA COFFEE ESTATES PRIVATE LIMITED
48	27334	VERCHAS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
49	26658	TECHSAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
50	29292	SHRI SAMPATHLAKSHMI CHITS PRIVATE LIMITED
51	29639	SAURAKSHANA INSURANCE MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
52	25553	HEBRI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
53	27185	SAMVRUDDI SECURITIES PRIVATE LIMITED
54	28995	M V R R RESORTS SERVICES PRIVATE LIMITED
55	25116	SURAJ POWER & HOUSING PRIVATE LIMITED
56	26958	JBH INFRATECH PRIVATE LIMITED
57	25033	BUTTER SPONGE BAKERY & MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
58	25125	IBEX TECHNOLOGIES LIMITED
59	25421	GUDWIL AIR SEAS LIMITED
60	30361	embedX INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
61	34359	SYMCON RIVERSAND SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
62	32426	SCHUNK CLAMPING AND AUTOMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
63	25507	SEMAPHORE SOFT PRIVATE LIMITED
64	33408	MUMBAI TALK SERVICES PRIVATE LIMITED
65	28794	JEET TRAVELS PRIVATE LIMITED
66	31380	ALEXANDER TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
67	25503	GRAND INFOTECH PRIVATE LIMITED
68	33237	SAINTLIFE BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED
69	24928	ADVANCED TECHNOLOGY COLLEGE PRIVATE LIMITED
70	33492	ISIS DATA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
71	31513	ACCORD BIOTECH PRIVATE LIMITED
72	25754	KALA MATRIX METAL PRIVATE LIMITED

68-496 52/07

73	25831	HITRACK IT DOT COM PRIVATE LIMITED
74	31239	DEUCE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
75	29003	MICRO MOTORS AND COMPONENTS PRIVATE LIMITED
76	35693	SENDO CELLULAR TELECOM INDIA PRIVATE LIMITED
77	25350	ADRIJA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
78	35401	VANILLA TRADING PRIVATE LIMITED
79	24542	GAUTHAM STOCK BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED
80	30355	SHRI PRAGATI CHITS PRIVATE LIMITED
81	28369	HEGGADAL SECURITIES PRIVATE LIMITED
82	25163	SAVANTHI CHITS PRIVATE LIMITED
83	32098	QUADSCAPE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
84	29364	SAFEX CHITS PRIVATE LIMITED
85	27487	PROGRESS INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
86	24302	V.M.NEWS PRIVATE LIMITED
87	25695	BUOYANT E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
88	29872	TAIHIND ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
89	25032	GANGOTHRI STOCKS & SHARES PRIVATE LIMITED
90	29489	MANIPAL APEX CHITS PRIVATE LIMITED
91	26714	e-SOLEX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
92	26337	INFOSTREAM SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
93	30331	SRI SIDDIVINAYAKA CHITS MYSORE PRIVATE LIMITED
94	25929	SCS CHITS PRIVATE LIMITED
95	26492	SAPTAJANYA CHITS PRIVATE LIMITED
96	25204	ARCHIES PLANTATION PRIVATE LIMITED
97	30090	K.D.M. FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
98	30525	KNOLCOM MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
99	29784	TALISMA OUTSOURCE SERVICES PRIVATE LIMITED
100	24816	BELL CYBER PUB PRIVATE LIMITED
101	24151	VIVEKA SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
102	32450	DAKSHIN TRAVELS PRIVATE LIMITED
103	26686	SUKHEERTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
104	28603	N.S.R. GAS POINT PRIVATE LIMITED
105	25932	CHARWAS KNITWEAR PRIVATE LIMITED
106	27306	DEVANAND EXIM PRIVATE LIMITED
107	28920	BENAK APPAREL EXPORTS PRIVATE LIMITED
108	28336	CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TRAINING INSTITUTE PRIVATE LIMITED
109	25439	SRI SUMUKHA ARECA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
110	30397	SRI SHANMUKHA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
111	29073	JYOTI AUTO ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
112	29921	IDEOLOGIX COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
113	26867	ADVAIT PLACEMENTS PRIVATE LIMITED
114	26468	HEMAVATHI STOCKS AND SHARES TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED

116	28285	INFOGLOBE (INDIA) PRIVATE LIMITED
116	31997	HATEELA COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
117	27973	SAFEWAYS FINANCE LIMITED
118	30921	RASS TOTAL COMPUTER SOLUTION PRIVATE LIMITED
119	32482	TELECOM DATA PROCESS PRIVATE LIMITED
120	31120	SKANDA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
121	26703	PHEOBUS SOFT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
122	24495	VRUSHTI CHITS PRIVATE LIMITED
123	28116	HASANAMBA STOCKS AND SHARES PRIVATE LIMITED
124	26657	TRAVELEAGUE PRIVATE LIMITED
125	30089	SILVER COMPUTECH PRIVATE LIMITED
126	27236	NANDITH SHARES SERVICES PRIVATE LIMITED
127	26087	HIGH SPEED WENTURE PRIVATE LIMITED
128	24217	ILKAL CHITS PRIVATE LIMITED
129	27756	VISHWAS BIO-TECH PRIVATE LIMITED
130	25755	AOUM SREE ARCHITECTS PRIVATE LIMITED
131	26587	INDEA INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
132	25877	SREE GOKULA ROAD WAYS PRIVATE LIMITED
133	30877	KOUSHIK EXPORTS PRIVATE LIMITED
134	24861	TECHNOSYS INDIA PRIVATE LIMITED
135	30007	CARFUTURES MARKETING PRIVATE LIMITED
136	31640	PLANET I TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED
137	32397	CAUVERY NETWORK CONCEPTS PRIVATE LIMITED
138	31160	CHOICE MOTORS PRIVATE LIMITED
139	31917	SERVITRUS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
140	25374	MONITORY ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
141	33117	DIGITAL LAW PRIVATE LIMITED
142	29561	DEWMYST EVENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
143	26892	FUTURISTIC HERBOTECH PRIVATE LIMITED
144	30119	SHANKALP GASES MFG. PRIVATE LIMITED

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 4th February 2008

NO.TA/H/S. 560(3)SU0 MOTU /08

NOTICE is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of THREE MONTHS from the date hereof the name of the following companies mentioned herein below. Unless cause is shown to the contrary, be struck off from the Register and company will be dissolved.

Sl	Name of the company / ies	Company number
1.	Computer Products & Services Private Limited	3656
2.	Zenith Body Builders Private Limited	3929
3.	Haltsons Flour Mills Private Limited	3940
4.	Fibre Moulds Private Limited	3942
5.	Adtramark Innovators Private Limited	3955
6.	Kalpana Estates Private Limited	3964
7.	Kota's Hotel International Limited	3765
8.	Arihanth Conductors Private Limited	3767
9.	Sapphire Grasa Private Limited	3774
10.	Good Life Food Products Private Limited	3776
11.	Revathi Engineering Industries Private Limited	3780
12.	Essar Engineers Contractors & Consultants Private Limited	3790
13.	Kirana Metals Private Limited	3791
14.	Vishwakiran Hotels Private Limited	3798
15.	Ubique Presto Marketing P.Ltd	30605
16.	Shree Annapoornejwari Marketing (Bangalore) Private Limited	30608
17.	S.A.Fifth Day Diving School Private Limited	30611
18.	Axis Marketing & Consultants (Karnataka) Private Ltd.	30622
19.	Genprowess Software Private Limited	30624
20.	Aravind Design Private Limited	30634
21.	Timbercity.Net Private Limited	30637
22.	Workwell Direct Merchant Private Limited	30639
23.	Luminous Display Signs Private Ltd	30644
24.	Limra Hi-tech Planners & Developers Private Limited	30646

SANJAY KUMAR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka